



न्यूज डायरी

छह गेंद में 3 रन नहीं बना सका भारत, मैच टाई मीरपुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टी 20 मैच शनिवार को मीरपुर में बराबरी पर खत्म हो गया। टी 20 मैच जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की महिलाओं ने 4 विकेट पर 225 रन बनाये। भारतीय टीम को 226 रनों का लक्ष्य दिया। 49.3 ओवरों में भारतीय टीम सभी केवल 225 रन ही बना सकी। मैच टाई हो गया और सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटा।

यासीन मलिक मामले में 4 अधिकारी सर्वेड नयी दिल्ली। तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक मामले में जेल प्रशासन ने ऐक्शन लिया है। जेल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा में बृक मामले में चार अधिकारियों को सर्वेड कर दिया गया है। सर्वेड अधिकारियों में 1 डिप्टी सुपरिटेण्डेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेण्डेंट और 1 अन्य अधिकारी शामिल हैं।

वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी की याचिका खारिज

रांची। जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निवृत्त चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर इडी के विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। इडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गेंदा राम और राजकुमारी देवी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

झारखंड में भी बुलडोजर अपराधी का घर जमींदोज

चाईबासा। यूपी का बुलडोजर अब झारखंड पहुंच चुका है। राज्य में भी अपराधियों के घर बुलडोजर से ढाहे जा रहे हैं। अंतरराज्यीय संगठित गिरोह के सरगना शिवशंकर जोको उर्फ पड़ेया का घर प्रशासन ने जमींदोज कर दिया।

देवघर से छह साइबर अपराधी गिरफ्तार

देवघर। जिला पुलिस ने शनिवार को छापेमारी कर छह साइबर टगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से छह मोबाइल फोन और 16 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है।

तालाब में गिरी बस 17 लोगों की मौत

ढाका। बांग्लादेश में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। दक्षिण-पश्चिम बांग्लादेश में एक यात्री बस सड़क किनारे एक बड़े तालाब में गिर गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गयी और 24 से अधिक घायल हो गये।

वैधता	आभूषण
सोना (विक्री) : 56,200 ₹/10 ग्राम	
चांदी : 75,000 ₹/10 किलो	

आप ही आशा की अंतिम किरण, कोई रास्ता निकालें

आदिवासी भाइयों-बहनों पर बर्बरता निंदनीय, दिल में रही पीड़ा

खबरमन्त्रा ब्यूरो

रांची। पूरा मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। महिलाओं पर धाये गये जुल्म वाले वीडियो ने इंशानीयत को झकझोर कर रख दिया है। संविधान की गरिमा तार-तार हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में बिगड़े हालात पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए सबकी नजर आप पर टिकी हुई है। ऐसे विपरीत हालात में सिर्फ आप ही अंतिम

मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ कर बोले सीएम, अपना हुनर निखारें, लीडर बनें नये दौर में हुनरमंद होना जरूरी : हेमंत

...और क्या बोले मुख्यमंत्री

- स्किल की ही बाजार में मांग, रोजगार के बेहतर विकल्प
- कुशल युवाओं का झारखंड बनाने का है संकल्प
- शिक्षा के साथ-साथ हुनरमंद होना मास्टर डिग्री से कम नहीं

खबरमन्त्रा ब्यूरो

रांची। आज जमाना तकनीक का है। बदलते वक्त के साथ तकनीक भी बदल रही है। ऐसे में हर इंसान को हुनरमंद होना होगा। अगर आपके पास हुनर होगा तो बाजार में आपकी डिमांड भी होगी और रोजगार के बेहतर विकल्प और अवसर भी मिलेंगे। वरना जमाने से आप काफी पीछे रह जायेंगे। ऐसे में आप अपने हुनर को निखारें और अपनी जिंदगी का अहम

हिस्सा बनायें। राज्य के युवाओं को प्रखंड स्तर पर हुनरमंद बनाने के लिए शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत बिरसा योजना एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवहन भत्ता वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उक्त बातें कही।

बड़े शहरों की ओर भागना बंद होगा : सीएम ने कहा कि सरकार ने यहां के ग्रामीण नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए यह योजना शुरू की है। पहले जहां आपको कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। वहीं, अब आपको अपने प्रखंड में ही खोले जा रहे बिरसा केंद्र में अपनी रोजगार के अनुरूप फील्ड में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स निःशुल्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको रोजगार प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता भी



मिलेगा। ताकि आप अपने हुनर को बेहतर तरीके से निखार सकें।
आईकॉन बन मार्गदर्शक का रोल

हर युवक को हुनरमंद बनाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशल युवाओं का झारखंड बनाने का हमारा संकल्प है। इस कड़ी में साक्षर, निरक्षर, कम पढ़े लिखे और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के स्किल को निखारने के लिए सरकार काम कर रही है। मेरा मानना है कि आज शिक्षा के साथ-साथ हुनरमंद होना किसी मास्टर डिग्री से कम नहीं है। आज एमबीबीएस और बी टेक का कोर्स करने के बाद आप नौकरी तो पा लेंगे, लेकिन अच्छे अवसर के लिए आपके पास प्रबंधन की डिग्री भी बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि कौशल विकास से जीवन में बदलाव के साथ ऊर्जा का संवार होता है।

निर्भय : मुख्यमंत्री ने बिरसा केंद्र में स्किल डेवलपमेंट के लिए चर्चित युवक-युवतियों का उत्साहवर्धन करते हुए

चयनित युवकों से किया सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बोकारो, चतरा, गढ़वा साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक-एक प्रखंड में खुलने वाले बिरसा केंद्र में प्रशिक्षण के लिए चयनित युवक-युवतियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से 1039 प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 13 लाख 9 हजार 5 सौ रुपये और 2178 प्रशिक्षणार्थियों को 11 लाख 87 हजार 840 रुपये परिवहन भत्ता के रूप में ट्रांसफर किये।

केंद्र पर साधा निशाना

सीएम हेमंत सोरेन केंद्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले किसान का बेटा फौज में जाता था, मगर जिस तरह से केंद्र सरकार ने सैन्य बहाली में बढ़ावा दिया, उससे वहां भी नौकरी मिलना मुश्किल है। उसके बाद रेलवे और बैंक में नौकरी करते थे, मगर निर्जीकरण की वजह से वहां भी नौकरी मिलना मुश्किल है। आज देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। हालात यह हैं कि 80 प्रतिशत लोग सरकार अजाज पर आश्रित हैं। महंगाई आसमान छू रही है। इससे आम जनता त्रस्त है।

तभी अन्य बच्चे बचिचवा भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए आगे आयेंगे। (शेष पेज 11 पर)

पीएम ने 70 हजार युवाओं को दिया रोजगार का तोहफा, कहा

यूपीए काल में घाटे-घोटाले के लिए जाने जाते थे बैंक

एजेंसी

नयी दिल्ली। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि लोगों ने अगले 25 वर्षों तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत लगभग 70 हजार नवनि्युक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कहा, रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा अब आप देश का नाम रोशन करें। पीएम ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में नियुक्ति



पत्र अधिक बांटे जाते हैं, लिहाजा युवा कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है। उन्होंने यूपीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उस सरकार ने इन घोटाले किये कि बैंकों की कमर ही टूट गयी थी। तब यह सेक्टर घाटे-घोटाले के लिए ही जाने जाते थे।

भारत और पाकिस्तान में आज खिताबी भिड़ंत

कोलंबो। अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत-ए की टीम अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान-ए के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले एमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में शुरूआत करेगी। रविवार को इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल मैच खेला जायेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम इस मैच में इसलिए भी बड़े मनोबल के साथ उतरेगी क्योंकि उसने लीग चरण में पाकिस्तान को हराया है। भारतीय खिलाड़ियों को अति आत्मविश्वास से बचना होगा।

नर्सिंग, एनएम, जीएनएम की परीक्षा जल्द करायें : हाइकोर्ट

अदालत ने एडमिशन पर लगी रोक हटायी

खबरमन्त्रा संवाददाता

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के शपथ पत्र के आलोक में एनएम जीएनएम, बीएससी नर्सिंग (बेसिक) बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) के विज्ञापन पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को जल्द परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शपथ पत्र में

बताया है कि अधिसूचना में झारखंड के निवासियों को आवेदन भरने की अनिवार्यता को विलोपित कर भारत के नागरिक आवेदन दे सकते हैं। इसे एलाऊ किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनएम जीएनएम, बीएससी नर्सिंग (बेसिक) बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) के परीक्षा जो कि झारखंड कंबाईंड के जरिये किया जा रहा है उसे पुनः संशोधित विज्ञापन के साथ जल्द करायें। पूर्व में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रयोगिता परीक्षा ने

जो विज्ञापन निकाला था उसमें सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी को आवेदन भरने की अनिवार्यता थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विज्ञापन पर ही रोक लगा दी थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पेश की। बता दें कि पहले विज्ञापन में भारत के नागरिक के साथ-साथ झारखंड के निवासी होने पर आवेदन देने की बाध्यता थी, ऐसे में अब झारखंड के निवासी होना शब्द को विलोपित कर दिया गया है। (शेष पेज 11 पर)

खूंटी में नौ अपराधियों पर लगेगा सीसीए

डीजीपी के निर्देश के बाद खूंटी पुलिस की कार्रवाई

खबरमन्त्रा संवाददाता

खूंटी। संगठित और असंगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए खूंटी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के दर्जनों अपराधियों को सूचीबद्ध किया गया है और उनपर निगरानी शुरू कर दी गई है। नक्सली से लेकर नौ अपराधियों के खिलाफ सीसीए लगाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। जेल से निकले हार्डकोर नक्सलियों से लेकर 38 अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें सर्विलांस पर रखा गया है। जबकि 126 गुंडा पंजी दर्ज की गयी है। जिले में पांच वर्षों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 326 अपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जिसमें 326 अपराधी पुलिस की रडार पर हैं। अपराधियों

राहुल की याचिका पर 17 को होगी सुनवाई

रांची। रांची एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। 16 जून को इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने का निर्देश दिया था। इस आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 16 अगस्त तक राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट के इस आदेश की जानकारी राहुल गांधी के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट को दे दी है। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। यह मामला 2019 का है।

डेंगू रोधी माह

(जुलाई 2023)

डेंगू/चिकनगुनिया संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता है

याद रखें- प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे, 20 मिनट- अपने घर एवं आस पास मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करें।

क्या करें

- डेंगू/चिकनगुनिया फैलाने वाले एडिस मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं, इसलिए पानी के बर्तनों, पानी की टंकी आदि को ढक कर रखें। घर के आस-पास सफाई रखें।
- जब भी सोयें, मच्छरदानी के अंदर ही सोयें।
- एडिस मच्छर हमेशा दिन के समय काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें।
- डेंगू/चिकनगुनिया बुखार के उपचार के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। अगर डेंगू/चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।
- मच्छरों से बचाव के लिए घर की खिड़की तथा दरवाजे पर जाली लगवायें

क्या नहीं करें

- घर के आस-पास या छत पर प्रयोग में न आने वाले बर्तन, टायर आदि न रखें एवं घर में फूलर, बाल्टी, फूलदान, फ्रिज ट्रे में पानी जमा नहीं होने दें।
- टूटे हुए बर्तन, प्रयोग में नहीं आने वाली बोतलें, टिन, बेकार के टायरों को जमा न रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्हीं में पानी जमा होता है, जिसमें एडिस मच्छर पनपते हैं।
- बिना मच्छरदानी के नहीं सोयें।
- शरीर को पूरी तरह न ढकने वाले कपड़ों का प्रयोग नहीं करें।
- बुखार होने पर उसे अनदेखा नहीं करें।
- बगैर जाली लगे खिड़की तथा दरवाजे शाम एवं सुबह में खुले न रखें, क्योंकि इस समय मच्छरों का प्रकोप अधिक रहता है।

तेज बुखार, जोड़ें एवं मांसपेशियों में दर्द को अनदेखा न करें, यह डेंगू/चिकनगुनिया हो सकता है।

ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

मणिपुर घटना पर राष्ट्रपति को हेमंत का पत्र



उम्मीद बची है जो वहां की व्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि क्रूरता के सामने चुप्पी एक भयानक अपराध है और इसलिए मैं मणिपुर राज्य में जारी हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको लिखने के लिए मजबूर हूं। राष्ट्रपति के रूप में, न्याय और

करुणा के सिद्धांतों को बनाये रखने के प्रति आपको दृढ़ प्रतिबद्धता हमेशा हम सभी के लिए मार्गदर्शक रही है। मणिपुर और भारत के सामने संकट की इस सबसे काली घड़ी में, हम आपको आशा और प्रेरणा के अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं। आप ही इस कठिन समय में मणिपुर के लोगों और भारत के सभी नागरिकों को रोशनी दिखा सकते हैं। इस देश के एक चिंतित नागरिक के रूप में, मैं मणिपुर में बढ़ती स्थिति से बहुत व्यथित और चिंतित हूं। दिल पीड़ा से भरा हुआ है। अकथनीय यानना और महिलाओं का यौन शोषण, विस्थापन और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले कई जातीय समूहों के बीच असुरक्षा की गंभीर भावना पैदा हो गयी है। (शेष पेज 11 पर)



श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में नयी सोच कार्यशाला संपन्न हुई



जमशेदपुर। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में यंग इंडियन के तत्वधान में नई सोच कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर यंग इंडिया के उद्यमशीलता एवं शोधकर्ता, इलेक्ट्रॉनिक अभियंता एवं व्यवसायी अर्जुन मुरारकर टीम के सदस्य एवं बिजनेसमैन शेखर अग्रवाल, यंग इंडिया के लिविंग एवं जी-20 टीम सदस्य आयुष सबरवाल सदस्य सागर, विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह, प्रवीण अरोड़ा सी सी ए ग्लू की कोऑर्डिनेटर, कक्षा पंचम से अष्टम वर्ग के छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा की डिजाइन थिंकिंग व्यवहारिक रचनात्मक समस्याओं के समाधान एवं समाधान निर्माण करने का एक विधि है यह साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यवसाय सभी क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है इसे डिजाइन थिंकिंग क्यों कहे? क्योंकि यह नई प्रक्रिया रचनात्मक और नवीन तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए मानव केंद्रित तकनीकों को व्यवस्थित रूप से रखने और लागू करने में मदद करती है। यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ताओं को समझने, भावनाओं को चुनौती देने, चुनौतियों को फिर से परिभाषित करने एवं नवीन समाधान ढूँढना होता है यह हमें बरबस से बाहर निकल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है इस तरह छात्रों को लौकिक से हटकर सोचने एवं समस्याओं के तह तक जाने का अवसर देती है।

आगन्तुकों ने छात्रों से तरह तरह के समस्याओं के बारे में प्रश्न किया फिर उनके समाधान के लिए नए सोच विकसित करने के लिए कहा। इसतरह यह कार्यशाला छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं प्रेरक रहा। प्रधानाचार्य ने यंग इंडिया के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

गोडाडीह में रक्तदान शिविर 30 को

जमशेदपुर। सुंदरनगर शाना क्षेत्र के गोडाडीह टोला-नपितडीह के प्राथमिक विद्यालय परिसर में आगामी 30 जुलाई को पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। सामाजिक संस्था नई जिंदगी परिवार जमशेदपुर और नावा जुवान जुमिद आखंड गोडाडीह के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए स्थानीय मुखिया पलटन मुर्मू ने कहा कि रक्तदान महान है और इस शिविर में सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वही 71वीं बार रक्तदान कर चुके जमशेदपुर निवासी राजेश माडी ने बताया कि जमशेदपुर ब्लड बैंक की टीम रक्त संग्रह करेगी और इस गांव में पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने पर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और खासकर गांव के महिलाओं में भी रक्तदान के प्रति अभी से जागरूकता देखी जा रही है। उम्मीद है कि सभी सक्षम युवा, छात्र, प्रबुद्ध नागरिक एवं बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगे। रक्तदान के बाद सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति सम्मान पत्र एवं विशेष रूप से उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें रक्त भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से आखंड के अध्यक्ष उदय माडी, मुखिया पलटन मुर्मू, राजेश माडी, राजाराम भूमिज, सुधाकर सरदार, संजय माडी, रंजीत सिंह, विराम माडी, गोविंद सिंह, मंदू महतो आदि उपस्थित थे।

मणिपुर की घटना के खिलाफ पीएम का पुतला दहन



जमशेदपुर। मणिपुर की घटना के विरोध में शनिवार को जेएमएम मानगो नगर समिति द्वारा डिमना चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। मौके पर जेएमएम नगर समिति अध्यक्ष फतेह चंद्र टुंडू ने कहा कि देश में जिस प्रकार आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जेएमएम उसका विरोध करता है, मणिपुर मध्यप्रदेश में जिस प्रकार आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही जेएमएम नेता बाबर खान ने कहा कि मणिपुर की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा बेटे बचाओ और बेटे पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में महिलाओं के साथ कृत्य हो रहा है और गुहमंत्री मौन है।

मदरसा दारुस सलाम के सचिव हाजी असरफ ने दिया इस्तीफा

जमशेदपुर। मानगो आजादनगर की सब से पुराना मदरसा दारुस सलाम के सचिव हाजी असरफ अली अंसारी ने मदरसा के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा मदरसा के अध्यक्ष डॉ नूरजमां खान को सौंपा जो स्वीकार कर लिया गया है।

कारगिल विजय दिवस पर 26 को शहर में निकाली जायेगी सैनिक सम्मान यात्रा

नाम्या स्माइल फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे शहर के हजारों देशभक्त आयोजन की सफलता के लिए तैयारी अंतिम चरण में पहुंची : कुणाल घाडंगी

खबर मन्त्र व्यूटे

जमशेदपुर। शहर की सामाजिक संस्था नाम्या स्माइल फाउंडेशन की ओर से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बुधवार को 'सैनिक सम्मान यात्रा' निकाली जाएगी। शनिवार को साकची के स्थित कालीमाटी बैक्केट हल में आयोजित प्रेस-वार्ता में संस्था के संस्थापक सह पूर्व विधायक कुणाल घाडंगी ने सैनिक सम्मान यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 26 जुलाई, दिन- बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिक सम्मान यात्रा



संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पूर्व विधायक कुणाल घाडंगी एवं सहयोगी।

मानगो गांधी मैदान से सुबह 9 बजे मार्गों से होकर गुजरेगी और पहुंचकर सम्पन्न होगी। शहीद गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक पर प्रारंभ होगी। जो शहर के विभिन्न गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को पुष्प

सैनिक सम्मान यात्रा मानगो गांधी मैदान से सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी, यह शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी और गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर संपन्न होगी

अर्पित कर एवं नमन कर यात्रा का विधिवत समापन होगा। उन्होंने बताया कि यात्रा में देशभक्ति गीत और देशभक्ति झांकी भी रहेगी। वहीं, यात्रा में शामिल सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। कुणाल घाडंगी ने बताया कि सैनिक सम्मान यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी शहीद के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होने के लिये शहर के

विभिन्न सामाजिक संस्था, पूर्व सैनिकगण समेत शहर के गणमान्य लोगों को आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। पूर्व विधायक कुणाल घाडंगी ने लौहनगरी वासियों से सैनिक सम्मान यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और युवा वर्ग को देशप्रेम के प्रति प्रेरित करने की अपील की है। इन मार्गों से होकर गुजरेगी सैनिक सम्मान यात्रा: संस्था द्वारा सैनिक सम्मान यात्रा के मार्ग का विवरण जारी किया गया है। जिनमें यात्रा मानगो गांधी मैदान से

प्रारंभ होकर खुदीराम बोस चौक, मानगो पुल, साकची गोलचक्कर, जुस्को गोलचक्कर, बिस्टुपुर, जुगसलाई, फटेडन, बर्माहांस, लालबाबा राउंड, टिनप्लेट चौक के रास्ते गोलमुरी गोलचक्कर होकर गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक में सम्पन्न होगी। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नाम्या स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल घाडंगी, निमल बैठा, निधि केडिया, इंंदरजीत सिंह, धवल सेठ, पूर्णेंद्रु आचार्य, सतप्रीत सिंह, निर्मल कुमार व अन्य मौजूद रहे।

बीए इंजीनियरिंग कॉलेज में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम लांच

सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में छात्र कर सकेंगे डिप्लोमा

तीन ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग शामिल है

खबर मन्त्र व्यूटे

जमशेदपुर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त करने के बाद बी ए कलेज अफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (बीएसटी), घुटिआ, जमशेदपुर में इस वर्ष 2023 से तीन ब्रांच में 3 - वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल



पाठ्यक्रम की जानकारी देते बिहार एस. के अध्यक्ष बीएन चौधरी व वेयरमैन डॉ एसके सिंह व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी।

इंजीनियरिंग शामिल है। इन तीनों ब्रांच के लिए एआईसीटीई के द्वारा 60 - 60 सीटों की मान्यता दी गयी है। बीएसटी में इस समय डिप्लोमा के अलावा 4 - वर्षीय बी टेक तथा 3 - वर्षीय बीबीए एवं

बीबीए कोर्स का संचालन किया जा रहा है। बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष बी एन चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी एवं उच्च शिक्षा से युक्त शैली प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की जाएगी। इस प्रेस विज्ञापन में संस्थान के महासचिव सी पी एन सिंह, कोषाध्यक्ष विवेकानंद एवं कालिज की प्रधानाध्यापिका अनुमिता सेन गुप्ता भी उपस्थित थे।

वाराणसी में सत्याग्रह कर रहे गांधीवादी अरविंद अंजुम समेत कई गिरफ्तार



जमशेदपुर। गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी कैम्पस पर वाराणसी कमिश्नर द्वारा कब्जे के खिलाफ दो माह से सत्याग्रह कर रहे गांधीवादी अरविंद अंजुम समेत अन्य गांधीवादीयों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस पुलिसिया एवं प्रशासनिक अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर के गांधीवादी और उनके समर्थक रिवार को सुबह 10 बजे से साकची बिरसा मुंडा गोलचक्र के पास सत्याग्रह करेंगे। यह जानकारी गांधीवादी कार्यकर्ता सुखचंद्र झा ने दी है। झा ने बताया कि सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ हम लोग पिछले दो महीनों से अपने परिसर में सत्याग्रह कर रहे हैं। इसके साथ ही हमलोग अदालत की शरण में भी गये। मामला अभी विचाराधीन है।

निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर अग्रसेन भवन में 1 अगस्त से

खबर मन्त्र व्यूटे

जमशेदपुर। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा अगस्त 01 से तीन दिवसीय त्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन साकची के अग्रसेन भवन में किया जा रहा है। अध्यक्ष मोहित मुनका ने बताया यह शिविर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ किया जा रहा है। इस शिविर में विकलांगों को ना सिर्फ कृत्रिम अंग जैसे कि हाथ या पैर दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ जरूरतमंदों को वैशाखी एवं श्रवण यंत्र देने की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि मंच का लक्ष्य 300 से ज्यादा लोगों को इस शिविर में लाभ पहुंचाने का है। और मंच द्वारा इस शिविर का प्रचार-प्रसार निरंतर जारी है कोशिश यह भी है कि इस शिविर के बारे में दूर से दूर गांव तक



लोगों को बताएं जय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस शिविर का लाभ ले सके। इसके लिए मंच द्वारा हैंड बिल छपाया गया जो कि हिंदी के साथ साथ बंगला एवं उड़िया भाषा में भी है ताकि दूर गांव बैठे अंतिम व्यक्ति को भी इस शिविर से जोड़ा जा सके मंच की ओर से वे अपील करते हैं की ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिविर के बारे में उन जरूरतमंदों को बताएं ताकि उनकी जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। सचिव सोरब सांख्योलिय ने जानकारी दी कि

डॉक्टर और टेक्नीशियन की टीम बाहर से आ रही है और इस कार्यक्रम के संबंधित सभी सामानों का जमशेदपुर आगमन जल्द हो जाएगा। संयोजक पंकज संघी ने बताया कि अब तक हमारे पास 125 रजिस्ट्रेशन आ चुका हैं जिसमें की दूरदराज क्षेत्र जैसे चरारा, पलामू, लोहराड़ा, सिमडेगा, जदूगोहड़ा, नवामुंडी, डालतनगंज एवं सिवान क्षेत्र से भी काफी रजिस्ट्रेशन आ रही है। पंजीकरण हेतु 9334829131-7739295574 अथवा 0657-2231242 पर सम्पर्क किया जा सकता है। प्रेस वार्ता में कोषाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, दीपक पटवारी, प्रशांत अग्रवाल, अंकित मुनका, रमेश अग्रवाल, अंकुश मोदी, आलोक अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अवशेष अग्रवाल नवनीत बंसल अग्निभेष छापोरिया, राहुल चौधरी व अन्य उपस्थित थे।

समान नागरिक संहिता देश की अखंडता के लिए खतरनाक : दुलाल भुइयां

खबर मन्त्र व्यूटे

जमशेदपुर। 21 जुलाई को ऑल इंडिया माइनोरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा आयोजित जनक्रोश सर्वधर्म सभा पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दुलाल भुइयां ने कहा कि देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए पर चलता है। एक देश में एक कानून की बात करने वाले को बताना हमसा सम्पन्न नहीं होगी। अधिका सीमा सिंह अधिकार मिलेगा या फिर वही अपमानित वाली जिंदगी दलित समाज जीने को मजबूर होगी कहा देश के संविधान को किनारे कर भाजपा और आरएसएस अपने पक्षान फ्लान पर भारत वासियों को चलने के लिए मजबूर कर रही है जिसे हम कहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर अधिवक्ता कुलचिंदर सिंह ने कहा कि किसी की भी धर्म



चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू लोग हो इस पर छेड़छाड़ की बात करना असंभव है। यह मामला उच्चतम न्यायालय जाएगा जहां सरकार की मनसा सम्पन्न नहीं होगी। अधिका सीमा सिंह ने कहा कि धार्मिक पुस्तक या किसी के धार्मिक मामले हस्तक्षेप बिना उनके धार्मिक गुरु के सहमति से नहीं की जा सकती इसका विरोध हर जगह और हर समाज के लोग कर रहे हैं केवल वोट की राजनीति करने वाले लोग गंदी राजनीति की मंशा से यूभीसी जैसे शब्द को लाकर लोगों को मजबूर करने का काम किया है।

कोल्हान वन प्रमंडल ने बासाकुट्टी गांव में मनाया 74वां वन महोत्सव

खबर मन्त्र व्यूटे

जमशेदपुर। कोल्हान वन प्रमंडल,चाईबासा के तत्वावधान में 74 वां वन महोत्सव बासाकुट्टी गांव में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दशरथ गगराई, खारसावां विधान सभा क्षेत्र, विशिष्ट अतिथि सिद्धार्थ होनहागा, प्रखंड प्रमुख, खुटपानी थे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण व दीप प्रज्वलित के साथ सभी अतिथियों को पौधा देकर की गई।



विधायक दशरथ गगराई ने अपने संबोधन में कहा कि आज विकास के दौर में पर्यावरण के संरक्षण हेतु सभी लोगों को आगे आना चाहिए हमारी थोड़ी सी प्रयास है। कोल्हान वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि 1950 के.एम मुंशी के द्वारा वन

महोत्सव की शुरुआत की गई। आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संपदा का परंपरिक तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियां इसका उपयोग कर सकें। बिरसा तितु ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवश्यक है।

श्रीनाथ विश्वविद्यालय ने कनाडा के लॉरेंटियन विश्वविद्यालय से हाथ मिलाया

एजुकेशनल रिसर्च और छात्र विनिमय में करेंगे आपस में सहयोग

खबर मन्त्र व्यूटे

जमशेदपुर। श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर ने लॉरेंटियन विश्वविद्यालय, कनाडा के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू के अनुसार, दोनों विश्वविद्यालय समन्वयित, नवाचार, अनुसंधान विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास गतिविधियों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन में एकदूसरे को सहयोग करेंगे। इस एमओयू के तहत दोनों विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर



रोजगार, वैश्विक आवश्यकताओं और मानकों के अनुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ-साथ संयुक्त व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रमों के विकास और वितरण में पहल करेंगे। इस एमओयू से विज्ञान, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों को नवाचार और नौकरी-उन्मुख विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में अत्यंत लाभ होगा। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुखदेव महतो ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा और जैसे कौशल से युक्त करें कि वे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें, इसलिए हमलोग आने वाले समय में भी इस प्रकार के एमओयू करते रहेंगे। डॉ. संतोष कुमार (श्रीनाथ



विश्वविद्यालय में विदेश मामलों के मुख्य-समन्वयक) ने बताया कि दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से छात्रों के ज्ञान को अद्यतन (अपडेट) करने के लिए समसामयिक विषयों पर थोड़े-थोड़े अंतराल पर विशेषज्ञों को आमंत्रित कर वार्ता और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करेंगे तथा श्रीनाथ विश्वविद्यालय के छात्र

कनाडा में लॉरेंटियन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 45-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स एक्सचेंज (छात्र विनिमय) कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। इस एमओयू में श्रीनाथ विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति डॉ गोविंद महतो, डा संतोष कुमार (श्रीनाथ विश्वविद्यालय में विदेश मामलों के मुख्य-समन्वयक), विभागाध्यक्ष शशिकांत सिंह, अनुज कुमार पांडेय तथा लॉरेंटियन विश्वविद्यालय, कनाडा की ओर से प्रो. कल्पदरुम पासो, डा. रमेश सुब्रह्मण्यम, निदेशक, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन तथा वास्तुकला संकाय के डीन डॉ जय ग्रे-मुनरो ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

खबर एक नजर में

मोहरदा जलापूर्ति योजना : सैटलिंग पांड व भुवनेश्वरी मंदिर के पास नयी पानी टंकी का निर्माण होगा



बैठक करते विधायक सरयू राय। साथ में हैं एसडीओ पिप्लू सिन्हा, जेएनएस्सी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार व अन्य।

जमशेदपुर। मोहरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना के वर्तमान काल का सुदृढीकरण करने और इसके विस्तारित फेज-2 का क्रियान्वयन करने पर विचार करने के लिए एक बैठक का आयोजन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में जमशेदपुर अक्षेस कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पिप्लू सिन्हा, जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी, संजय कुमार और टटा स्टील यूआईएसएल राजवर्धन तथा इस परियोजना के लिए चयनित परामर्शी वेपकोस के प्रतिनिधि शामिल हुए। विधायक सरयू राय ने बैठक में बताया कि समय पर गणतन्त्र युक्त जलापूर्ति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए नए सैटलिंग पांड का निर्माण, नए राईजिंग पाइप का निर्माण, भुवनेश्वरी मंदिर के पास नए जीएसआर टंकी का निर्माण कराना अत्यंत आवश्यक है। विधायक राय ने बताया कि सभी पानी टंकीयों का जीर्णोद्धार करना एवं सुरक्षा के लिए व्हाटरदायीरी का निर्माण आवश्यक है। राय ने अक्षेस को निर्देश दिया कि पानी टंकी परिसर में पर्याप्त रोशनी के लिए सोलर लाइट अधिष्ठापन कराया जाय। परिसर में अनुदेश बोर्ड लगाया जाय ताकि कोई भी संपत्ति को क्षति न पहुंचाये। आगे चलकर सौंसीटीवी लगाकर निगरानी की जा सकती है। विधायक राय ने कहा कि क्षेत्र वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए जनकेशन चार्ज को कम करने के लिए प्रत्येक मुहल्लों में पाइपलाइन बिछाई जाय। जिससे नजदीक से कनेक्शन मिलने के कारण कनेक्शन चार्ज भी कम होगा पापना और पानी का प्रेशर भी ठीक रहेगा। राय ने सैटलिंग पांड का निर्माण, नए राईजिंग पाइप का निर्माण, भुवनेश्वरी मंदिर के पास नए जीएसआर टंकी का कार्य के लिए सर्वे 5 अगस्त तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट 15 अगस्त तक एवं 30 अगस्त तक डीपीआर तैयार कर लेने के लिए कहा। इसके लिए नियुक्त परामर्शी वेपकोस को वृद्ध स्तर पर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट के साथ इसका विश्लेषण करने के लिए अगली बैठक 18 अगस्त को करना तय किया गया। राय ने कहा कि पानी टंकी के नीचे अतिरिक्तजरवर बनाने की संभावना तलाशी जाय। उन्होंने सरकारी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बीपीएल श्रेणी के परिवार को निःशुल्क पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय। जमशेदपुर की बढ़ती आबादी, बिरसानगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 9592 परिवारों के साथ साथ जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 25000 घरों में पेयजल आपूर्ति की सुविधा के लिए मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के निर्माण पर जोर दिया। मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज 2 के तहत 25 एम्पलटी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। विधायक सरयू राय ने पूरे जमशेदपुर शहर एवं आसपास जैसे बागबैठा, परसुडिया, खडगाझार, अकाशनगर, गोविंदपुर, मानगो, आदित्यपुर आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए सरकार के विभागीय सचिव एवं टटा स्टील लि. के साथ संघी में वार्ता करने की बात कही।

साकची हाई स्कूल में हेल्थ चेकअप एंड ब्लाड डोनेशन कैम्प आज

जमशेदपुर। साकची हाई स्कूल के प्लेटीनम जुबिली समारोह के तहत 23 जुलाई को साकची धालभूम रॉड स्थित स्कूल परिसर में एक स्वास्थ्य जांच शिविर सह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र डा अभित कुमार दास, डा माणिकपदो सिंघा, डडा सुशोभित बर्नजी और नेत्र गंग विशेषज्ञ डा सतीश सिंह आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच करेंगे। इस अवसर पर साकची समेत पूरे शहर से लोग आकर यहां स्वास्थ्य जांच कराया संकेत बल्कि इच्छुक लोग रक्तदान भी करेंगे। रक्तदाताओं को प्लेटीनम जुबिली कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया जायेगा। यह जानकारी प्लेटीनम जुबिली समारोह कमेटी की पुरबी घोष व देबाशीष नाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर शुभेन्द्रु विश्वास, शुभदीप मंडल, शिवानी घोष आदि उपस्थित थे।

अशोक झा एंड टीम ने संभाली रोटी वलब ऑफ जमशेदपुर मिडटाउन की कमान



जमशेदपुर। रोटी वलब ऑफ जमशेदपुर मिड टाउन के अध्यक्ष, सचिव और बीओडी का 38वां पदस्थापना समारोह 22 जुलाई को केनेलाइट होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आईपीडीजी आरटीएन सजीव ठाकुर मुख्य अतिथि थे और पीडीजी आरटीएन प्रतिम बर्नजी कार्यक्रम के इंटरालेशन अधिकारी थीं। आरंभ में निवर्तमान राष्ट्रपति ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। फिर उन्होंने पिछले वर्ष की गतिविधियों की एक झलक दी और योगदान देने वाले सदस्यों को पुरस्कार प्रदान किए। निवर्तमान अध्यक्ष, आरटीएन शंकर पाठक और सचिव, आरटीएन प्रीति सेनी ने आगामी अध्यक्ष, आरटीएन डा अशोक झा और सचिव, आरटीएन डाज्योति सिंह को कमान सौंपी। स्थापना अधिकारी ने आरसीजेएमपी के नए अध्यक्ष, सचिव और बोर्ड सदस्यों को शामिल किया। नए बीओडी में अध्यक्ष के रूप में आरटीएन डा अशोक झा, सचिव के रूप में आरटीएन डा. ज्योति, संयुक्त सचिव शामिल हैं। सचिव आरटीएन ड एफनात अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आरटीएन सरोज झा, निदेशक जनसंपर्क एवं छवि आरटीएन प्रीति सेनी, निदेशक सदस्यता आरटीएन राजेश्वर जयसवाल, निदेशक साक्षरता आरटीएन शिवा राव, निदेशक फाउंडेशन आरटीएन कुसुम ठाकुर, निदेशक न्यू जेनरेशन सर्विसेज आरटीएन आशीष दास, निदेशक सेवा परियोजनाएं आईपीपी आरटीएन शंकर पाठक, आर निदेशक वलब प्रशासन आरटीएन डीएस चोहान। कार्यक्रम की एमसी आरटीएन कुसुम ठाकुर थीं। आने वाले सचिव आरटीएन सिंह ने सचिव की रिपोर्ट पढ़ी, आरटीएन आशीष दास ने वीओटी दिया और आरटीएन प्रीति सेनी ने सार्जेंट-एट-आर्मस रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बीओबी में कड़ा कृति कार्यशाला का उद्घाटन

जमशेदपुर। बैंक ऑफ इंडिया के 116वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज दिनांक 21 जुलाई, 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय जमशेदपुर द्वारा अपने कॉर्पोरेट समाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए घेतनसिका, बरकेला, चाईबासा में जमशेदपुर स्थित गैर सरकारी संस्थान 'कलामंदिर' के संयोजन में कारु कृति कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य गांव व लघु उद्यम के साथ आदिवासियों के लिए सतत रोजगार को स्थापित करना एवं प्रोत्साहित करना है। इस कार्यशाला के माध्यम से कारीगरों के लिए रोजगार उन्मुख प्रयासों, उपकरणों, शेड आदि का प्रायोजन पूर्ण रूप से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इस प्रायोजन व्यवस्था में बैंक ऑफ इंडिया की बड़ाजगदा, चाईबासा, चाईबासा मुहल्लसई, कच्छरपुर एवं जगन्नाथपुर शाखा का योगदान रहा। उद्घाटन सत्र में बैंक के अधिकारियों द्वारा बैंक के विभिन्न ऋण योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का विवरण दिया गया। समारोह में बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख मनीष प्रकाश सिन्हा, अनिल कुमार, अरुण, राजीव कुमार सिंह, परमेश्वर पूर्ति, कलामंदिर के संस्थापक अमिताभ घोष विशेष रूप से उपस्थित थे।



स्पीड न्यून

महुडंड मुखिया मीना देवी ने पी सी सी पथ का किया शिलान्यास

हुसैनाबाद। प्रखंड अंतर्गत महुडंड पंचायत के मुखिया मीना देवी ने 15वें वित्त योजनाआयोग से ग्राम महुडंड में बलेश्वर यादव के घर से नन्देव यादव के घर तक पीसीसी पथ निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में जितने भी कार्य हैं उसे प्राथमिकता के आधार किया जा रहा है आलोग समान्यव बनाए रखें। कार्य निश्चित होगा?। वही युवा समाज सेवी शिवशंकर यादव ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में काफी समय से पिछड़ा हुआ है। धीरे धीरे कार्य प्रगति पर आ रहा है। गली- नाली के कार्य किया जा रहा है। आपलोग समन्यव बनाकर कार्य करें। मौके पर मौजूद रहे पंचायत समिति सदस्य महुडंड रमेश पासवान, उप मुखिया राम बेनी यादव वार्ड सदस्य विष्णु साह, रामजी यादव, विनोद यादव,राकेश राशि संजय यादव, विरेन्द्र रावि, नमीना यादव, हरी यादव, स्वयंम सेकक जितेंद्र यादव,राम स्वकप यादव, सुरेंद्र पासवान, बलेश्वर यादव, मंदेश यादव, आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

पौधारोपण अभियान चलाने को लेकर विभाग को ज्ञापन

मोहम्मदगंज पलामू। पर्यावरण सतुलन और वृक्ष की छाया से आसानी से आलसियों को राहत मिल सके इसके लिए शनिवार को जिला पार्षद प्रतिनिधि युवा समाजसेवी अधिवनी कुमार सिंह मोहम्मदगंज वन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रभारी नयाल मिश्रलेख कुमार को ज्ञापन सौंपा। सिंह ने कहा कि मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय, सरकारी संस्थानों सहित मोहम्मदगंज जगला मुख्य पथ में जिनताड़ से बिहरा गांव तक, भजनिया से रानीदेवा तक, चचेरिया से पचपोखरी गांव तक कवलपुरा मोड़ से भाली होते हुए पिपरबन्ध तक सड़क किनारे पौधारोपण के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर वनकर्मी मिथुन कुमार के अलावा अजित कुमार सिंह, कुन्दन कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह, रविशंकर बिट्टू सिंह, अशरेश यादव आदि उपस्थित थे। वनापल मिथुन कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत वनक्षेत्र के अंतर्गत सरकारी संस्थान, विद्यालय सहित सार्वजनिक स्थान पर चाहरदीवारी के अंदर पौधारोपणकिया जाना है। जिला पार्षद प्रतिनिधि ने चाहरदीवारी की व्यवस्था वाले विद्यालय और संस्थानों की जानकारी उपलब्ध कराया।

रक्तदान से होता है चरित्र निर्माण : डॉ अग्रवाल

मेदिनीनगर। लायंस क्लब इंटरनेशनल की युवा शाखा 'लिओ क्लब ऑफ डाल्टनगंज पलामू' के नीलावन में शनिवार को नारायण ब्लड सेंटर में रक्तदान किया। आधे से अधिक युवा पहली बार रक्त दे रहे थे। रक्तदान के महत्व को समझते हुए डॉ एन सी अग्रवाल ने नारायण क्लब के सेवा भाव एवं सेवा करने के जन्मे की सराहना की और बताया कि इसकी जुनियर विंग लिओ क्लब के आने से इनकी सेवा कार्यों में वृद्धि होगी। डॉ अग्रवाल ने कहा कि जो युवा रक्तदान करता है निजी तौर पर समाज के बारे अच्छा सोचता है, उसमें देने की प्रवृत्ति पैदा होती है। डॉ गहल अग्रवाल ने सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें अप्रीप्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किए। कार्यक्रम में डॉ गौरव अग्रवाल ने सभी युवाओं का स्वागत करते हुए उन्हें आवश्कत किया कि आने वाले समय में लिओ क्लब के साथ कोई भी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सक्रिय योगदान देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्टडी मोंटोवेटर ब्यंड डोनेशन लार् इन्द्रजीत सिंह डिपल ने रक्तदान करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीजन चैयरपर्सन समीर खन्ना, अध्यक्ष आलोक माथुर, पूर्व अध्यक्ष नीलम गुप्ता, सचिव रितेश कुमार के अलावा लिओ क्लब के अध्यक्ष मेहर सिंह, साहब सिंह नामधारी, ऋषभ आनंद, दीपांशु शिषम, अभिषेक रोशन, तेज प्रताप रिपुत्सम सिंह, विकास कुमार सिंह, कर्मन आनन्द, अमर गोसांमी ने रक्तदान किया।

यूनियर्सल सेवा समिति द्वारा रोजगार मेले का आयोजन

छतरपुर पलामू। छतरपुर के युवा भी अब रिक्रूट हो रहे हैं और उनका प्लेसमेंट भी दूसरे राज्यों में होने लगा है। सरदेही रोड स्थित यूनियर्सल सेवा समिति के कैम्पस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीस सूत्री अध्यक्ष गोपाल सिंह, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविन्द गुप्ता बुनमुन शामिल हुए। इस मौके पर संस्थान के छात्रों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर यूनियर्सल सेवा समिति के तत्वाधान में सैपलिंग टेलर और इलेक्ट्रोनियस के युवाओं के बीच पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आये वरीय अधिकारी एमडी आलम की उपस्थिति में प्लेसमेंट के लिये मुख्य अतिथियों द्वारा ऑफर लेटर और सर्टिफिकेट बांटे गए। इस अवसर पर छतरपुर विकास मंच के अध्यक्ष अरविन्द गुप्ता बुनमुन ने कहा कि रोजगार परक शिक्षा से ही इलाके का कायाकल्प सम्भव है, अपने भाग्य के निर्माता खुद बने युवा उन्होंने कहा कि आज युवा वर्ग प्रोफेशनल बन कर अपने परिवार और इलाके की तरकी बढल सकते हैं। वहीं बीस सूत्री के अध्यक्ष गोपाल सिंह ने कहा कि रोजगार के लिए संस्था का प्रयास सराहनीय है। संस्था के कॉर्डिनेटर जुवेर आलम ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ योग्य नगरिक बनाने की भी है। प्रशिक्षित युवाओं को अरविन्द गुप्ता, गोपाल सिंह और नसरुल्लाह अंसारी के द्वारा संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट और नियुक्ति पत्र विनित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के गिरीश कुमार, गौरव मिश्रा, दिनेश कुमार, देवेन्द्र कुमार, धर्मराज, अंजु कुमारी, रीता कुमारी, पूनम कुमारी, प्रियंका, अरूण सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र और उनके अभिभावक उपस्थित थे।

ए के सिंह कॉलेज में वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार के मामले में गवर्नर ने लिया सज़ान

हुसैनाबाद पलामू। एनपीयू अंतर्गत ए के सिंह कॉलेज जगला में विश्वविद्यालय नियमों-परिनियमों को ताक पर रखकर प्रभारी प्राचार्य एवं प्रबंधन द्वारा अवैध वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सह राज्यपाल ने गभीरता से लेते हुए नीपी विधि, मेदिनीनगर को जांच का आदेश दिया है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के पत्रांक एनपीयू-01/2023-1118/जीएस, दिनांक12 अप्रैल 23 के परिप्रेक्ष्य में निधि विधि के कुलपति ने एक जांच कमेटी का गठन कर वित्तीय अनियमितता की जांच कर अतिशय गंज प्रातिवेदन जमा करने का आदेश दिया है। इस आशय की एक अधिसूचना मेमो नंबर-355 के तहत रजिस्टार द्वारा 13 जून को ही जारी की गई है। एक माह बीत जाने के बाद भी जांच कमेटी के अध्यक्ष गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज के प्राचार्य एवं सदस्य में डॉ के सी झा प्रांवर एनपीयू, डॉ गजेन्द्र सिंह गणित विभाग अध्यक्ष एवं सचिव डॉ राज खान एडीशनल रजिस्टार एनपीयू को बनाया गया है लेकिन जांच प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है। शिक्षायतकर्ता द्वारा जिन आठ बिन्दुओं पर जांच की मांग की गई है उसमें विधि के अधिकारियों की भी संलिप्तता का आरोप है। शिक्षागत पत्र में कहा गया है कि कॉलेज में झारखंड विधि अधिनियम का उल्लंघन कर अर्पूण एवं अवैध शासी निकाय का गठन किया गया है जिसे नीलाबर पीताम्बर विधि द्वारा अधोषिठ सहमति प्राप्त है। कॉलेज में कार्यरत सहायक प्राध्यापक सुधीर कुमार सिंह ने एक ही कालखंड एवं समय में इस कॉलेज के अलावे रेहला स्थित लक्ष्मी चंद्रवंशी इंटर कॉलेज में भी अध्यापन कार्य कर मानदेय एवं सकारोी अनुदान की राशि का भुगतान प्राप्त किया है। एके सिंह कॉलेज के तत्कालीन प्रबंध कमेटी ने इस मामले को गभीरता से लेते हुए सिंह का मानदेय स्थगित कर दिया था। किंतु वर्तमान प्रभारी प्राचार्य ने अवैध तरीके से लगभग 6 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान कर दिया। कॉलेज में कार्यरत रामसुभाष सिंह पर अशोक कुमार सिंह एक ही कालखंड एवं समय पर दूसरे संस्थान में भी कार्यरत थे और उन संस्थाओं से मानदेय का भुगतान प्राप्त कर रहे थे।

रंची, रविवार
23.07.2023

मेदिनीनगर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथ निर्माण की मिली स्वीकृति

>> सड़क निर्माण का कार्य जल्द होगा प्रारंभ : सांसद
>> सड़कों व पुलों के निर्माण से प्रखंडों में आवागमन की सुविधा बढेगी

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पथ निर्माण की स्वीकृति मिल गयी है। इसकी जानकारी देते हुए पलामू सांसद बिष्णुदयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीन वर्ष (2022-23) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में भंडरिया प्रखंड में सलैरूमर से मरदा वाया मदगड़ी जमीटी लंबाई 11.88 किमी, करचली से बड़गढ़ वा बघवार गरीया 9.70 किमी, रमकंडा प्रखंड में



उदयपुर से रमकंडा 6.68 किमी, उदयपुर से गम्हरिया वाया चेतें पतसर 12.80 किमी, रंका प्रखंड में हरदाग से विश्रामपुर वाया चौकरी जोगी, खुर्दा, कुदरूम, धेंगरा 15.03 किमी, भवनाथपुर प्रखंड में कवलदाग से टीओ टू रुपुा लुका 5.34 किमी, भवनाथपुर प्रखंड के आसनबांध से पीडब्ल्यूडी रोड बेलबर वाया घाघरा 10.20 किमी, कांडी प्रखंड में एमआरएल 15- टी 03 से मरहटिया

भगवान शिव है तो जीव है अन्यथा दुनिया निर्जीव है : डॉ शशिभूषण

खबर मन्त्र संवाददाता

सतबरवा। ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में शनिवार को क्षेत्रीय शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पांकी विधायक कुशवाहा डॉ शशिभूषण मेहता ने कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव है तो ही जीव है, अन्यथा शिव नहीं है तो संसार निर्जीव है। उन्होंने कहा कि देवों के देव महादेव सबका कल्याण करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के सबसे बड़े उपासक हरिद्रानंद सह और बहन दीदी नीलम के जयोंघर से आज शिव गुरु परिचर्चा पूरे



देवों के देव हैं भगवान शिव : आलोक

सतबरवा। शिव गुरु परिवार की ओर से शनिवार को ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में प्रखंड स्तरीय शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने पूजा अर्चना कर की। मौके पर उन्होंने कहा कि देवों के देव हैं भगवान शिव। जो भी इनका सच्चे मन से युगानुगत करता है उनका कल्याण करते हैं। मौके पर राणा प्रताप कुशवाहा, मो धर्माम, अमलेश चौरसिया, चंचल यादव, आशिष सिन्हा सिकंदर भुश्या समेत कई लोग मौजूद थे।

विश्व में फैला है। महादेव अंतयर्मा हैं। वे लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चल प्रेम भाव से भगवान

सीबीएसई की पूरक परीक्षा 2023 हुई संपन्न : सिटी कोऑर्डिनेटर

मेदिनीनगर। 22 जुलाई 2023 को सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2023 संपन्न हो गई। यह परीक्षा 17 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर 22 जुलाई 2023 को संपन्न हुई। पलामू जिले में झारखंड के 4 जिलों गुमला, लातेहार, गढ़वा एवं मेदिनीनगर के छात्रों के लिए दो परीक्षा केंद्र एम के डीपी व पब्लिक स्कूल डॉल्टनगंज एवं रोहरी पब्लिक स्कूल चैनपुर को बनाया गया था। आज दसवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय (087) की परीक्षा थी, जिसमें सभी नामांकित परीक्षार्थी उपस्थित हुए। सीबीएसई पलामू एवं गढ़वा जिले के सिटी कोऑर्डिनेटर सह एमके डीपी पब्लिक स्कूल डॉल्टनगंज के प्राचार्य डॉक्टर जी एन खान ने बताया कि यह परीक्षा जीरो टेलरेंस, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। इसमें सीबीएसई के सभी निर्देशों का अक्षर स पालन हुआ है। दोनों परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पोलिस बल उपस्थित था। डॉक्टर खान ने बताया कि आज सीबीएसई के प्रतिनिधि फजल इमाम ने दोनों केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा शांतिमय माहौल में संपन्न हुई। सिटी कोऑर्डिनेटर महोदय ने दोनों परीक्षा केंद्रों के विश्कोकों, शिक्षकों को भी धन्यवाद कहा।

कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी : रामचंद्र चंद्रवंशी

खबर मन्त्र संवाददाता

बिब्रामपुर (पलामू)। भाजपा नगर मंडल कार्यसमिति की बैठक हरहेषा चौक के पास हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष बबन राम व संचालन महामंत्री मनीष कुमार ने किया। बैठक में संगठन के मजबूती और विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही किसी भी



पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान बेहद जरूरी है। इस दौरान भाजपा के नीति सिद्धांतों में विश्वास और चंद्रवंशी में आस्था व्यक्त करते हुए दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। सभी को रामचंद्र चंद्रवंशी ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। विधायक के जिला प्रतिनिधि रामचंद्र यादव ने कहा कि विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वास पुरुष बनकर उभरे हैं। इन्होंने विश्रामपुर विधानसभा में विकास की नई गाथा लिखी है।

पड़वा प्रखंड के मुड़कटवा निवासी शैलेन्द्र साव ओमान में बना बंधक परिजिन बेहाल

श्रम नियोजन पदाधिकारी एवं झारखंड सरकार से वापस बुलाने का पिता ने लगाया गुहार

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू जिला में बेरोजगारी इस कदर पाव पसार हो गई है कि लोग रोजी रोटी एवं परिवार के भरण-पोषण को लेकर रोजगार की तलाश में भारत के विभिन्न राज्यों समेत विश्व के विभिन्न देशों में जाकर काम करने को मजबूर हैं। लेकिन जब लोग रोजगार को लेकर किसी कंपनी एजेंट या रोजगार मेला के माध्यम से बाहर आते हैं तो उन्हें घर वापस जाने में पसीना छूटने लगता है। कारण को उस व्यक्ति को कंपनी वाले



या रोजगार देने वाले संस्था उसे बंधक बनाकर रख लेता है। ऐसी ही घटना का उजागर पलामू जिला के पड़वा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गाड़ी खास पंचायत के टोला मुड़कटवा निवासी चंद्रदेव साव के पुत्र शैलेन्द्र साव के साथ घटी है। वह 16 मार्च 2023 को रोजगार को लेकर ओमान देश गया था जो घर का एकलौता पुत्र कमाने वाला है।

से बेलहाती खरौंथा 5.72 किमी, कांडी प्रखंड में रानाडीह टी वन से सोगरा टी वन 5.65 किमी, कांडी प्रखंड में मोखापी मोड़ से कांडी वाया महलीदेमा 8.85 किमी, खरौंधी प्रखंड के पासवान मोड़ से बखेरवा वाया सुंडी 5.15 किमी, राजी से सुंडी वाया लोहबंथा टोला 6.68 किमी, नगर उंटारी प्रखंड के नगर उंटारी से तुलसीदाम 7.20 किमी, नखोरिया से हुलहुला वाया मुस्लिम टोला 5.20 किमी, रमना प्रखंड के बाबुडीह से बुलका 10.65 किमी, मरवमिया से मझगांव 5.95 किमी, रमना से सोपाही 5.30 किमी, धुरकी प्रखंड में धुरकी दोहर से देवियाही वाया रकसी 8.10 किमी, एचएल ब्रीज ओड्डार मितिमिया नाला में सीएच- 4290 एम सिउरी से भंडार वाया कदमा रोड 18.75 किमी, नगर उंटारी प्रखंड में एचएल ब्रीज

ओड्डार युरिया नदी सीएच- 2270 एम नगर उंटारी से तुलसीदाम रोड 21.75 किमी, एच एल ब्रीज ओभर युरिया नदी में सीएच- 5640 एम नगर उंटारी से तुलसीदाम रोड 37.5 किमी, धुरकी प्रखंड में सिउरी से भंडार वाया कटमा 6.01 किमी, मझिआंव प्रखंड के कोल्हुआ से टी टू भभनी 9.01 किमी, मझिआंव प्रखंड में मझिआंव विश्रामपुर एमडीआर से सलगा 13.55 किमी, मेराल प्रखंड में मेराल से हसनदाग वाया करकोमा पीपर डोलिया 6.25 किमी, लखेया मोड़ से कर्काक बाउंड्री डंडई वाया हसनदाग करजरात नौ किमी, मेराल प्रखंड में एमआरएल 20- टी 05 से वागी टोला वाया तेनार 5.50 किमी, पंडुआ मोड़ से भंडार वाया पंडुआ सिकनी पतरा 9.60 किमी, लामा एमएच रोड से चामा वाया कोरकामा 5.70 किमी,

डंडई प्रखंड में बलिहारी एलियस बलेखाड से मेराल सिवाना वाया जरही झोतर दरवनिया छह किमी, सोनह एलियस सोनहारा से मेराल- डंडई एमएच रोड 7.30 किमी, रंका प्रखंड में रंका से मझिगांव वाया हरिजन टोला 9.15 किमी, रंका प्रखंड में मनुपुर से रंका ब्लॉक वाया खप री 5.08 किमी, एमआरएल 21- पीडब्ल्यूडी रोड से बलीगढ़ वाया चुटिया 11.89 किमी, डंडई एचएल ब्रीज ओभर युरिया नदी सीएच- 685 एम सोनह एलियस सोनहारा से मेराल डंडई एमएच रोड 33 किमी, गढ़वा सदर में हरेया से मेहना खुर्द 6.95 किमी शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पुल) में भंडरिया प्रखंड में नदी के उपर एचएल ब्रीज सीएच 8+265 किमी करचली से बडगढ़ वाया बघवार गरीया रोड

67.12 किमी, चिनिया प्रखंड में नदी के उपर एचएल ब्रीज सीएच 2541 एम टी 03 34.26 किमी, एमपी ओला वाया बरवाडीह 67.12 किमी, अखिनिया नाला के उपर ब्रीज सीएच 7355 एम ऑफ तहले मोड़ से भदवा मोड़ वाया कटौतिया छठ महुआ रोड 44.76 किमी, कांडी प्रखंड में कांडी नदी के उपर एच.एल. ब्रीज 8520 एम मोखापी मोड़ से कांडी वाया महलीदेमा रोड 21.75 किमी, कांडी नदी के उपर एच.एल ब्रीज सीएच 4+670 कि.मी. मोखापी मोड़ से कांडी वाया महलीदेमा रोड 44.76 किमी, मेराल प्रखंड में स्थानीय नाला के उपर एचएल ब्रीज सीएच 1565 एम पंडुवा मोड़ से भंडार वाया पंडुवा सिकनी पतरा 56.25 किमी, जगनुदाहा नाला के उपर एच एल ब्रीज सहित कई योजनाओं की स्वीकृति मिली है।

पूर्व विधायक बीटू सिंह ने किया कई गांव का दौरा, मोहर्रम कमेटी के लोगों से किया मुलाकात

हजरत इमाम हुसैन के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत : बीटू सिंह

खबर मन्त्र संवाददाता

सतबरवा। पांकी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के बोहिता, रेवारतु, धावाडीह, करमा कई गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से अनगत हुए। वहीं मोहर्रम का त्यौहार को देखते हुए ताजिया कमेटी के लोगों से मुलाकात किया तथा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मोहर्रम का त्यौहार मनाने की अपील की। सिंह ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन साहब ने अपनी कौम तथा सच्चाई को हिफाजत के लिए बलिदान तक दे दिया उनकी शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा



कि हजरत इमाम हुसैन साहब के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है ताकि समाज में अमन चैन कायम हो सके। उन्होंने कहा कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि क्षेत्र में आगे भी अमन चैन कायम रखने के लिए हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाने का कार्य करेंगे। बिट्टू सिंह ने कहा कि क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय विदेश बाबू तथा मैंने हेमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के लोगों

पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाया

हुसैनाबाद, पलामू। थाना क्षेत्र के ग्राम सरहू के निवासी फरार अभियुक्त सुदामा सिंह, वीनोद सिंह एवं विभायू सिंह, अशोक सिंह, अनोज सिंह सभी ग्राम सरहू थाना हुसैनाबाद निवासी इस घटना के किरार अभियुक्त हैं सभी अभियुक्तों के घर एवं बाजार में हुसैनाबाद पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया इस संबंध में हुसैनाबाद थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सोम प्रकाश सिंह ने बताया कि उक्त घटना दोनो पक्षों से मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा सभी के घरों पर इश्तेहार लिपिक का आदेश निर्गत किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी को नॉटिस तिथि के एक माह के अंदर माननीय न्यायालय में सशरीर उपस्थित अनिवार्य हैं।

दहेज लोलुप मुकेश को 10 वर्ष की सजा

मेदिनीनगर। पलामू जिले के न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्यारोपी पति मुकेश कुमार यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी। इस मामले में लेखीयुक्त थाना के बनुवा निवासी तेतर यादव ने मुकेश कुमार यादव, पटन यादव, बसंती देवी व रीता कुमारी के विरुद्ध लेखीगंज थाना में नामजद प्रार्थमिकी दर्ज कराया था। न्यायालय में मुक्तिका के पति मुकेश कुमार यादव, सखु पटन यादव, सास बसंती देवी के विरुद्ध दायल चर रहा था। इसमें सास व सखु को निर्दोष पाकर रिहा किया गया है। इस मामले में मुकेश कुमार यादव पर आरोप था कि उसकी शादी अंजु देवी के साथ 2017 में हुई थी। शादी के बाद अंजु देवी ससुराल गई जहां उसके पति मुकेश कुमार यादव ससुर पटन यादव सास बसंती देवी उसे दहेज में मोटरसाइकिल की मांग किया। मांग पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट करते थे। जिसे लेकर गांव में पंचायत भी हुआ था। जिसमें पंचों के समक्ष उसका पति मुकेश कुमार यादव स्वीकार किया था कि अंजु देवी को ठीक से रखेंगे तथा उससे कोई मांग नहीं करेंगे। सन 2018 में अंजु देवी को मायके में एक पुत्री जन्म ली थी। जिसके बाद मुकेश कुमार यादव उसे मायके से अपने घर ले जाने आए तो उसके मायके में बोल कि गांडी नहीं देने पर मारकर अंजु देवी को फेंक देंगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने परअंजु देवी की हत्या कर उसकी लाश को छुपा दिया गया। जांच में उसका हत्या गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी। अदालत ने दोषी पाते हुए मुकेश कुमार यादव को सजा सुनाई है।

आजसू का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज

मेदिनीनगर। आजसू पार्टी का जिला आयोजन समिति की समिक्षात्मक बैठक सुदना स्थित तत्कालीन कार्यालय में जिला अध्यक्ष दीलीप चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई। केन्द्रीय सचिव सह गढ़वा जिला प्रभारी सतीश कुमार ने कहा कि हमारी तैयारी लगभग पूरा हो चुकी है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो होंगे। आगमन पर इनका कई स्थानों पर जोरदार स्वागत की तैयारी की गयी है। केन्द्रीय सचिव विजय मेहता ने कहा कि पलामू में 23 जुलाई को सुरेश कुमार महतो का आगमन व सम्मेलन की सफलता मिशन 2024 की सफलता का पहला कदम होगा।



उंटारी रोड में नये डीडीओ शिव प्रसाद यादव ने दिया योगदान



उंटारी रोड (पलामू)। उंटारी रोड बीअसरी के मध्य विद्यालय उंटारी रोड में प्रधानाध्यापक सह निवासी एवं व्यवन पदाधिकारी के रूप में शिव प्रसाद यादव ने शनिवार को प्रभार ग्रहण किया। इससे पूर्व यादव राजकीय मध्य विद्यालय जाली छतरपुर के बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत थे। प्रभार ग्रहण करने के उपरांत डीडीओ यादव ने प्रखंड के शिक्षकों का वेतन भुगतान हेतु बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रखंड के कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित प्रधानाध्यापकों के प्रतिनिधि के रूप में मध्य विद्यालय चेचरिया के प्रधानाध्यापक विजय यादव व मध्य विद्यालय बिरजा प्रधानाध्यापक जनार्दन प्रसाद सिंह ने सभी शिक्षकों की ओर से संयुक्त रूप से बुकके देकर नवनि्युक्त डीडीओ शिव प्रसाद यादव का स्वागत व अभिनंदन किया। मौके पर उपस्थित प्रधानाध्यापकों में मोहन कुमार, राधेश्याम चोसरी, विनोद राम, वरुण कुमार, प्रवीण रावि, मदन गोपाल राम, प्रभाकर, मनोज कुमार, राजमोहन राजक, बीरेंद्र कुमार सहित कई प्रधान शिक्षक मौजूद थे।

झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास पर्वद के सदस्य संजीव तिवारी पलामू गढ़वा का करेंगे दौरा

विभिन्न धार्मिक स्थल का करेंगे निरीक्षण

सजीव तिवारी के भ्रमण को लेकर अधीक्षक ने पलामू गढ़वा के प्रशासन को दिया सूचना

खबर मन्त्र संवाददाता

मेदिनीनगर। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पर्वद के सदस्य संजीव तिवारी पहली बार पलामू गढ़वा के धार्मिक स्थल एवं पर्यटक स्थलों का निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर अधीक्षक अशोक कुमार राय ने पलामू, गढ़वा के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को सूचना प्रेषित किया है। सूचना के माध्यम से प्रशासन को सूचित किया गया है कि सदस्य संजीव तिवारी 24 जुलाई को हुसैनाबाद। हैदरनगर,मोहम्मदगंज में मॉंदर स्थलों का जायजा लेंगे। एवं 25 जुलाई को डाल्टनगंज के विभिन्न मंदिरों का



निरीक्षण कर जायजा लेंगे एवं 26 जुलाई को सतबरहीन झरना स्थल का निरीक्षण करेंगे। तथा 27 जुलाई को गढ़वा जिला के विभिन्न मॉंदर स्थलों का जायजा लेंगे। इसे लेकर दोनों जिला के प्रशासन को पयांत सुरक्षा व्यवस्था कराने को कहा गया है।



धनबाद में पेड़ से लटका मिला महिला का शव

धनबाद। बलियापुर थाना क्षेत्र इलाके के झरिया-बलियापुर मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित परया नया टोला के पास एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला का पहचान प्रधानखाता की रहने वाली 45 वर्षीय शिवानी देवी के रूप में की गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दिया है और आगे की जांच में जुट गई है।

पुनर्वास तक पानी उपलब्ध कराये प्रबंधन

झरिया। जब तक नहीं बसाया जाता तब तक पानी की मुहैया करवाया जाए क्योंकि अल्ट्रासॉन्डिंग के कारण पड़ी दरारों के कारण दर्जनों कुआँ एवं तीन तलाब पूरी तरह से सूख गए हैं लोगों को पानी की घोर किल्लत झेलनी पड़ रही है हम कोयला निकालने का विरोधी नहीं है इसके लिए किसी की जान से खिलवाड़ बढ़ाई नहीं करेंगे मेरे लिए यहाँ की जनता प्रिय है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पर ध्यान दें अवसर पर सुबोध सिंह, हरेंद्र यादव, वंदन महतो, वीरेंद्र यादव, शिव प्रकाश सिंह, सराज शर्मा सुनील पासवान, जोगिंदर महतो, अनिल सिंह शत्रुघ्न सिंह, धर्मेश यादव, दुर्गेश महतो अमजद अंसारी, सहित सैकड़ों लोग थे।

गोमो : छात्राओं के बीच सविधान पुस्तक का वितरण

गोमो। सविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने को लेकर तोपचावी मदन्यडीह विनोद बिहारी महतो महिला इंटर महाविद्यालय के छात्राओं के बीच शनिवार को सविधान की बुक देखकर जागरूक किया गया। मौके पर प्रचार्य उत्तम कुमार महतो ने बताया कि सविधान के बारे में छात्राओं को अभी से ही जानकारी होना चाहिए। इस उद्देश्य के तहत छात्राओं के बीच सविधान के पुस्तक वितरण किया गया। मौके पर प्रचार्य उत्तम कुमार महतो, शिक्षक धीरज प्रसाद महतो, राजेश कुमार महतो, बलदेव प्रसाद महतो, बानेश्वर टू टू, सरिता गुप्ता, फरहत अंजुम, मुकेश कुमार उपस्थित थे।

शिविर में 300 लोगों के नेत्र की हुई जांच

धनबाद। धनबाद माडवाडी युवा मंच के द्वारा शनिवार को निष्पृक्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र जांच शिविर में क्षेत्र के आसपास के युवक, युवा वर्ग, महिलायें युवतियों ने हिस्सा लिया। नेत्र जांच शिविर में 300 लोगों का आंखों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया। जहां डॉक्टरों की टीम आंखों की जांच किये।

स्थापना दिवस को लेकर मामसं ने की समीक्षा बैठक

बेरमो। शनिवार को सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ दोरी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय दोरी खास में 23 जुलाई को स्थापना दिवस को धूम-धाम मनाने को लेकर बैठक की गई। रवींद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि 23 जुलाई को पूरे सीसीएल में सीसीएल सीकेएस संबद्ध भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस मानती है। मौके भारतीय मजदूर संघ बोकारो जिला मंत्री संत सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कुलदास, क्षेत्रीय सचिव विनय कुमार सिंह, ननुवद महतो, वीरेंद्र गुप्ता, राजेश गुप्ता, अजय सिंह, बुधन नोनिया, प्रमोद कुमार गौतम, हीरालाल रविदास, मनोज कुमार, सोमनाथ मिश्रा मौजूद थे।

सीडब्ल्यू अमलो शाखा कमेटी का गठन

बेरमो। सेंट्रल कालोनी मकौली स्थित में अधिकारी क्लब में शनिवार को यूसीडब्ल्यू एएडीओसीएम अमलो शाखा की बैठक गणेश महतो जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यूनिनय के पर्यवेक्षक परिया अध्यक्ष जवाहर लाल यादव, परिया सचिव भीम महतो एवं शाखा सचिव जितेंद्र दुबे की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यूसीडब्ल्यू एएडीओसीएम अमलो शाखा की 16 सदस्यीय नई शाखा कमेटी का गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष नंद किशोर प्रसाद, उपाध्यक्ष जीतू व गणेश महतो, सचिव सीताराम धोबी, सह सचिव खूबलाल रजवार व प्रीतम महतो का चयन हुआ है।

भाजयुमो ने बाइक रैली निकाल केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

जनसंपर्क अभियान

खबर मन्त्र संवाददाता

धनबाद। भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका रंजन के नेतृत्व में महाजनसंपर्क अभियान के तहत विशाल मोटर साइकिल यात्रा निकाली गई जिसमें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के पंच बॉट कर 9090902024 पर मिस कॉल कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धनबाद के विधायक राज सिन्हा, निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश लाटा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश राही तथा अन्य नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर प्रारंभ की। मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा माननीय प्रधानमंत्री आदर्शपूर्ण नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्षों का कार्यकाल बेमिसाल रहा इस कार्यकाल में देश का अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक विकास हुआ। निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल



ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश आत्मनिर्भर हुआ और आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा की प्रधानमंत्री आदर्शपूर्ण नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में युवाओं का किसान और कृषि मजबूत हुआ। भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका रंजन ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के क्रियाकलाप से युवाओं में उत्साह और विश्वास की कमी हुई

कार्य हुआ। पूर्व जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश लाटा ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश में परिवहन व्यवस्था मजबूत हुई। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश राही ने कहा की प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल से देश का किसान और कृषि मजबूत हुआ। भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका रंजन ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के क्रियाकलाप से युवाओं में उत्साह और विश्वास की कमी हुई

साथ जीने-मरने की कसम पूरा करने के लिए जहानाबाद से लोयाबाद पहुंची लड़की, की शादी

खबर मन्त्र संवाददाता

लोयाबाद। लोयाबाद पावर हाउस के लड़का और जहानाबाद के लड़की का प्यार परवान चढ़ते ही दोनों ने ही भागकर दिल्ली में शादी रचाकर एक हो गये। वहीं जहानाबाद के लड़की ने बताया कि हम दोनों ने मंदिर में हिन्दू रिति रिवाज से शादी अपने मर्जी से की है लेकिन इस प्रेम प्रसंग में विवाद उस समय आ गया जब लड़की के मां भाई और बहन ने लोयाबाद आकर लड़की को अपने साथ ले जाने लगा। लड़की ने अपने मां भाई के साथ जाने से साफ इंकार कर दिया और अपने पति बाँबी के साथ ही रहने की इच्छा जताई। मामला बिगड़ता देख दोनों ही लोग वार्ड नम्बर आठ के पापद के पास पहुंचे



पापद महावीर पासी ने जहानाबाद के लड़की को बहुत ही समझाने का प्रयास किया गया लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं है। भीड़ को देखकर लोयाबाद पैट्रोलिंग पार्टी भी पहुंचकर मामला को समझ कर दोनों ही पक्षों को समझाने का भरपूर प्रयास किया लेकिन लड़की और लड़का दोनों ही साथ ही रहना चाहते हैं। जातव्य है कि लड़का और लड़की दोनों ही एक ही जाति के हैं लड़का बाँबी के चचेरा भाई का साली है वहीं लड़की का कहना है कि मेरे घरवाले मेरी शादी कही और कर देना चाहते थे जो मुझे पसंद नहीं

है। मैं पिछले एक साल से बाँबी कुमार से प्यार है और हमदोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार के लोग साथ रहने नहीं देते हैं। उपस्थित लोगों ने भी काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों ही नवविवाहित जोड़ा साथ जीने और मरने को तैयार है।

धनबाद सदर अस्पताल में हुआ महिला का हुआ सफल ऑपरेशन

धनबाद। सदर अस्पताल में आज एक महिला का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार ने बताया कि डिगवाडीह 10 नंबर के रहने वाले नरेश वर्मा की 43 वर्षीय पत्नी सीमा देवी को यूरिन करने में कठिनाई और बच्चेदानी नीचे खिसकने की शिकायत थी। इससे वह पिछले कई महीनों से परेशान थी। गरीबी के कारण वह अपना इलाज नहीं करा पा रही थी। निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए 40-45 हजार का खर्च बताया जा रहा था। मरीज में खून

की कमी भी थी। वह बहुत मायूस हो गयी थी। फिर उन्हें किसी ने सदर अस्पताल में चिकित्सकों को दिखाने की सलाह दी। सदर अस्पताल में डॉ संजीव कुमार ने मरीज को देखा और ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। मरीज के लिए सदर अस्पताल के ब्लड स्टोरेज यूनिट से खून की व्यवस्था की गयी। डॉ संजीव कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ और निश्चलक डॉ आनंद कुमार और अस्पताल के कर्मियों के सहयोग से उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया।

बच्चों के बीच स्कूल बैग और बोटल का वितरण

बोकारो महिला समिति ने किया वितरण

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। बोकारो महिला समिति द्वारा काशी झरिया ग्राम में गरीब स्कूलों बच्चों के बीच स्कूल बैग तथा वाटर बॉटल का वितरण किया गया। समिति की अध्यक्ष अनिता तिवारी, उपाध्यक्ष निशा श्रीवास्तव, मोनिका रंगानी, अलका श्रीवास्तव, प्रीति शरण, इति रथ ने ग्रामवासियों तथा उनके बच्चों से बातचीत कर विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। महिला समिति के द्वारा स्कूल के



प्रांगण में पौधरोपण भी किया गया। ग्रामवासियों में महिला समिति द्वारा उत्पादित साबुन भी वितरित किए गए और उन्हें स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया गया। मौके पर समिति की सचिव वंदना झा, उप सचिव एवं विद्यालय प्रभारी ऋचा

प्रियदर्शिनी, कोषाध्यक्ष श्रीमती रीता रानी, सांस्कृतिक सचिव श्वेता वर्मा, स्थापना कार्यकर्त्ता समूह की अन्य सदस्या कुमुद सिंह, पुष्पा भरतीया, अभिरुचि प्रिया, अनीशा झाए प्रीति राजेश उपस्थित थे।

कुड़माली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

खबर मन्त्र संवाददाता

बोकारो। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मिलकर कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। गिरिडीह सांसद ने बताया कि कुड़माली भाषा झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा राज्य के कुड़मी द्वारा बोला जाता है। इस भाषा का पठन-पाठन राज्य के पांच एवं पश्चिम बंगाल समेत कुल 6 विश्वविद्यालयों में होता है और इसकी अपनी लिपि है

जिसे कुर्मी कुदली कहा जाता है, जो देवनागरी लिपि का एक संशोधित संस्करण है। लंबे समय से कुड़मी समुदाय की मांग रही है कि कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे आठवीं अनुसूची में शामिल न किया जाना करीब 2 करोड़ से अधिक कुड़माली भाषा-भाषी के लिए निराशाजनक है। यह उन लाखों कुड़माली छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को उन्होंने मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा।

एफसीआईएल पीपी एक्ट कोर्ट में 90 प्रतिशत की उपस्थिति दर्ज

सामूहिक रूप से 374 लोगों के लिए मांगा गया समय

खबर मन्त्र संवाददाता

सिंदरी। एफसीआईएल प्रशासनिक भवन के कमरा नंबर 26 में बीते 18 जुलाई से शुरू पीपी एक्ट कोर्ट के अंतिम दिन शनिवार को कुल 1019 नोटिस के जवाब में 908 नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें जनता श्रमिक संघ संयुक्त महामंत्री लक्की सिंह कार्यालय में जमा हुए 374 नोटिस का जवाब शनिवार को अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया। इसकी जानकारी संयुक्त महामंत्री ने दी। वहीं 534 नोटिस

प्राप्तकर्ताओं ने अपनी एकल उपस्थिति कोर्ट में दर्ज कराई। कई लीजधारी दुकानदारों की कोर्ट में उपस्थिति नहीं हो पाई। उन्हें एफसीआईएल सिंदरी प्रबंधन के सुधारकर्मियों ने बैंग्स वापस लौटा दिया। जत्रसं संयुक्त महामंत्री ने बताया कि सभी 374 नोटिस प्राप्तकर्ताओं के लिए समय की मांग की गई है। उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए समय मिल जाएगा। हालांकि समय माननीय कोर्ट को निर्धारित करना है। एफसीआईएल गेट पर सिंदरी की जनता ने शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर जनता श्रमिक संघ के आन्धान पर अपना उपस्थिति दर्ज कराई। एफसीआईएल सिंदरी के कई नोटिस प्राप्त लीजधारी



दुकानदारों को उनके जीवित या मृत मालिक की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया। प्रबंधन ने कुछ दिनों पूर्व उन दुकानदारों को नोटिस रिसीव कराया था। एफसीआईएल प्रबंधन के आधार पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा। इसमें मिकु इलेक्ट्रॉनिक्स के जगदेव सिंह को उनके स्वर्ग सिंघार चुके पिता स्व

दुकानदारों ने अपने पूर्वजों या अन्य मालिकों से खरीदने के कागजात के साथ उपस्थिति दर्ज करनी चाही। जिसे प्रबंधन ने नोटिस में दर्ज नाम के आधार पर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा। इसमें मिकु इलेक्ट्रॉनिक्स के जगदेव सिंह को उनके स्वर्ग सिंघार चुके पिता स्व

दिलीप सिंह के नाम से नोटिस भेजा गया था। कई लीजधारक दुकानदारों को उनके स्वर्गीय दादाजी के नाम पर नोटिस दिया गया था। लीजधारक दुकानदारों ने बताया कि प्रबंधन के लिए पत्र दिया गया है लेकिन प्रबंधन इसपर चुपची साधे बैठा है।

कतरास में सद्भावना मुहर्रम मनाने का निर्णय

कतरास थाना में शांति समिति की बैठक



खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। शनिवार को कतरास थाना में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी रणधीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शांति समिति की बैठक में कतरास क्षेत्र के मोहर्रम समिति के अध्यक्ष एवं सचिव ने अपनी अपनी बातों को रखा। बैठक में सभी वक्ताओं ने पिछले दिनों कैलेंडरी छताबाद में घटित घटना की कड़ी निंदा की एवं कहा कि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, और आगे से ऐसी घटना ना घटे इसका ध्यान रखें। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने एकाएक कतरास शुरू से आपकी सद्भावना का क्षेत्र

रहा है इसलिए सभी लोग मिलकर शांतिपूर्ण एवं सद्भाव तरीके से मोहर्रम को पार करें और हुडदंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हुडदंग करने वाले लोग किसी भी कीमत पर नहीं बखशा जाएंगे। शांति समिति की बैठक में कमलेश सिंह महेश पासवान अशोक लाल मोहम्मद साहबुद्दीन मोहम्मद इकराम कुरेशी मोहम्मद मासूम जावेद रजा मुन्ना सिद्दीकी सुरेंद्र सिंह अधिवक्ता रणधीर ठकुर राम वचन पासवान प्रभात मिश्रा मोहम्मद मुर्शाद मुन्ना सिद्दीकी ओनेल हक प्रिंस शर्मा आनंद यादव मोहम्मद इब्रार रामदास उदय वर्मा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद शाहबुद्दीन ने किया।

एक नजर में महिलाओं का सावन मिलन समारोह



बोकारो। बोकारो इस्पात नगर के स्थानीय सेक्टर-3 की महिला मंडली ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। हरे परिधान में सजी-संगरी महिलाओं ने इस अवसर पर गीत-संगीत व नृत्य की विभिन्न मनोरंजक स्पर्धाओं का आनंद लिया। मौके पर अमला, अंकिता, पूनम, रेखा, सोनी, पोली, सोनी, सुनीता, चंचला, नूतन, बेबी, मीरा आदि मौजूद रहीं।

विधायक के कार्यों को आमजनों तक पहुंचाये



बाघमारा। खानुडीह पंचायत के ग्रामीणों की बैठक शनिवार को जमुनिया नदी तट स्थित महादेवदादा में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित समाजसेवी राजू कुमार शर्मा ने कहा कि बाघमारा विधायक दलू महतो द्वारा अब तक विधानसभा तथा विधानसभा के बाहर क्षेत्रों में जनमानस के कल्याण को लेकर जितना भी कार्य किया गया है। उक्त सभी कार्यों की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने की जरूरत है। इस दौरान क्षेत्र में बेरोजगारी तथा आमजनों की समस्या के निदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बैठक में मजदूर लोगों ने संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव दलू महतो को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। मौके पर खानू महतो, राजेश रविदास, अमृत मांडी, प्रवीण पाण्डेय, नरेश ठाकुर, विष्णु महतो, संदीप ठाकुर, नेपाल महतो, राजेंद्र महतो (बाना), सुरेश मराठी, जागेश्वर रवानी, अमरीश, धीरन, शंकर नापित, संजय महतो, सुनील मंडल सहित अन्य शामिल थे।

सरस्वती विद्या मंदिर, सिनीडीह में संकुल स्तरीय आचार्य कार्यशाला



खबर मन्त्र संवाददाता

कतरास। शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर, सिनीडीह में संकुल स्तरीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तीन विषय सम्मिलित थे-हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। इस कार्यशाला में सिनीडीह संकुल के सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडीह, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाघमारा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तेतुलमारी एवं सरस्वती विद्या मंदिर भूली नगर के तीनों विषयों में 46 आचार्य एवं आचार्या सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएवी प्लस टू कतरास विद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा, विद्यालय के सचिव अमरकांत झा, प्राचार्य सुनील कुमार सिंह, उप प्राचार्य दुर्गेश नंदन सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम की उपादेयता पर अपना विचार रखते हुए मुख्य अतिथि कैलाश विश्वकर्मा ने कहा कि भाषा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो अथवा संस्कृत ही क्यों न हो। इसके अभाव

आज के युग में अंग्रेजी की शिक्षा जरूरी विद्यालय के सचिव अमरकांत झा ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेजी को भी अपनाकर अत्यंत आवश्यक है। इसे अपनाकर हम वैश्वीकरण के दौर में शामिल हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हिंदी, संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेजी को भी अपने जीवन में स्थान दें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति लिखना तब जानता है जब वह शुद्ध-शुद्ध बोलना जानता है। अतः हमें चाहिए कि हम कक्षा कक्षा में भैया-बहनों से वाचन भी कराए ताकि उनकी भाषा शुद्ध हो।

में हम अपने मन के भाव को एवं विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। भाषा मानव की पहचान और जाना दोनों है। सीखने और सिखाने से ही कोई भाषा विकसित होती है। संस्कृत के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृति और संस्कृत दोनों का अत्यंत्याश्रित संबंध है। संस्कृति तभी अक्षुण्ण रहेगी जब हम अपनी प्राचीनतम भाषा संस्कृत को अपनाएंगे।

समय

संवाद

झारखंड में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी साईंस फॉर सोसायटी, झारखंड की है।

उक्त कार्यक्रम का आयोजन पहले जिला स्तर पर किया जाता है, जिसमें चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम 'स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना' रखा गया है। शिक्षक ही विद्यार्थियों के दिग्दर्शक सह पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं।

विज्ञान में छात्रों की रुचि बढ़ाने का संकल्प

एस. आर. डी. ए. वी. पुंडग रांची में राष्ट्रीय बाल कौशल का राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। एस. आर. डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल, पुंडग में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कौशल के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। ध्यातव्य है कि झारखंड में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी साईंस फॉर सोसायटी, झारखंड की है।

उक्त कार्यक्रम का आयोजन पहले जिला स्तर पर किया जाता है, जिसमें चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम 'स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना' रखा गया है।

शिक्षक ही विद्यार्थियों के दिग्दर्शक सह पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं, अतः कार्यक्रम के पहले चरण में राज्य के विज्ञान शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित शिक्षकों को कार्यक्रम का रूप-रेखा समझाई गई। कार्यक्रम के विषय में उपयोगी जानकारी



दी गई, जिसमें करीब चालीस शिक्षकों ने भाग लिया। इन शिक्षकों ने विज्ञान को कैसे रूचिकर बनाया जाए इस पर विमर्श किया। प्राचार्य श्री संजीत कुमार मिश्र ने सभी प्रतिभागियों के साथ ही अध्यक्ष डॉ. अली इमाम खान, स्टेट कोऑर्डिनेटर डी. एन.एस. आनंद, स्टेट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर राजेंद्र कुमार का औपचारिक स्वागत करते हुए साईंस फॉर सोसायटी, झारखंड के प्रति



आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में इतने ज्ञानी पुरुषों का एक साथ पदार्पण हुआ है। सभी अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन में परियोजना कार्यों में नवाचार लक्षित होंगे। आज के विद्यार्थी तेज दिमाग रखते हैं। उनमें उत्साह की कमी नहीं है, बस जरूरत है कुशल

मार्गदर्शन की, उनकी ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग की। प्राचार्य ने उम्मीद जताई कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष का यह आयोजन नवाचारों से परिपूर्ण तथा सफल होगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को भावी कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं भी दीं। संस्थान छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाकर ईनोवेशन के माध्यम से देश के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। यह वर्तमान समय की मांग भी है।

भाव ही भगवान और सरलता ही भक्ति

स्वामी सत्यानंदजी परमहंस

धर्म की कथा मनोरंजक होने के साथ प्रेरणादायक होती है। कथाओं में जो गूढ़ रहस्य होते हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है। राम कथा में जितने भी पात्र हैं उनके गुणों को अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। हनुमान के भाव को समझने के लिए जिस प्रकार हनुमान के दिल में राम, लक्ष्मण और सीमा को बताया जाता है वह एक बड़ा उदाहरण है। राम त्याग के प्रतिक थे, लक्ष्मण बैराग्य के प्रतिक और सीता सेवा की प्रतिक थी। हनुमान के हृदय में त्याग, बैराग्य और सेवा कूट-कूट कर भरा था यही इस बात का संकेतात्मक उदाहरण है। आज समाज में त्याग, बैराग्य और सेवा भाव की कमी है। हनुमान की पूजा का अर्थ इन सभी गुणों का अपने अंदर स्थापना करना है। यह कैसे संभव है? यह तब संभव है जब हम इन गुणों से युक्त संत-महात्माओं की संगत करें। उनका अनुसरण करें। त्याग के बिना समाज नहीं चल सकता है, जीवन के क्रम में वैराग्य भाव आना भी आवश्यक है। लक्ष्मण जैसा वैराग्य जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी कि जंगल जाये लेकिन वे राम की त्याग और सीता की सेवा का सम्मान किया। भारतीय परम्परा में भक्ति और बैराग्य का महत्व है। सामाजिक जीवन में आज भी पुरानी परम्परा ज्यादा मान्य है। भारतीय महिलाओं के इसी त्याग के कारण समाज की मजबूती मिली है। बैराग्य परम्परा में भी सन्यासी सब कुछ



छोड़कर गुरु आश्रम में आ जाते हैं। भक्ति और ज्ञान ही समय काल और स्थितियों के अनुसार बदला है। ब्रह्म विद्यालय की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि छपरा से यह भक्ति परमहंस दयाल जी के माध्यम से टेरी वर्तमान पंजाब तक प्रसारित हुई। पंजाब में विकसित हुई और फिर काशी होती हुई बक्सर आ गई। अठारहवीं सदी के मध्य से अब तक लगातार संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञानियों की परम्परा में सन्यासी बनते रहे। भक्ति का सबसे सरल और सुगम मार्ग होने के साथ कोई भी कर्म कांड स्वीकार नहीं किया गया। सन्यास का अर्थ समाज से दूर होना या भागना नहीं है। सन्यास का अर्थ समाज में भक्ति, ज्ञान और बैराग्य का प्रचार प्रसार करते हुये जीव की मुक्ति के लिए उन्हें प्रेरित करना है। पूरी दुनिया में भारत से ही संत परम्परा फैली है। भौतिक साधनों का अंत नहीं है लेकिन जीव और जीवन का अंत होता है। इसलिए जीवन के अंत को भयहीन और चिंता से ज्ञान के बल पर ही मुक्ति पायी जा सकती है।

(ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम छोटका राजपुर, बक्सर, बिहार शाखा कुटी रांची)

पर्यावरण बचाने का संकल्प



एस. आर. डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल, पुंडग में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने 'हरित दिवस' मनाते हुए वृक्षारोपण किया था। उसकी अगली कड़ी में 'पर्यावरण' शीर्षक निबंध लेखन तथा चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिनमें सभी कक्षा के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता तथा सृजनशीलता प्रशंसनीय थी। उक्त प्रतियोगिता खबर मन्त्र हिंदी दैनिक एस. आर. डी. ए. वी. पब्लिक स्कूल तथा 'स्कूल एज' पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान

में आयोजित की गई थी। प्राचार्य श्री संजीत कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों के कला की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। आज हम पर्यावरण के साथ हुए दुर्व्यवहार का नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में झेल रहे हैं। कहीं अति वृष्टि से परेशानी हो रही है तो कहीं भूस्खलन जान लेवा साबित हो रहा है। आज के विद्यार्थी ही तो कल के योग्य नागरिक बनेंगे। इसलिए उनके पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। एनके मुरलीधर ने भी बच्चों को संबोधित किया।

बच्चों को स्मार्ट फोन से बचायें, आप भी बचें

अगर आपका बच्चा भी मोबाइल, लैपटॉप, टैब के बिना कुछ देर भी नहीं रह पाता, तो सतर्क हो जाइए क्योंकि यह छोटी सी लापरवाही आपके और आपके बच्चे के लिए बड़ी मुसीबत ला सकती है। दरअसल अधिक स्क्रीन देखने के आदी हो चुके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अधिक एग्रेसिव और चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, उनमें डिप्रेशन अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याएं भी देखने को मिल रही है।

अधिक मोबाइल अथवा लैपटॉप के साथ समय बिताने की वजह से बच्चों की आंखों, गर्दन, सिर आदि में दर्द भी आम समस्या है। विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि अगर बच्चों की इस आदत में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो आगे चल कर वह एंटीसोशल और एंटी सोशल भी हो सकते हैं। ऐसे में यहां आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों की इस आदत से बाहर आने में मदद कर पाएंगे।

1. बच्चे अपने माता पिता की परछाईं होते हैं। उन्हें अपने पेरेंट्स की नकल करना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा कहा जा सकता है कि बच्चे पहली बार मोबाइल या लैपटॉप को अपने पेरेंट्स की नकल करते करते ही उठाते हैं। ऐसे में काम के अलावा भी अगर आप मोबाइल में लगे रहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदत बदलें। बच्चों के लिए बकत निकालें और मोबाइल पर बिना मतलब समय बिताने की जगह बच्चों के साथ खेलें।



2. तीन-चार साल के बच्चों को बचपन से ही अपने साथ छोटे मोटे काम में व्यस्त रखें। गमले में पानी डालना, डस्टिंग, कपड़े तह करना, उन्हें सही जगह पर रखना जैसे काम उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। उनकी गलतियों को ए-जॉर्ज करें और उन्हें भी यह एहसास दिलाएं कि वह कितने हेलिंग हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

3. अपने बच्चों को हर कला में एक्सपोजर दें। पेंटिंग, डांस, म्यूजिक घर में ही सिखाएं। जबदस्ती ना करें। उन्हें खुद से करने दें। कम उम्र में एक्सपोजर बनाने की ना सोचें। उन्हें लाइफ इंजॉय करने दें। उन्हें सिखाएं कि मोबाइल से कहीं बेहतर उनका आर्ट है। धीरे धीरे वे मोबाइल देखना कम कर देंगे।

4. सुबह उठें और बच्चों को वॉक पर जाने की आदत डालें। पार्क में उनके साथ खेलें और मौज मस्ती करें। उन्हें नेचर के साथ खेलने दें। उन्हें सोचने-समझने की क्षमता बढ़ेगी। वे अकेले में भी इन विषयों पर सोचेंगे और मोबाइल नहीं मांगेंगे।

5. मार पीट कर ना सिखाएं नहीं तो बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। यही नहीं, वे छिप छिप कर देखना सीख लेंगे। कभी भी मोबाइल देखने का लालच देकर कोई काम ना कराएँ। कई बार माता पिता लालच दे देते हैं और मोबाइल नहीं देते, ऐसे में इसका निगेटिव असर पड़ता है और बच्चों में अविश्वास की भावना आ जाती है। घर में माता-पिता और अन्य परिजन भी मोबाइल से थोड़ी दूरी बना लें जिससे बच्चों इस बुरी आदत से कम प्रभावित हों।

मणिपुर की घटना हैवानियत की पराकाष्ठा

महादेव विद्रोही
सेवाग्राम: मणिपुर के थाउबल जिले में बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने देश को दहला दिया है। 14 मई को कांगपोपकी में एक समुदाय के लोगों द्वारा आदिवासी कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घूमना, विरोध करने वालों की हत्या करना और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हमारे कल्पना के बाहर है। यह घटना विश्वगुरु का दावा करने वाले भारत में हुआ है।

पिछले ढाई महीने में शस्त्रागार में से 4532 रायफल, मशीनगन और अन्य हथियार तथा 6.32 लाख गोली लूट लिए गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गये हैं और हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा है - राज्य में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं। ऐसा लगता है उनके लिए यह सामान्य घटना है। मुखमंत्रियों की इस स्वीकारोक्ति के बाद भी वे इस पद

पर कैसे बने हुए हैं यदि आरम्भ में ही जरूरी कदम उठाये गए होते तो इस स्थित को रोका जा सकता था।

हमें इस हिंसा के कारणों को ढूंढना होगा और तदनुसार कदम उठाने होंगे। इन घटनाओं में महिलाओं को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत दुःखद और क्षोभजनक है। जो लोग इन जघन्य घटनाओं में शामिल हैं उन्हें चिह्नित कर उन पर फास्टट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला कर कठोरतम सजा दिलाने के लिए शीघ्र सभी उचित कदम उठाने चाहिए।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय इस घटना का स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र सरकार को 28 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस सकारात्मक पहल से लोगों में आशा बंधी है साथ ही न्यायपालिका पर विश्वास भी बढ़ा है। हम आशा करते हैं कि न्यायालय के इस हस्तक्षेप के परिणाम सकारात्मक सिद्ध होंगे।

रांची की बेटी नीतू को स्वच्छता सम्मान



नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित वूमैन इन लीडरशिप कॉन्क्लूव 2023 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका और पटना नगर निगम के स्वच्छता जागरूकता अभियान की ब्रांड एंबेसडर डॉ नीतू कुमारी नवगीत को वूमैन इन लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। सोसायटी फॉर हेल्थ एंड एंपावरमेंट ऑफ वूमैन तथा लोक कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कॉन्क्लूव में शिक्षा विभाग की पूर्व सचिव रीना रे, हरियाणा महिला

माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अंशु जमसेंपा और डॉ कीर्ति काले भी शामिल रही।

डॉ नीतू कुमारी नवगीत के अलावा तबला वादक अनुराधा पाल और कलाकार कण्ठेरी पिन्हारी को कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वूमैन इन लीडर अवार्ड दिया गया। चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए एस्स की डॉ उमा कुमार, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डॉ मीनाक्षी पांडा तथा टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉ. शैलजा वैद्य

आयोग की अध्यक्ष रेनु भाटिया तथा संस्थान की अध्यक्ष प्रीति तिवारी एवं लोक कला परिषद के महासचिव संजीव कुमार ने डॉ. नीतू कुमारी नवगीत तथा अन्य महिलाओं को सम्मानित किया। सम्मानित की गयी महिलाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलवान बबीता फोगाट,

गुप्ता को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की स्मृति काका रामचंद्र को वूमैन इन लीडरशिप 2023 अवार्ड दिया गया। सरकारी सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए भारतीय रेल यातायात सेवा की रश्मि, भारतीय राजस्व सेवा के स्वातिका, भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी और उत्तर प्रदेश में डीजी रेणुका मिश्रा और सृष्टि भट्ट को सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में यह सम्मान संध्या धर और डॉ मनु शिवपुरी को दिया गया।

स्टार्टअप के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राखी गेरेर को सम्मानित किया गया। खेलकूद के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए पहलवान बबीता फोगाट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अंशु जमसेंपा और ताइक्वांडो सिस्टर्स को सम्मानित किया गया। विधि के क्षेत्र में लीडरशिप स्किल के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मोनिका अरोरा को सम्मानित किया गया। सेल्फ हेल्थ ग्रुप संवर्ग में झारखंड की संस्था पिकल वूमैस ग्रुप को सम्मान मिला। गुरुग्राम पुलिस स्टेशन को सभी महिला पुलिसकर्मी वाले पुलिस स्टेशन संवर्ग में विशेष पुरस्कार दिया गया। ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के लिए उत्तराखंड के दिव्या रावत को सम्मानित किया गया।

संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह
वृन्दा मीडिया पब्लिकेशन्स
प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक
मंजू सिंह
द्वारा चिरौंदी, बोडोया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
संपादक
अविनाश ठाकुर*
फोन : 9570848433
पिन: -834006
e-mail
khabarmantra-city@gmail.com
R.N.I.No.
JHAHIN2013/5/1797
*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।

फिल्मों में भगवान शंकर बनने वाले त्रिलोक कपूर

अजय कुमार शर्मा
हिंदी फिल्मों में चालीस और पचास के दशक को पौराणिक और धार्मिक फिल्मों की अनेक यादगार फिल्मों के लिए जाना जाता है। उस समय के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को उनके धार्मिक किरदारों के रूप में ऐसी पहचान मिली की उनके कैलेंडर और पोस्टर की रूप में लगे और उन्हें देवी- देवताओं के प्रतीक के रूप पूजा जाने लगा। शोभा समर्थ सीता के रूप में, कृष्ण के रूप में शाहू मोडक, राम के रूप में प्रेम अदीब, पार्वती के रूप में निरूषा राय, हनुमान जी के रूप में दारा सिंह आदि। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम है भगवान शंकर के रूप में त्रिलोक कपूर का। त्रिलोक कपूर फिल्म इतिहास के पहला परिवार कहे जाने वाले कपूर परिवार से ही थे। वह पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई थे। तीन मार्च, 1912 को मुल्तान में जन्मे त्रिलोक जी की प्रारंभिक शिक्षा पेशावर में हुई।

पृथ्वीराज फिल्मों में भाग्य आजमाने पहले ही कलकत्ता आ चुके थे। त्रिलोक जी भी उनके पद चिह्न पर चलते हुए जनवरी, 1933 में कलकत्ता पहुंचे और इंडियन नेशनल थियेटर और द ग्रेट एंटरटेन कम्पनी च्वाइन कर ली। उस दौरान त्रिलोक कपूर ने अपने बड़े भाई के साथ 'सीता' फिल्म में छोटी सी भूमिका भी निभाई। उन्हीं दिनों पृथ्वीराज कपूर कलकत्ता की न्यू थियेटर्स कम्पनी छोड़कर बंबई आ गए। फिर तो त्रिलोक भी बंबई आ गए। यहां उन्हें पहली फिल्म मिली 'चार निरूषा राय', हनुमान जी के रूप में दारा सिंह आदि। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाम है भगवान शंकर के रूप में त्रिलोक कपूर का। त्रिलोक कपूर फिल्म इतिहास के पहला परिवार कहे जाने वाले कपूर परिवार से ही थे। वह पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई थे। तीन मार्च, 1912 को मुल्तान में जन्मे त्रिलोक जी की प्रारंभिक शिक्षा पेशावर में हुई।

बॉलीवुड

राम के रूप में अपनी सीता शोभा समर्थ के साथ लोकप्रियता के चरम पर थे। त्रिलोक कपूर की जोड़ी पार्वती बनने वाली अभिनेत्री निरूषा राय के साथ जम गई। फिर तो क्या था फिल्म निमाताओं ने शंकर और कर्बाई भारत में इन फिल्मों की सफलता की गारंटी रहती थी। इन फिल्मों के नाम थे, 'हर हर महादेव', 'शिव- कन्या', 'शिव-शक्ति', 'जय महादेव', 'गणेश जन्म', 'गणेश-महिमा' आदि। इनमें से 'हर-हर महादेव' फिल्म ने देश के अनेक शहरों में स्वर्ण जयंती मनाई। बंबई के सेन्ट्रल सिनेमा में तो यह फिल्म हीरक जयंती (डायमंड जुबली) तक बनी रही। शिव-पार्वती यानी त्रिलोक कपूर

और निरूषा राय के चित्रों से सारे बाजार धर्ममय हो गए। कैलेण्डर्स की बाढ़ आ गई। जिधर देखो त्रिलोक-निरूषा। लोग उनकी आरती पूजा करने लगे थे। भगवान शंकर का ठप्पा लगने से त्रिलोक कपूर को तो बहुत मुश्किल हो गई। उन्हें अन्य रोल मिलने बंद हो गए। बीच में उन्होंने अन्य भूमिकाएं प्राप्त कर इस छवि को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह सामाजिक फिल्मों में अपने अग्रज पृथ्वीराज के समान स्थान नहीं बना सके। अपने फिल्मी करियर में त्रिलोक कपूर ने करीब 250 फिल्मों में काम किया, लेकिन अधिकांश फिल्मों की भूमिकाएं छोटी-छोटी सी रही। लेकिन कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हैं। आरंभिक फिल्म थी- 'धूपछांव' (1935), 'अच्छूत' (1940), 'आंख की शर्म' (1943), 'आईना' (1944), 'लल-दमवती' और 'कृष्णार्जुन-युद्ध' (1945), 'आनंद-धवन' और 'राजतरन' (1953)।

कार्टून वर्ल्ड
अब एडे पढ़ेगी बेटी
साधारण कॉलेजियेट डॉक्टरेट



स्पीड न्यूज

गुरु नानक स्कूल में गीत प्रतियोगिता

रामगढ़। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में शनिवार को अंतर सदनीय समूह देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता चार सदनों के बीच में हुई। साहेबजादा अर्जुत सिंह, साहेबजादा जुझार सिंह, साहेबजादा जोरावर सिंह और साहेबजादा फतेहसिंह सदन के बीच प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बीच हुई। जिसमें जोरावर सिंह हाउस प्रथम, द्वितीय अजीत सिंह हाउस व फतेह सिंह हाउस और तृतीय जुझार सिंह हाउस रहे। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया।। पार्या हरजाप सिंह जी ने बच्चों के उत्साह की प्रशंसा की और भविष्य में बेहतर करने की कामना की। कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रामगढ़ के अध्यक्ष सरदार परमदीप सिंह कालरा , अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह अरोड़ा, उपाध्यक्ष सरदार परमिंदर सिंह जस्सल , सरदार कुलजीत सिंह कालरा, उपाध्यक्ष सह प्रबंधक सरदार मनमोहन सिंह लांबा, स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार परमजीत सिंह चमन, सरदार हरदीप सिंह, सरदार पुर्विंदर सिंह छबड़ा, सरदार कुलजीत सिंह छबड़ा, सरदार इंद्रपाल सिंह सैनी, सरदार ब्रह्म भसीन, सरदार विक्रमजीत सिंह कोहली तथा मीडिया प्रभारी सरदार करमजीत सिंह जग्गी भी उपस्थित थे।

सलोनी डिजनी लैंड मेला का उद्घाटन

कुजू। सलोनी डिजनी लैंड श्रावणी मेला का उद्घाटन शनिवार को पब्लिक उद्यान विद्यालय कुजू के मैदान में हुआ। जिए सदस्य दर्यामती देवी व कांग्रेस प्रदेश सचिव धर्मराज राम, जदयू जिलाध्यक्ष ज्योतेंद्र प्रसाद साहू, राजद जिलाध्यक्ष गुलजार अहमद, मेला समिति अध्यक्ष मुखिया जयकुमार ओझा, दक्षिणी मुखिया राकेश मेहता राक, पूर्व मुखिया अशोक कुमार, पंसस संतोष मेहता, उपमुखिया संगीता देवी शामिल हुए। अतिथियों ने कहा कि मेला आपसी प्रेम व सौहार्द को बढ़ाने के साथ मनोरंजन की विशेष व्यवस्था है। लोग दूरदराज जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर मनोरंजन कर सकते हैं। मेला संचालक मकसूद आलम व समिति सदस्यों कहा कि कुजू में मेला लगाना बंद हो गया था, एक बार सभी के सहयोग से मेला शुरू हुआ।

परवरिश के बच्चों ने बनाया बैग

कुजू। परवरिश स्कूल कुंदरिया बांध कुजू में शनिवार को पुराने कपड़ों से एक उच्च कुशल बैग बनाने की गतिविधि करके पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाया गया। साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के प्रयास में, परवरिश एजुकेशन स्कूल ने छात्रों, अभिभावकों और समुदाय को पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने और एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए बैग बनाने की पहल तैयार की। मौके पर स्कूल की प्राचार्या नेहा राज बनर्जी, निदेशक शैलेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक विकास कुमार सिंह ने पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा स्कूल हमेशा अपने छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। स्कूल अपने सभी भविष्य के प्रयासों में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लेता है। मौके पर रश्मि कुजूर, सावित्री अग्रवाल, नदिनी झा, कंचन प्रसाद आदि मौजूद थे।

जन्म प्रमाण-पत्र का लिया आवेदन

भुरकुंडा (रामगढ़)। बुधबाजार दोतल्ला पंचायत सचिवालय में चल रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को 14 जुलाई से 14 अगस्त तक के बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र का आवेदन आवेदकों से जमा लिया गया। इस दौरान सभी प्रकार के पेंशनधारियों का आधार कार्ड का छायाप्रति व मोबाइल नंबर लेकर वार्षिक केवाईसी किया गया। मौके पर पंचायत की मुखिया सत्यवती देवी ने बताया की सभी बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र बनाना अनिवार्य है। क्योंकि बिना जन्म प्रमाण-पत्र के आधार कार्ड नहीं बन सकता है और आज के समय में आधार कार्ड की उपयोगिता हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि बिना आधार कार्ड के न ही स्कूलों में दाखिला होती है, ना ही बैंकों में खाता खुलता है और ना ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ छात्र-छात्राओं को मिल पायेगा। मुखिया सत्यवती देवी ने कहा कि बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का वार्षिक केवाईसी हो रहा है एवं उनका मोबाइल नंबर पेंशन के साथ जोड़ा जा रहा है। ताकि उनको पता चल सके कि उनका पेंशन नियमित रूप से मिल रहा है कि नहीं।

कुई मांगों को ले विस्थापितों की बैठक उरीमारी (रामगढ़)। विस्थापित कार्यालय न्यू बिरसा पोटंगा में शनिवार को विस्थापित समिति न्यू बिरसा पोटंगा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सूरज बेसरा व संचालन समिति के सचिव जितन मुंडा ने किया। बैठक में कहा गया कि जानकारी मिली है कि बरका-सयाल क्षेत्र के जीएम ऑफिस को सीसीएल प्रबंधन द्वारा भुरकुंडा रिपर साइड के बीटीटीआई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। सीसीएल प्रबंधन के इस निर्णय का विस्थापित समिति न्यू बिरसा पोटंगा घोरे विरोध करती है। विस्थापित समिति न्यू बिरसा ने सीसीएल प्रबंधन से जीएम ऑफिस बरका-सयाल को उरीमारी के डीपीवी मैदान के आसपास स्थानांतरित करने की मांग की है। विस्थापित समिति न्यू बिरसा के संरक्षक सह केंद्रीय सचिव झामुमो सह संथाल समाज दिशोम मांड्री परगना के महासचिव सोनाराम मांड्री ने कहा कि न्यू बिरसा परियोजना बरका-सयाल क्षेत्र का लाइफ लाइन है। बरका-सयाल क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों में न्यू बिरसा, बिरसा एवं उरीमारी परियोजना में सबसे अधिक 75 प्रतिशत मजदूर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कोयला का उत्पादन और डिस्पैच भी इन तीनों परियोजना में अधिक है। प्रभावित कर्मियों को भुरकुंडा में स्थानांतरित करना कहीं से उचित नहीं है।

विधायक ने पिपरा नदी पर पुल का किया शिलान्यास

खबर मन्त्र संवाददाता

बरही। ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के रानीचुवा पंचायत स्थित पुरहरिया एवं पिपरा टोला के बीच पिपरा नदी पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक उमाशंकर अकेला ने किया। ग्रामीणों ने विधायक श्री अकेला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि लंबे समय से यहां पुल निर्माण की मांग की जा रही थी। पुल का निर्माण होने से लोगों को काफी सुविधा होगी। कहा कि बरही विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने हेतु

हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण हो रहा विकास : अकेला

लगातार विधानसभा में आवाज उठा रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत सारी जटिल समस्याएं थी। परंतु हम अपने स्तर से बहुत सारी जटिल समस्याओं का समाधान किए हैं। बाकी बचे हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बताते चलें कि पुल 3 करोड़ 7 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि से किया जाना है। मेसर्स अजय सिंह कंस्ट्रक्शन को डेढ़ वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूरा करना है। मौके पर विस विधायक प्रतिनिधि छट्टू गोप, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्ना



वारसी, जेई अमित चौधरी, एई सुरेंद्र तिवारी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि गाजो दुड्डू, मनोज रविदास, पारो देवी, जगदीश यादव, मनोज यादव, चंदन रविदास, राजदेव यादव, बाबूलाल मुर्मू, मनोज मंडल, गाजो दूडू,

मुहर्रम में डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध



दारू। थाना परिसर में शनिवार को मुहर्रम को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से बीडीओ सुशील कुमार राय एवं सीओ नीतू कुमारी ने किया। बैठक में शौलाडीह, हरली, पुनाई, गाड़ीसाडम, बसोबर, जिंनगा, कवावु, पेटो , मेडकुरी, मोकतमा, जबरा, पिपचो इत्यादि सभी अखाड़ों के अखाड़ेधारी एवम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बीडीओ ने सबसे पहले सभी अखाड़ों की रूट की जानकारी ली, उसके बाद आने वाली समस्याओं को ठीक कराने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रूट में कोई परेशानी है तो हमें लिखित आवेदन दे। थाना प्रभारी ने कहा कि पूर्व की भांति डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। केवल लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। बैठक में दोनों समुदाय के लोग उपस्थित थे।


मुहर्रम को ले शांति समिति की बैठक करें थाना प्रभारी

खबर मन्त्र संवाददाता

रामगढ़। मुहर्रम के शांतिपूर्ण मनाने को लेकर शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक। एसडीओ ने पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंजल अधिकारियों, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों से शांतिपूर्ण मनाने की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को उनके उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति समिति की बैठक आयोजित कर सदस्यों को पर्व के दौरान ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जानकारियां देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी को किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर त्वरित कि किसी भी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के किसी भी समिति द्वारा जुलूस ना निकाला जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवाओं व एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान

पर्व में अफवाह फैलाने वाले होगी कार्रवाई : एसडीओ



अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अंजल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उनके उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति समिति की बैठक आयोजित कर सदस्यों को पर्व के दौरान ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जानकारियां देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी को किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर त्वरित कि किसी भी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के किसी भी समिति द्वारा जुलूस ना निकाला जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवाओं व एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान

चरही में धड़ल्ले से बन रहा है कोयले का फर्जी कागज

खबर मन्त्र संवाददाता

चरही। इन दिनों चरही में फर्जी कोयले के कागजात धड़ल्ले से बनाये जा रहे हैं। यह कागजात वैसे टूटकों को दिया जाता है, जो अवैध कोयला लोड कर बिहार और यूपी के कोल मंडियों तक फर्जी कागज के सहारे पहुंच सके। इसके एवज में फर्जी कागज बनाने वाले प्रति ट्रक 5 से 10 हजार रुपये ले रहे हैं।

जानकार बताते हैं कि चरही में गुप्त गुप्त तरीके से दो तरह के फर्जी कोयले के कागज बनाये जा रहे हैं। जिसमें स्टीम कोयले के अलग और सैलरी कोयले के कागज अलग बनाये जा रहे हैं। फर्जी कागज बनाने वाले व्यक्ति अपने वाहन से रात के अंधेरे में गुप्त रूप से पहुंचाने का काम प्रति दिन कर रहे हैं।

कैसे हुआ खुलासा : इसका खुलासा तब हुआ, जब दो ट्रक बोते 19 जुलाई को बड़कागांव क्षेत्र के जोराकाट के सेहदा जंगल से तस्करी के अवैध कोयला लादकर दोनों ट्रक चरही की ओर आ रही थी। सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों के गश्ती दल वालों ने उक्त दोनों ट्रकों को चरही साईडिंग के चेकपोस्ट पर रोकने का इशारा किया। लेकिन दोनों ट्रक भागने

कागज बनाने में एक ट्रक से 5000 से 10000 रुपये की होती है वसूली

लगे जिसे खदेड़कर पकड़ा। पकड़े गए दोनों ट्रक के चालकों को कोयले से संबंधित कागजातों की मांग की गई। लेकिन कागजात को प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों ट्रकों पर लगभग 60 टन कोयला लोड है। फर्जी कागज बनाने वाले व्यक्ति उसी दिन शाम को बानगे को लेकर पहुंचा और सुरक्षा प्रभारी को दिखाये लगा। जिसमें यह कागज भुरकुंडा कोल डीपी सफल मोड़ के नाम से बनाया गया था। लेकिन कागजात को बनाया प्रभारी को नहीं दिया गया। तथा दोनों ट्रक के वजन पच्ची सांटी के ऋषि धर्म कांटा का दिखाया गया। लोगों से पता करने पर जानकारी मिली कि इस नाम के कोई धर्म कांटा यहां नहीं है। एक मात्र ऋषि धर्म वेट नाम का एक वजन घर है।

इस वजन में 19 जुलाई को कोई ट्रक का वजन नहीं किया गया है। जबकि दोनों ट्रकों पर कोयले की लोडिंग बड़कागांव क्षेत्र जोराकाट के सेहदा जंगल से किया गया था और चरही होते हुए तस्करी के द्वारा निकाला जा रहा था। इस तरह से चरही में फर्जीबाड़ा धड़ल्ले के साथ चल रहा है।

बेदिया के मुख्य संयोजक बनने पर हर्ष व्यक्त किया

भदानेनगर (रामगढ़)। हजारीबाग जिला में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को देखते झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिवू सोरेन के निर्देश पर पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडेय पत्र जारी कर झामुमो की जिला, प्रखंड व पंचायत कमेटी को भंग करते हुए नयी कमेटी गठन करने को ले जिला संयोजक मंडली का गठन किया है। जिला संयोजक मंडली में झामुमो के केंद्रीय सचिव सह झारखंड परिवहन प्राधिकार के सदस्य संजीव बेदिया को मुख्य संयोजक बनाया गया है। संजीव बेदिया के झामुमो हजारीबाग जिला का मुख्य संयोजक बनने पर झामुमो कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजीव बेदिया के मुख्य संयोजक बनने से हजारीबाग



जिला कमेटी और बड़कागांव विधानसभा पार्टी स्तर से काफी मजबूत होगा। बेदिया ने कहा कि झारखंड के महानायक दिशोम गुरु शिवू सोरेन व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस उम्मीद व विश्वास के साथ मुझे यह कार्यभार सौंपा है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी।

छात्रा से यौन शोषण करने वाला शिक्षक ने

कोर्ट में किया सरेंडर

दारू। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक मुकेश कुमार सिन्हा पर 15 जुलाई को अपने पड़ोसी के 14 वर्षीय नाबालिका छात्रा के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। इस आरोप के बाद शिक्षक फरार था और उसकी गिरफ्तारी की मांग छात्रा के परिवार और समाज से जुड़े अन्य लोग लगातार कर रहे थे। इसको लेकर पुलिस आरोपी की शिक्षक के ऊपर लगातार दबाव बना रही थी जिसके बाद शनिवार को उसने हजारीबाग न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया ल इस आरोप को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक शुक्रवार को विद्यालय परिसर में हुआ जिसमें उक्त शिक्षक के विरुद्ध विभाग ने संज्ञान लिया।

विभाग ने झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के अधिसूचना संख्या 16/M-04/2022/238 दिनांक 14/04/2022 कंडिका iii(iii) एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के ज्ञापक संख्या 84 दिनांक 20/07/2023 के आलोक में 22 जुलाई को प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सहायक शिक्षक मुकेश कुमार सिन्हा को सेवा मुक्त कर दिया गया है जो तत्काल 22 जुलाई 2023 से लागू हो गया है।

कटकमदाग में सुब्रतो फुटबॉल

टूर्नामेंट में 11 टीमों ने लिया भाग



कटकमदाग। बी. आर. सी कटकमदाग उत्कर्मित प्लस टू उच्च विद्यालय खपरियावाँ के मैदान में झारखंड सरकार के खेल योजना के तहत खेलो इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में 11 टीमों ने भाग लिया जिसमें 14 आयु वर्ग में आदर्श मध्य विद्यालय खपरियावाँ ने सलगवावाँ को 1-0 गोल से पराजित किया। 17 आयु वर्ग में उत्कर्मित प्लस टू उच्च विद्यालय खपरियावाँ ने उत्कर्मित उच्च विद्यालय कटकमदाग को 03 .0 गोल से पराजित किया। बालिका वर्ग में कटकमदाग उत्कर्मित उच्च विद्यालय को 1-0 गोल से पराजित किया। विजेता एवं उपविजेता टीमों को आतिथियों द्वारा शील्ट देकर सम्मानित किया गया। सभी मैच काफी रोमांचक रहा सभी छात्र छात्राओं एवं दर्शकों ने फुटबॉल मैच का आनंद लिया। मुख्यआतिथि के रूप में समाज सेवी सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राम किशोर सावंत एवं प्रभारी प्रचार्य प्रीतो रानी, बिंदु लता, जितेंद्र मिश्रा रंजीत कुमार नसीम अंसारी, ईला मैम, सुमित्रा मैम , रंजू मैम, अनिसा मैम, गीता मैम, बसंत मैम, लक्ष्मण राम बिरसा रविदास, केदार राणा तथा रेफरी पवन कुमार, मृतुन्जय कुमार सरयू जी एवं सभी विद्यालय के शिक्षक गण मौजूद थे।

एक

नजर में

आईलेक्स पब्लिक स्कूल में मना पाई दिवस

बरही। पंचमाघ में संचालित आईलेक्स पब्लिक स्कूल में छात्रों ने पाई दिवस मनाया। कार्यक्रम में स्कूल के लगभग सभी छात्रों ने हिस्सा लिया। बच्चों को गणित से सम्बंधित कई क्रियाकलाप कराये गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक शैलेश कुमार के कहा कि पाई का सम्बन्ध गणित से बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सम्पूर्ण जीवनकाल में गणित भाषा का विशेष महत्व है। भाँतिको में भी पाई को विशेष स्थान प्राप्त है। पाई (स) एक गणितीय नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी भी परिधि और उसके व्यास के बराबर के अनुपात के बराबर होता है। इसका मान 22/7 के बराबर होता है। निदेशक शैलेश कुमार ने कहा कि गणित से दोस्ती छात्र जीवन में विशेष महत्व रखती है। अगर छात्रों को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो गणित का हाथ थाम के रखना होगा। क्रियाकलापों में खुशी कुमारी, कुमारी पायल, सत्यम कुमार, अनुष्का कुमारी, पवन कुमार, शिवम कुमार, अनु रानी, इमरान अंसारी ने बेहतर प्रदर्शन किया।

शिवपुरी में पैसे को लेकर डाइवर्ष की हत्या!

हजारीबाग। शहर के उत्तरी शिवपुरी में द्वाइबर 45 वर्षीय सुरेश वर्मा पिता रामलाल वर्मा की पीट-पीट कर हत्या कर देने की सूचना है। बताया जाता है कि शनिवार दोपहर 11 बजे के करीब उसके दो दोस्त शिवपुरी गली न. 14 निवासी अमित सिन्हा व ध्रुव सिंह उसे घर से बुला के ले गए। उसके बाद पैसे की लेन देन को लेकर उसकी मार कुटाई कर दी। इस दौरान सुरेश वर्मा के पुत्र ने वहां पहुंचकर अपने पिता को बचाने की कोशिश की। पुत्र का आरोप है कि घायल अवस्था में वे लोग उसके पिता को सदर अस्पताल पहुंचा कर फरार हो गए। चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। इधर मृतक की पत्नी सुनीता देवी का आरोप है कि ये सभी लोग एक साथ काम करते थे। जब शनि और ध्रुव उसके पति को बुलाने आये तो इनलोगो के सोचा की किसी काम को लेकर उन्हें बुलाया गया होगा। क्या मालूम था कि वे लोग इनकी हत्या कर देंगे। हमलोग के घर में कमाने वाले थे एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। अब हमलोगो को कौन देखेगा। प्रशासन से ये गुजारािश है कि ध्रुव और शनि को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

कोल्हाआकला तिलैया बस्ती से वृद्ध का शव मिला

बरही। कोल्हाआकला पंचायत के तिलैया बस्ती में गाँव के निकट स्थित जंगल से एक वृद्ध का शव बरामद किया। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बरही पुलिस को दी है। बरही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की आयु 65 वर्ष के लगभग बताई जा रही है। वृद्ध की मौत किस वजह से हुई है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मृतक बुजुर्ग की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई है।

टाटीझरिया : जलस्रोतों में नहीं है पानी

टाटीझरिया। टाटीझरिया प्रखंड क्षेत्र के झरपो भराजो खैरा डहरभंगा डुमर धर्मपुर बैडम टाटीझरिया आठो पंचायत के कई गाँवों में बारिश अभाव के कारण धान रोपाई की शुरुआत नहीं हो सका है। वहीं टाटीझरिया निवासी महादेव यादव ने कमलाघोषी में अपने खेत में एक छोटे तालाब से पानी पटवन कर करीब 2 एकड़ में धान की रोपाई कर चुके हैं। वहीं एक एकड़ में रोपाई अभी बाकी है। जो तालाब में पानी की कमी के कारण नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि यदि सरकार की तरफ से क्षेत्र में जगह-जगह डीप बोरिंग की पहल की जाए तो यहां के किसानों को मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कहा कि खेती का उपयुक्त समय बीतने के बाद रोपाई करने पर फसल की पैदावार प्रभावित होता है। कृषि क्षेत्र होने के कारण उन्होंने सरकार को इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि सरकार के द्वारा किसानों को उन्नत खेती का व्यवस्था दिए जाने से क्षेत्र में पलायन को कम किया जा सकता है।

नलकूप का मुखिया ने किया उद्घाटन

चरही। शनिवार को बहैरा पंचायत के ग्राम पिपरा में 15 वें वित्त आयोग से नलकूप का उद्घाटन शुरू प्रमुख निरंजन प्रसाद नायक, बीडीओ इंंदर कुमार मुखिया पंचायत के मुखिया देवकी महतो के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जिसकी लागत राशि 1,45,000 रुपये है। मौके पर पंसस शक्ति देवी, मालती देवी, आशा राय, आरिफ अंसारी, लालो मांड्री, राजन महतो, विनोद कुमार केशरी, अजकूदीन अंसारी, जावेद अली, अब्दुल्लाह अली, याकूब अंसारी, गुलाम अंसारी, सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लगा कैप

बड़कागांव। बड़कागांव मध्य पंचायत भवन में मुखिया मोहम्मद तकररीमुल्ला खान के नेतृत्व में जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर शिविर लगा। मुखिया मोहम्मद तकररीमुल्ला खान ने बताया कि बड़कागांव मध्य पंचायत भवन में 14 अगस्त तक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र पंचायत भवन में बनाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर आवेदन दें एवं दूसरों की भी सहयोग करें। पंचायत सेवक अलका कुमारी ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब तक 30 फार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक फार्म जमा किया गया है। मौके पर मध्य पंचायत के मुखिया तकररीमुल्ला खान, वार्ड सदस्य लीला कुमारी, संजय रवि मुखिया प्रतिनिधि मजहर खान समेत अन्य लोग मौजूद थे।

सड़क दुर्घटना को लेकर थाना में मामला दर्ज

बड़कागांव। बड़कागांव के गुरु चट्टी में एक बोलरो द्वारा महिला को धक्का मारने एवं दो बोलरो को टक्कर मारने वाले बोलरो चालक अरुण ठाकुर के विरुद्ध बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है। 242 /23 धारा 279, 337, 338, 427 है। यह मामला दर्ज घायल महिला के पति केशवरी महतो, बैजनाथ महतो, सत्येंद्र कुमार, भुनेश्वर तुरी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर किया गया। आवेदन में बताया गया है कि 14 जुलाई को दोपहर में एक बोलरो जेएच 02बी एल 3960 महदी निवासी अरुण ठाकुर चला रहा था। उसने गुरु चट्टी के बैजनाथ महतो के घर के पास बिजली के खंभे को धक्का मार दिया तब वहाँ से तेजी से भागने के दौरान बड़का गाँव अस्पताल के पास किशोरी महतो की पत्नी झाली देवी को धक्का मार दिया जिस कारण वह बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद सत्येंद्र महतो का बोलरो (जे एच 01ए डब्लू 4560) को धक्का मार दिया। इसके बाद बोलरो चालक वहां से भागना चाहा, उसी दौरान बुधेश्वर तुरी का बोलरो (जे एच 01ए आर 8705) को भी धक्का मार दिया। आवेदन में बताया गया है कि धक्का मारने वाला बोलरो चालक अरुण ठाकुर इस के नशे में धूत में था।

एनएचएआई ने सड़क किनारे गड़्डों को भरा

बरही। मुहर्रम पर्व के अवसर पर बरही के रसोईया घमना मोड़ में सड़क के किनारे बने गड़्डों को एनएचएआई ने भरा। बताते चलें कि संभावित दुर्घटना से बचने के लिए एनएचएआई के द्वारा उठाया गया सार्थक पहल है। क्योंकि सड़क निर्माण की प्रगति कछुए की चाल के कारण निरन्तर दुर्घटनाएँ होती रहती है। इस नये कार्य के लिए समाजसेवी तौकरी रजा ने अहम भूमिका निभाई है। एनएचएआई द्वारा रसोईया घमना मोड़ के आस पास मिट्टी डालकर ग्रेडर एवं रोलर से समतल किया गया। उन्होंने सड़क सुरक्षा से किसी भी कार्य में सहयोग करने की बात कही ताकि कोई दुर्घटनाएँ होती हो। साथ ही मुहर्रम पर्व में ट्रैफिक की व्यवस्था करने का आग्रह किया। साथ ही रसोईया घमना के ऐतिहासिक कर्बला के रास्ते को भी ठीक करने की बात की। मुहर्रम के दौरान बिजली विभाग के सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि पर्व में बिजली का परिचालन नियमितरूप से होता रहे। सभी आसपास के इमानबाड़ा बिजली से रोशन हो। मौके पर मीडिया प्रभारी तौकरी रजा, पंसस मो तेयब अंसारी, मो खलील, पूर्व वार्ड सदस्य मो तबरेज अंसारी, मो तस्लीम, मो अख्तर, मो हैदर, मो मौजिम अंसारी, गुलाम जिलानी, सीताराम साव, केशवर साव, मो तौसीफ, मो रफीक, मो शमशाद, वार्ड प्रतिनिधि मो मेराज आदि उपस्थित रहे।

स्पीड न्यूज

प्रतियोगिता में विद्या मंदिर को पहला स्थान

लोहरदगा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लातेहार में आयोजित 34 वां क्षेत्रीय लमोरी, कैरम और टेबल सोकर प्रतियोगिता के अंतर्गत लमोरी प्रतियोगिता में शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर लोहरदगा के करमचंद भगत, कमलेश उरांव की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे झारखंड बिहार क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्या मंदिर में खेल आचार्य जोधन सिंह के नेतृत्व में इन भैयाओं की टीम ने लमोरी खेल का पूरे मनोयोग के साथ अभ्यास किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रधानाचार्य विपिन दास, प्रबंध कार्याणी समिति के सचिव अजय प्रसाद, अध्यक्ष शशिधर लाल अग्रवाल, गुमला विभाग के विभाग प्रमुख अखिलेश कुमार सहित समिति के सभी पदधारियों ने हार्दिक बधाई दी।



मोदी सरकार का जनहित परफोकस

लोहरदगा। भाजपा जिलाध्यक्ष मनीर उरांव के नेतृत्व में पेशारार प्रखंड के केकरांग और पेशारार बाजार में महाजनसंपर्क अभियान के तहत देश के पीएम के रूप में देवबारा मोदी का समर्थन करने एवं उनके कार्यों का पत्रक लोगों के बीच बांटा। अभियान के दौरान मनीर उरांव ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात यदि हम रखते हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पेशारार प्रखंड है। आज पेशारार में सड़क, बिजली, हर घर जल नल योजना, स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य उपकेंद्र का पुनः अपग्रेडेशन, प्रखंड कार्यालय का निर्माण, लावापानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर भययुक्त वातावरण से दूर करने का कार्य किया है। मौके पर जिला महामंत्री राजकुमार वर्मा, जिला मंत्री अनिल उरांव, जिला मीडिया प्रभारी पशुपति नाथ पारस, प्रखंड अध्यक्ष भरत किसान, नंदकिशोर पांडेय, लिनू नागेशिया आदि मौजूद थे।



प्रेरणा शाखा ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर

गुमला। मारवाडी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने अपने आठ दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन शनिवार को इंडोर स्टेडियम गुमला में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। शिविर में सिविल सर्जन राजू कच्छ्य शामिल हुए। शिविर में टेकनीशियन रिजवान अख्तर, विदुष भगत एवं जीपनरम नर्स इंदानी कुमारी ने अहम भूमिका निभायी। शिविर में लोगों के निशुल्क बीपी और शुगर की जांच की। शिविर में 55 लोगों ने अपना जांच करवाया और लाभ उठाया। इस शिविर में जिला खेल पदाधिकारी श्रीमति हेमलता बुन और व्यवसायी श्री नवल साहू अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। शिविर में अध्यक्ष शिल्पा अग्रवाल, सचिव कांता साहू, कवचनरूपा साहू, विभा अग्रवाल, बीना अग्रवाल, रंजीता पोद्दार उपस्थित थी। इसी के साथ युवा मंच के मंडलीय सहायक मंत्री युवा सुमित गाड़ीधिया, नरवर लाल अग्रवाल एवं भूषण नरसरिया उपस्थित थे।



मुहूर्म को लेकर पुलिस-पब्लिक मीटिंग

जारी। प्रखंड के गोविंदपुर गांव में मुहूर्म पर्व को लेकर चैनपुर सर्किल इन्स्पेक्टर बैजू उरांव की अध्यक्षता में पुलिस पब्लिक की बैठक की गयी। इन्स्पेक्टर ने कहा कि 29 तारीख को मुहूर्म का जुलूस शांतिपूर्वक निकालें। जुलूस में हुड़ंग या नशराम कर गलत नारे लगाने पर उसपर कार्रवाई होगी। जारी थानेदार मनीष कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया एवं फेसबुक में कोई भी व्यक्ति गलत भैसेज नहीं डालें। गलत भैसेज भेजने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर गोविंदपुर सदर जियारूल अंसारी, रिजवान अंसारी, कलीम कुरेशी, सादिक खान, मोईन खान, सुल्तान खान आदि थे।



एसपी ने किया कुरकुरा थाना का निरीक्षण

गुमला। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऐहतेशाम वकारिव ने शनिवार को कुरकुरा थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अभिलेखों व सचिकाओं की जांच की। निरीक्षण के क्रम में उपर्युक्त सभी सचिकाओं का अद्यतन करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। कुरकुरा थानांतर्गत सभी पंचायत भवनों पर रक्षक बीट सिस्टम लगाकर निगरानी रखेंगे। थाना क्षेत्र के जेल से बाहर आये अपराधियों की थाना हाजरी, डोसियर एवं निगरानी पंजी में अफिल व्यक्तियों पर क्युआर कोड व रक्षक ई बीट पुलिसिंग से निगरानी रखने को कहा। निरीक्षण में एसडीपीओ बसिया, पुलिस निरीक्षक बसिया अंचल, थाना प्रभारी कुरकुरा, कामडारा, बसिया, पालकोट थाना अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।



डबल इंजन सरकार की विफलता का संकेत है मणिपुर घटना : विजय सिंह

गुमला। झारखंड नवनिर्माण दल (जेएनडी) के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने मणिपुर में हो रहे लगातार हिंसा, अत्याचार की घटना खासकर दो महिलाओं को नग्न कर भीड़ द्वारा घुमाने की खबर के बाद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद 2 महीने से ज्यादा दिनों से मणिपुर में हिंसा व लोगों पर अन्याय व अत्याचार हो रहा है। हद तो तब हुई जब 2 महिलाओं को नग्न कर भीड़ द्वारा घुमाने व उसके नग्न शरीर से खिलवाड़ करने की वीडियो वायरल हुई। श्री सिंह ने कहा कि न जाने इन दिनों तक मणिपुर में अशांति के दौरान क्या-क्या लोगों पर जुल्म दाये जा रहे होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और मणिपुर में कथित तौर पर डबल इंजन की सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है।

फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर हुई बैठक

लोहरदगा। जिला के भंडरा प्रखंड क्षेत्र के लालभीठा मैदान में युवा जागृति क्लब लालभीठा के तत्वावधान में आयोजित स्व लाल चंद्रमणि नाथ शाहदेव फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु एक आम बैठक रखी गयी। जिसमें भीठा, लालभीठा और आस पास के कई गांव के युवा कार्यकर्ता और सदस्यगण उपस्थित रहे। इस साल छटा स्व लाल चंद्रमणि नाथ शाहदेव फुटबॉल टूर्नामेंट 3, 4, 5 और 6 अगस्त को प्रतियोगिता करायी जायेगी। यह बैठक युवा जागृति क्लब और फुटबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष राजा लाल के नेतृत्व में किया गया।

भूमि सम्मान मिलने पर जिप अध्यक्ष ने डीसी को दी बधाई



खबर मन्त्र संवाददाता
लोहरदगा। लोहरदगा जिले के उपायुक्त एचम उनके टीम को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान मिलने पर लोगों द्वारा लगातार बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी भगत ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच कर लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बाधमारे प्रसाद कृष्ण की पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। मौके पर उन्होंने कहा लोहरदगा जिला एक छोटा जिला है राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान मिलना काफी गर्व को बात है। उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला के सभी वर्ग के लोगों के लिय कई विकास के कार्य किए गए हैं। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य पेशारार बिनोद खेरवार, पेशारार प्रमुख सीता देवी, आदिवासी छात्र संघ कुडू प्रखंड अध्यक्ष अवधेश उरांव, कुडू पंचायत उप मुखिया राहुल उरांव आदि उपस्थित रहे।

आजीविका महिला मंडल से जुड़कर स्वावलंबी हो रही हैं महिलाएं : किरण

■ आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड कोनरा का वार्षिक अधिवेशन संपन्न



खबर मन्त्र संवाददाता
गुमला। आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड कोनसा के द्वारा कामडारा ब्लॉक परिसर में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन शनिवार को किया गया। जिसमें बतौर अतिथि जिप अध्यक्ष किरण माला बाड़ा व विशिष्ट

कर रही हैं। जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, आजीविका, शोषण, अत्याचार, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रही है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले युवा पीढ़ी जिसमें किशोरियों में बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण महिलाएं आवश्यक पोषण के अभाव में एनीमिया की शिकार हो रही हैं।

एसपी कार्यालय में झापन सौंप जान माल की सुरक्षा की गुहार

■ वर्ष 2006 में डायन बिखाही का आरोप लगाकर उसके सास-ससुर पर किया गया था जानलेवा हमला, सास का कट गया था गर्दन

■ घटना के बाद तीन अभियुक्त गये थे जेल, अब फिर परिवार को दे रहे धमकी

■ 19 को फिर से अभियुक्तों ने उसके पति के साथ मारपीट कर सास-ससुर को मारने की धी धमकी



एसपी को झापन सौंपने पहुंची महिला। जान माल की सुरक्षा की गुहार लगायी है। गांव के कुछ लोग उसके सास-ससुर पर डायन बिखाही का आरोप लगाकर उसके पति सहित परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की धमकी दे रहे हैं। रेंबिका ने बताया कि गांव के ही जयजोन केरकेट्टा, विक्टर केरकेट्टा व शोभित मिंज 26 दिसंबर 2006 को मेरे सास-ससुर पर जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें टांगी की वार से मेरी सास गंभीर रूप से घायल हो गयी थी। उसका गर्दन कट गया था। अभियुक्त उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिये थे।

किराया में अत्यधिक बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्री व राज्यसभा सांसद से मिले दुकानदार

खबर मन्त्र संवाददाता

लोहरदगा। जिला परिसदन में शनिवार को झारखंड राज्य के वित्त मंत्री सह लोहरदगा विधायक डॉ रामेश्वर उरांव एवं राज्यसभा सांसद धीरज साहू से व्यवसाई संजय बर्मन के अगुवाई में नगर परिषद द्वारा आर्वाइटेड भूखंड तथा दुकान में गुदरी बाजार, बड़ा तालाब, सोमवार बाजार, पावरगंज, रेलवे साईडिंग व बरवाटोली के दुकानदारों के समूह ने मिलकर अपनी समस्या का निदान करने की गुहार लगायी। दुकानदारों ने बताया कि परिषद द्वारा नोटिस देखकर दुकानों के किराए में अप्रत्याशित रूप से 700/ 800 प्रतिशत की बढ़ोतरी, सफाई स्कूल के नाम पर बौर कभी नोटिस दिये 6 साल का 500 महीना की दर से एकमुश्त 35500



मंत्री और राज्यसभा सांसद से मिलते दुकानदार।

खास बातें : मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव व सांसद धीरज साहू ने मामले की गंभीरता को लेते हुए लोहरदगा अनुसूचित पदाधिकारी व शहरी विकास मंत्रालय के सचिव विनय चौबे से दूरभाष से वार्ता कर कहा कि लोहरदगा रांची नहीं है, तथा यह छोटा शहर है। साथ ही यहां सभी छोटे छोटे दुकानदार हैं, यहां कोई इन्फ्लूएंस नहीं है। इसलिए किराया को संशोधित किया जाए, साथ ही साथ डॉ उरांव ने दुकानदारों से कहा कि वे 25 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस बात का जिक्र करेंगे तथा किसी भी दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होगा। मौके पर दुकानदार संजय बर्मन, नर्मन अंसारी, लातू साहू, अमजद अंसारी, विनोद अग्रवाल, हसनत अली, विनय शर्मा, सऊद आलम, विवेक सिंघल, शकील अंसारी, अभिषेक अग्रवाल, आशिक अंसारी, टीपू सुल्तान, रवि मेहता, मो अमरक भी थे। जमा करने, दुकानों को सिर्फ पति प्रकार के राशि 3 दिनों के अंदर पत्नी और बेटा द्वारा ही दुकान जमा करने का आदेश दिया गया और शरीर के अन्य हिस्से में काफी चोट लगी है, अन्यथा परिषद दुकानों को सील करके नीलाम कर देगी।

गुमला में बाइक के धक्के से दो लोग घायल

गुमला। गुमला थाना क्षेत्र के अंबेराडीह स्थित एफसीआई गोदाम के पास सड़क पार कर रहे दो लोगों को बाईक ने धक्का मार दिया। दुर्घटना में इंद्र सदा और संजय सदा दोनों दरभंगा निवासी घायल हो गये। घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। घटना में दोनों व्यक्ति को हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्से में काफी चोट लगी है। घटना के बाद एफसीआई गोदाम के दूसरे मजदूरों द्वारा दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि दोनों मजदूर बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं और एफसीआई गोदाम में मजदूरी का काम करते हैं।

दुष्कर्म का फटार आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

गुमला। पालकोट पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के फरार आरोपी गोनमेर नागोटोली निवासी 25 वर्षीय राधे लोहरा पिता केशवर लोहरा को उसके घर से गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया आरोपी गोनमेर निवासी ने घर में अकेले पाकर महिला से जुबरन दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पिछले माह महिला ने पालकोट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। वहीं आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर में छापाकारी कर शुक्रवार को उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मणिपुर घटना : महिला कांग्रेस ने पीएम का फूंक पुतला

लोहरदगा। जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सीमा परवीन के नेतृत्व में मणिपुर की अमानवीय घटना को लेकर शहर के पावर गंज चौक के पास पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। मौके पर कहा गया कि मणिपुर में लगातार महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ देश के पीएम मोदी मौन साधे हुए हैं। मौके पर पेशारार के प्रखंड अध्यक्ष बिनोद सिंह खेरवार, जिप पेशारार रूबी कुमारी, किस्को प्रखंड अध्यक्ष पुनिता देवी, कुडू प्रखंड अध्यक्ष किस्मती देवी, बबिता देवी, सुशीला देवी, इंदू कुमारी, ममता देवी, रीना देवी, आरती देवी, सुरबाला देवी, रीता देवी, रेखा देवी मौजूद थे।



बच्चों के संरक्षण में समाज की भूमिका अहम : एवका

लोहरदगा। जिले के सदर प्रखंड के मनहो पंचायत स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय बजार किस्को में होप एवं माई चॉइसेस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित गांव कार्यक्रम चला। इसके द्वारा किशोर किशोरियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने हेतु गांव से हो रहे असुरक्षित पलायन, ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूलों से जोड़ना, मानव दुर्व्यपार आदि से बचाना है। मनोरमा एवका ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मानव व्यपार, सुरक्षित स्पर्श असुरक्षित स्पर्श, बाल विवाह, बाल मजदूरी और उनके कर्तव्य आदि पर विस्तार से बताया।


सम्मान समारोह में 2,000 से अधिक विद्यार्थी सम्मानित



कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित और सम्मान समारोह का उद्घाटन करते अतिथि।

प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व वीएस आरुचि के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों के नृत्य संगीत अपने प्रतिभा को दर्शाया। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि शिक्षा से बेहतर जिंदगी बनती है। शिक्षा के प्रति जिले के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित होगा। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि लोहरदगा जिला में अब तक का यह सबसे बड़ा सम्मान समारोह है। ऐसे आयोजन से पढ़ाई के प्रति बच्चों में और आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जिले में पढ़ाई के स्तर में और सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। बताते चले की इस कार्यक्रम में लगभग 2,000 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। मौके पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद थे।

गौवशीय का शव मिलने से सनसनी, लोगों में आक्रोश



खबर मन्त्र संवाददाता
लोहरदगा। जिले के सदर थाना क्षेत्र के निंगनी पंचायत में शुक्रवार रात अपराधियों द्वारा गोवंश पशुओं को पिकअप वैन में लाकर रात के अंधेरे में ईट भट्टा के पास निजी जमीन में फेंक देने से ग्रामीणों में आक्रोश है। घटनास्थल पर दो बैल दो गाय के मृत शव पाये गये हैं जो रस्सी से बंधे हुए हैं। इस घटना की सूचना अन्य इलाकों आग की तरह फैल गयी। ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे। ग्रामीणों में आक्रोश देखे आरोगियों की जल्द गिरफ्तारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा गोवंश पशु के उचित क्रियाकर्म की मांग की है।

भक्त्य भक्ति जागरण के साथ विशाल कांवर यात्रा 24 जुलाई को निकलेगी

■ लोहरदगा से 30 किमी पैदल यात्रा कर घाघरा देवाकी बाबाधाम में करेगे जलापण

■ देवाकी बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों के लिए सुल्तानगंज से गंगा जल की व्यवस्था



खास बातें

खबर मन्त्र संवाददाता
लोहरदगा। सावन की तीसरी सोमवारी पर कांवरिया संघ, बरवाटोली, लोहरदगा भक्त्य भक्ति जागरण के साथ देवाकी बाबा धाम मंदिर, घाघरा में जलापण के लिए विशाल कांवर यात्रा निकालेगी। जिसमें शामिल शिवभक्तों की टोली लोहरदगा से 30 किमी पैदल यात्रा कर घाघरा देवाकी बाबाधाम में स्थित भगवान शिव पर जलापण करेंगे। कांवर यात्रा में करीब 1500 से ज्यादा शिवभक्त शामिल होंगे।

कार्यक्रम की खास बातें

उन्होंने कैटेडर से कहा कि यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और नियमित व्यायाम करेंगे तो कर देश के लिए नागरिक हबों। एचकओ अतिथिजी झा ने कहा कि इस एक्टिविटी का उद्देश्य कारगिल विजय रजत जयंती का स्मरण, कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि, कैटेडर में देशभक्ति को प्रोत्साहित करना, फिट-इंडिया के लिए प्रेरित करना करना है। 25 जुनियर डिवीजन तथा 25 जुनियर विंग कैटेडर ने 25 पुश-अप के 2 सेट किये। कार्यक्रम में साजेंत ताशा झा, कारपोरल पति कुमारी, लॉक अउम कुमार आदि ने भाग लिया



कार्यक्रम में शामिल एनसीसी कैटेडर।

अधिकारी अभिजीत झा को 25 पुश-अप फिनिसर का मेमेंटो देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कैटेडर को संबोधित करते हुए कहा कि 1999 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत को दर्शाने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि का दिन है। जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। युद्ध ने भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और साहस का प्रदर्शन किया था।





वाहन मालिक संघ ने आक्रापीली महाप्रबंधक को किया पत्र प्रेषित

टंडवा (चतरा)। कोल वाहनों की भाड़ा में 10 प्रतिशत वृद्धि की मांग को लेकर आक्रापीली महाप्रबंधक के नाम विस्थापित प्रभावित वाहन मालिक संघ ने किया पत्र प्रेषित। पत्र के माध्यम से कहा गया कि आक्रापीली कोल परियोजना के विस्थापित प्रभावित वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की कम भाड़ा में परिचालन से त्रस्त हो गए हैं। क्योंकि वाहनों के पाटर्स, पुरजा, टायर एवं डीजल सभी चीजों का महंगाई चरम पर है। इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा लगातार भाड़ा में कटौती करते हुए भारी मात्रा में गिरावट की गई है, जिससे हम वाहन मालिक किसी तक नहीं डाल पा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं की समाधान को लेकर 15 दिनों की समय अवधि दी गई है यदि समाधान नहीं हुई तो आगामी 1 अगस्त से वाहन मालिक अपने कोल वाहनों को खड़ी कर हड़ताल पर जाएंगे।

शोकाकुल परिजनों को सात्वना देने पहुंचे ज्ञामुमो नेता

जयनगर (कोडरमा)। ज्ञामुमो नेता सह गाडेय पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा शनिवार को परसाबाद पहुंचे। इस दौरान वे सहदेव भदानी तथा शंकर बिहारी के घर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को सात्वना दी। उल्लेखनीय है कि सहदेव भदानी के पुत्र मनीष भदानी व व्यवसायी मधुरा बिहारी का निधन हो गया था। दोनों के परिजनों को श्री वर्मा ने सात्वना दी। मौके बिदेश्वरी प्रसाद बिहारी, गोविंद प्रसाद बिहारी, दिवाकर तिवारी खलीद खलील आदि मौजूद थे।

नवनियुक्त पंचायत सचिव को दिया गया प्रशिक्षण

कोडरमा। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में नवनियुक्त पंचायत सचिव का एक दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में योजनाओं के प्रावधान, प्रक्रिया एवं धरातल तक सुचारु रूप से कैसे ले जाया जाय के बारे में बताया गया। वहीं डीडीसी ऋतुराज ने प्रशिक्षु नव पंचायत सचिव को बताए की कैसे सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर शत प्रतिशत लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि गांव और पंचायत स्तर पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। मौके पर पीएमयू सदस्य धनपाल व अन्य मौजूद थे।

देहेज हत्या को लेकर सास-ससुर व देवर मामला दर्ज

कोडरमा। भंडरवा निवासी 19 वर्षीय तमन्ना परवीन देहेज के खातिर हत्या करने के मामले में मृतका के पिता कासियाडीह निवासी तसौवर हुसेन की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। हत्या का आरोप मृतका के पति मुशरफ अंसारी उसके ससुर शमीम अंसारी, देवर आरिफ अंसारी के अलावा सास पर लगाया गया है। दर्ज मामले में मृतका के पिता ने कहा है कि उसकी पुत्री की हत्या देहेज को लेकर उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर कर दी। उसने कहा है कि देहेज के लिए उसके पुत्री को काफी दिनों से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

खाना बनाते समय स्कूल की रसोईया घायल

कोडरमा। बेकोबार उत्तरी पंचायत के ग्राम चंद्रोडीह में संचालित उत्कर्मित मध्य विद्यालय में रसोईया के पद पर कार्यरत 55 वर्षीय सुशीला देवी खाना बनाने के दौरान चावल पसाने के क्रम में जल गईं। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशीला देवी चावल पसा रही थी, इसी दौरान अचानक गर्म चावल का पानी उसके पैर पर गिर गया। जिसके बाद उसे स्कूल के शिक्षक व प्रबंधन समिति के सदस्यों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

मदनगुंडी प्रस्तावित टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने एवं कोडरमा व हजारीबाग जिलेवासियों को

टोल टैक्स में छूट को लेकर हुई बैठक

खबर मन्त्र संवाददाता

चंदवारा (कोडरमा)। प्रखंड अंतर्गत उरवां गांव डीवीसी फोर्म में मदनगुंडी में प्रस्तावित टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया एवं कोडरमा, हजारीबाग जिला के वाहनों को टोल टैक्स मुक्त करवाने को लेकर पूर्व प्रमुख लीलावती देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में उपस्थित स्थानीय लोगों के द्वारा विचार विमर्श करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किये गये। बैठक में सर्वप्रथम जागरूकता समिति का गठन किया गया जो मुख्य रूप से कोडरमा व हजारीबाग जिला के मुख्य प्रभावित गांवों में जाकर लोगों को भी प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए आम की रूपरेखा तैयार करने



में सहायक करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक संयोजक कृष्णा यादव के अगुवाई में 24 जुलाई को प्रस्तावित टोल प्लाजा के समीप में 11 बजे दोपहर से होगी। इस बाबत कृष्णा यादव ने कहा की बरही रसोईया धमना टोल

प्लाजा, हजारीबाग नगवा टोल प्लाजा दो-दो टोल प्लाजा इससे पूर्व लगभग 20 से 50 किलोमीटर की दूरी पर इससे में ही स्थापित हैं ऐसे में चंदवारा में एक और टोल प्लाजा आम जनता के बजट पर बोझ डालेगा, इससे कोडरमा और हजारीबाग जिला के आस पास के

यौन हमले व सामूहिक बलात्कार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च व अमित शाह का पुतला किया दहन

खबर मन्त्र संवाददाता

जयनगर (कोडरमा)। माले प्रखंड कमेटी की ओर से पिपचो बाजार से पेट्रोल पंप तक प्रतिवाद मार्च व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जिसका नेतृत्व पार्टी के प्रखंड सचिव अशोक यादव, मध्य जोन लोकल कमेटी सचिव असगर अंसारी ने किया। यह मार्च बाजार होते हुए चौक पर सभा में तब्दील हो गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव राजेंद्र मेहता, एकटू जिला सचिव विजय पासवान ने कहा कि मणिपुर पिछले दो महीने से जल रहा है। वहां सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं और भाजपा के डबल इंजन की सरकार तमाशबीन बनी हुई है। इतना ही नहीं जब पिछले दो दिन पहले एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ



जो कि पूरे देश को राष्ट्रीय शर्मसार कर दिया और आज पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। उक्त विडियो में आदिवासी समुदाय के दो महिलाओं को निवस्त्र कर परेड करवाया गया और भीड़ द्वारा उन महिलाओं के साथ क्रूरता पूर्वक छेड़छाड़ किया गया। उक्त महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया है और यह घटना तब हुई जब देश के गृहमंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक सभा किया था। वहीं राज्य कमेटी सदस्य मो.

हाईमास्ट लाइट पर

रोक लगाने की मांग गढ़वा। धर्म रक्षा वाहिनी जिला गढ़वा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को आवेदन देकर छत्रपति शिवाजी (तथा कथित कर्बला) मैदान में हाईमास्ट लाइट लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। इसकी प्रतिलिपि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं गढ़वा थाना प्रभारी को भी दी गई है। ज्ञात हो कि दो साल पूर्व कर्बला के नये चहारदीवारी निर्माण अतिरिक्तभूमि पर करने पर गढ़वा अंचल में अतिक्रमण वाद संख्या - 07/19-20 चल रहा है तथा पूर्व में भी उच्च न्यायालय में उक्त भूमि पर मुकदमा चल चुका है। जिसे उच्च न्यायालय द्वारा गढ़वा न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी को भेज दिया गया था। जिसका केस नं - 607/79 है। उक्त भूमि के देख रेख के लिए गढ़वा थाना प्रभारी को रिसिवर नियुक्त किया गया था।

एक नजर में

कुख्यात अपराधी बबलू राय रातू से गिरफ्तार, 12 से ज्यादा कांडों में आरोपित

खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। कोडरमा पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से रातू क्षेत्र से कुख्यात अपराधी बबलू राय को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि वह जयनगर थाना का वांछित अपराधी है एवं जिले के कई थानों में दर्ज 12 से ज्यादा कांडों में आरोपित रह चुका है। पूर्व में कोडरमा पुलिस ने बबलू राय पर सीसीए भी लगाया था। इससे पूर्व बबलू राय को 2017 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। कुछ सालों तक जेल में रहने के बाद बबलू राय को जमानत मिल गई थी। तीन जनवरी 2021 को बबलू राय को हथियार की डिलीवरी करने पहुंचने की सूचना पर कोडरमा पुलिस ने थर्मल पावर प्लांट के फोरलेन चौक



से गिरफ्तार किया था। उस पर जिले के जयनगर, तिलैया, डोमचांच थाना, चतरा एवं गोमो रेल थाना में भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं रातू थाना प्रभारी ने शनिवार को बताया कि कोडरमा पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र से बबलू राय को गिरफ्तार कर कोडरमा साथ ले आनी है।

1.700 किलोग्राम अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार



खबर मन्त्र संवाददाता

चतरा। पुलिस ने चतरा-इटखोरी रोड से 1.700 किलोग्राम अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में राजू कुमार पिता चरण दांगी और रमेश प्रसाद वर्मा पिता ऋतुराज दांगी दोनों थाना गिद्धौर के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 1.700 किलोग्राम अवैध अफीम दो स्मार्ट फोन, एक आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने प्रेस विज्ञापित जारी कर बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति गिद्धौर से अवैध अफीम लेकर बेचने हेतु इटखोरी की ओर जा रहे हैं। इस संबंध में अनुमण्डल पुलिस

पदाधिकारी, चतरा के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा वरिष्ठ कार्रवाई करते हुए चतरा इटखोरी मार्ग में पेक्सा द्वार के पास विभिन्न वाहनों को चेकिंग किये जाने लगा इस क्रम में मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से पार कर भागने का प्रयास करने लगे। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से दोनो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जिसका तलाशी के क्रम में दोनो व्यक्तियों के पास से अपने कमर में छुपा कर रखा अवैध अफीम को पकड़ कर जप्त किया गया है। इस संबंध में सदर थाना काण्ड संख्या-209 / 23 दिनांक-22.07.2023, धारा-18/22/27/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

एक किलो सुखा अफीम पट्टा और 6.5 किलो गिला अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार



खबर मन्त्र संवाददाता

कुंदा (चतरा)। कुंदा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अफीम माफियाओं के विरोध कुंदा थाना पुलिस द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थ अफीम का पट्टा और गीलाअफीम बरामद किया है। जिसका वजन अफीम पट्टा एक किलो और गीला अफीम 6 किलो 400 ग्राम बरामद किया है। थाना प्रभारी कौशल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्ता सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंदा थाना क्षेत्र के आसेदिरी गांव से शुक्रवार को राकेश कुमार पिता बसंत यादव के घर से बरामद किया

गया जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी कौशल कुमार सिंह एवं शस्त्र बल शामिल थे। राकेश के निशानदेही पर कुंदा थाना पुलिस ने वशिष्ठ नगर जोरी के पोस्तिया टोला मनुवातरी के शिवदेव गंडू पिता सुकन गंडू को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि जैसे ही आसेदिरी कुंदा थाना पुलिस पहुंची तो अफीम माफिया भागने लगा जिसमें एक को दौड़ाकर पकड़ लिया और दो अन्य भागने में सफल रहे जिसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी कौशल कुमार ने बताया कि लगातार अफीम के व्यवसाय व व्यापारियों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है किसी भी सूत्र में नहीं बस से जाएंगे।

आदिवासी समाज ने किया मणिपुर घटना की घोर निंदा



खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता पावन माइकल कुजू एवं संचालन देवनीस एक्का ने किया। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ दरिद्री पर श्री कुजू ने कहा कि मणिपुर में आदिवासी माहिलाओं के साथ हुई दरिद्री समाज को उमाशंकर राम, रंजीत प्रसाद सहित दर्जनों लाभुक उपस्थित थे।

व्यवस्था एवं केंद्र की शासन की मिलीभगत से इस घटना को 40 दिनों तक गौण रखा गया एवं अत्याचारियों को बचाने का प्रयास किया गया। पीड़ित महिलाओं का सुध लेने वाला कोई नहीं। अभी वो दोनों महिला कहाँ हैं, किस अवस्था में है या उन दरिदो द्वारा मार दिया गया, इस बात को सोंचकर बहुत आहत हूँ। बैठक में जिला सचिव अनिल हांसदा, उपाध्यक्ष बेंजामिन एक्का, विपिन किशोर टोपो आदि शामिल थे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सतगावां (कोडरमा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन बीडीओ बैद्यनाथ उरांव ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आम जन अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी डालसा के शिविर में भाग लेकर करें। वहीं जिप सदस्य नीतू कुमारी ने शिविर को संबोधित करते हुए कही कि सुरक्षित पलायन के पूर्व अपना निबंधन श्रम विभाग से करा कर ही बाहर काम करने जायें। जिससे आप शोषण का शिकार होने से बच सकते हैं और सभी प्रकार के लाभ के हकदार हो सकते हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि धनजय यादव ने कहा कि डालसा से सभी प्रकार के कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर बिजय सिंह, ललित देवी, ब्यूटी कुमारी, रामोतार चौधरी, विनय शंकर, अनिता देवी आदि मौजूद थे।

एक दिवसीय आंतरिक विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन



मंवासीन कुलाधिपति व अन्य

खबर मन्त्र संवाददाता

गढ़वा। दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार कक्ष में एक दिवसीय आंतरिक विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बाबु दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिनेश प्रसाद सिंह, सुभाष सिंह, डॉ उमाशंकर मिश्र, डॉ पीडी तिवारी, डॉ अरविन्द तिवारी, डॉ मारिया जकारिया, डॉ दिव्या तिरु, डॉ नन्द किशोर प्रसाद आदि ने भगवान अच्युत राम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर व दीप

प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षुओं को ज्ञानार्जन कर शिक्षा जगत में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। प्राचार्या डॉ सुनीता गुप्ता ने प्रशिक्षुओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने बारी-बारी से अपने विषय से संबंधित पत्र को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने वाले प्रशिक्षुओं में रविशंकर महता, नीलम मेहता, विरेन्द्र कुमार, रजनीता, अभिजित कुमार, चंदन पाठक, निधि कुमारी आदि का नाम शामिल है।



रद्द कर दिया गया। सेरनदाग के ग्रामीणों ने वन अनापत्ति के विरोध में शनिवार को सुबह से ही अपने अपने घर के परिवारो ने चूल्हा बुझाकर सेरनदाग के बाजार टॉड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में समितिया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जीतन राम, भाजपा नेता उच्चल दास, महिला-पुरुष बुद्धिजीवी समाज सेवी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। धरना की अध्यक्षता उत्तरी जिप

सदस्य देवती देवी एवं संचालन मनोज साहू और ललित साहू ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर समिरिया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जीतन राम ने कहा कि सीसीएल या उसके अधीनस्थ कंपनियों का कोई चाल नहीं चलेगी। ग्रामीणों का मांग और उनकी हितों की रक्षा देखते हुए सीसीएल को काम करना होगा। यहां साईडिंग नहीं बनेगा और ना ही यहां रेलवे लाइन बिछाई जाएगी।

पीडीएस डीलर ने किया राशन का गबन, हंगामा

खबर मन्त्र संवाददाता

मझिआंव। प्रखंड क्षेत्र के खरसोता पंचायत के खरसोता गांव के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रामबचन राम पर लाभुकों ने दो माह का राशन गबन करने का आरोप लगाया है।



जानकारी देते लाभुक

इस संबंध में लाभुक धनवती देवी, कुंती देवी, आशा देवी, तारा देवी, कुंती देवी, कुसुम देवी, लीला देवी, देवती देवी, फुलवा देवी, मिता देवी, रिता देवी, शशिकांत शर्मा सहित लगभग तीन दर्जन लाभुकों ने बताया कि डीलर रामबचन राम पिछले मई एवं जून माह का हम गरीबों का राशन गबन कर कालाबाजारी कर दिया है। जिस कारण सभी लाभुक को मई एवं जून माह का राशन नहीं दे रहे हैं। साथ ही लाभुकों ने कहा कि डीलर बिजली नहीं रहने का बहाना बनाकर मई और जून माह का राशन का पर्ची निकाल कर सभी लाभुकों को दे दिया और बोला कि बाद में आकर राशन ले लेंगे। जब लाभुकों ने राशन लेने आया तो

उसने कहा कि पहले जुलाई माह का पंचिंग कराओ उसके बाद ही राशन दिया जाएगा। पूछने पर डीलर ने साफ तौर पर कहा की मई एवं जून का राशन सभी लाभुकों को दे दिया गया है। जबकि सभी लाभुक अपने अपने हाथों में मई एवं जून माह का 2-2 पर्ची दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं लाभुकों ने बताया कि डीलर के द्वारा बार-बार हम सभी लाभुकों को धमकी दिया जाता है कि ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो तुम लोग का राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार डीलर के यहां लगभग 142 लोगों को पिछले माह का राशन वितरण नहीं किया गया है। इस संबंध में पंचायत के

मुखिया प्रतिनिधि विजय राम ने कहा कि रामबचन डीलर निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। इसके पास जितने भी लाभुक हैं इसकी हरकत से सभी लोग परेशान हैं। लाभुकों द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही है। लाभुकों की शिकायत पर डीलर से पूछताछ किया जा रहा था तो डीलर ने लाभुकों का बात को झुठलाते हुए कहा कि किसी का कोई राशन बकाया नहीं है। इर इस संबंध में एमओ रामजी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विजय राम, भोला प्रसाद, वार्ड सदस्य उमाशंकर राम, रंजीत प्रसाद सहित दर्जनों लाभुक उपस्थित थे।

स्पीड न्यूज

मोहरर्म को लेकर महुआडांड में आज शांति समिति की बैठक
महुआडांड। मोहरर्म पर्व 2023 को लेकर शांति समिति की बैठक दिनांक रविवार को समय 11:30 बजे थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महुआडांड की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। थाना क्षेत्र के सभी सम्मानित एवं प्रबुद्ध जनों से अपील है की उक्त बैठक में जरूर आए और अपना बहुमूल्य सुझाव देने का कार्य करें।

मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मानव श्रृंखला बनायी गयी
महुआडांड। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले 80 दिनों सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद एवं राजनीतिक उदासीनता में जल रहा। पिछले दिनों मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई जिसमें दो महिलाओं को सामुहिक दुष्कर्म करने के बाद खुलेआम उपद्रवियों द्वारा नंगा कर अंगों के साथ खिलवाड़ करते हुए निवस्त्र घुमाया गया था। जिससे लेकर विभिन्न संगठन व जाति धर्म के लोगों द्वारा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मिशन मोड से लेकर बिरसा मुण्डा चौक, बोहटा चौक से महुआडांड डाल्टेनगंज रोड, चटकपूर हामी रोड में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

विश्व हिंदू परिषद बालूमाथ कमेटी का हुआ गठन
बालूमाथ। महावीर मंदिर बालूमाथ के प्राणण में विश्व हिंदू परिषद, बालूमाथ का एक बैठक रखी गई जिसका मुख्य उद्देश्य प्रखंड कमेटी को विस्तार करना तथा पंचायत कमेटी का गठन करना था इस बैठक में लातेहार जिला सह मंत्री विजय यादव, वीरेंद्र भैया मातृ शक्ति प्रमुख श्री मति रेनु देवी, विभाग सह मंत्री संजय तिवारी के रिन्धय में बालूमाथ प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया जिसमेंअध्यक्ष श्री लालदेव गंडू, उपाध्यक्ष श्री अखिलेश भोका, मंत्री देवेंद्रन प्रसाद, बजरंग दल सह संयोजक अनिल प्रजापति, राहुल सिंह, मातृ शक्ति प्रमुख श्री मति सुशीला देवी स्तसंगा प्रमुख राजेश रजक को बनाया गया है इस बैठक में अखाड़ा प्रमुख उपेंद्र कुमार, बादल कुमार, अंकित पांडे, अजीत ओझा, आशीष ओझा, कैलाश कुमार, रामविलास कुमार, उमेश कुमार, पिंटू कुमार, श्यामदेव यादव, सुरेश कुमार, बजरंगी भाई लोग उपस्थित रहे।

गुमशुदा पुत्र के सकुशल बरामदगी को लेकर पिता ने लगाई मदद की गुहार

चंदवा। थाना क्षेत्र के जमीरा पंचायत के दुबरी ग्राम निवासी अनूप तिकी पिता निकोदिन तिकी दिगत 13 जुलाई 23 को विजयवाड़ा जंक्शन से रांची के लिए चले थे। बताया जाता है कि 10:00 बजे रात्रि वे रांची जंक्शन पर उतरें थे उसके बाद से वे लापता हैं। उनके पिता निकोदिन तिकी ने बुटिया थाने में उक्त मामले का सनहा दर्ज कराते हुए प्रशासन से उन्हें खोजने में मदद की गुहार लगाई है। उक्त आवेदन की कॉपी चंदवा थाने को भी दी गई है। आवेदन में कहा गया है कि अनूप तिकी के पास मोबाइल था जिसका नंबर 620083 4094 है, अनूप तिकी के पिता का मोबाइल नंबर 9113 411022 मोबाइल नंबर 825242 83066 पर फोन आया कि आपका पुत्र अनूप तिकी मेरे पास है घरबाने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी बोला कि वह मेरा दोस्त है साथ ही उसने कहा कि आज के बाद मेरे पास किसी तरह का फोन नहीं कीजिएगा नहीं तो ठीक नहीं होगा। उस फोन के बाद फिर न फोन आया और न मेरा बेटा ही अभी तक बहुत खोजबीन किए हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लापता युवक की लंबाई 5 फीट सफेद रंग का टीशर्ट एवं नारंगी रंग का शर्ट पहने हुए हैं। आवेदक ने प्रशासन से पुलिस से पुत्र को खोजने में मदद की गुहार लगाई है।

झामुमो नेताओं ने की मणिपुर घटना की निंदा

चंदवा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मणिपुर घटना की निंदा की है। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सह प्रखंड वीस सुत्री अध्यक्ष सुरेश गंडू ने कहा कि भाजपा शासित प्रदेश मणिपुर में बीते ढाई माह से हिंसा जारी है। मणिपुर में बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा में अबतक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है लाखों परिवार बेधर हो गए हैं वे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बीते दिनों मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना से देश शर्मशार हुआ है। वहीं झामुमो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत उराव ने कहा कि मणिपुर में इतने दिनों से जारी हिंसा रोक बने में केंद्र व राज्य सरकार विफल रही है। सरकार को झुझारों पर ही वहां निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है बहु बेटियों की इज्जत लुटी जा रही और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार तमाशबीन बनी हुई है। नेताओं ने मणिपुर में शांति बहाल करने के साथ मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। निंदा व्यक्त करने वालों में झामुमो जिला उपाध्यक्ष शितामोहन मुंडा, जिला संगठन सचिव सुमन सुनील सोरेन, प्रखंड उपाध्यक्ष मो सरफराज, प्रखंड सचिव मो इजहार, रामधन गंडू, रामपाल उराव, सुरेंद्र उराव, रवींद्र गंडू व अन्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सारथी योजना का विधिवत ऑनलाइन शुभारंभ

लातेहार। लातेहार जिला अंतर्गत गारु प्रखंड के उत्कर्मित प्लस टू उच्च विद्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा योजना का विधिवत उदघाटन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ऑनलाइन किया इस मौके हेमन्त सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और युवाओं को मुख्यमंत्री सारथी योजना से जुड़ने का आवाहन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सारथी योजना द्वारा संचालित कौशल केंद्र गारु में श्रम अधीक्षक सह जिला कौशल पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी उत्कर्मित +2 उच्च विद्यालय गारु के प्राचार्य धर्मेन्द्र उपाध्याय एवम श्रम विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सीम कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे।

वन क्षेत्र को उजाड़ कर खेती करने वाले 13 लोगों पर मामला दर्ज

खबर मन्त्र संवाददाता
बारियातू। थाना क्षेत्र के विश्रामपुर व बारा ग्राम में वन क्षेत्र को उजाड़कर अवैध तरीके से खेती करने वाले 13 लोगों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वन विभाग के प्रभारी फॉरेस्टर विजय शंकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की शिबला पंचायत अंतर्गत विश्रामपुर ग्राम में वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए लवकुश सिंह, विनय उरांव, लुरक लोहरा सहित 13 अतिक्रमणकारियों पर



उजाड़ गया जंगल।



जानकारी देते फोरेस्टर

मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं कई ग्रामीणों को समझाया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह का वन अपराध ना करें अन्यथा नियम संगत कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान समय में वन संपदा की रक्षा ही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, जिससे ग्रामीण वासियों के पशुओं के लिए चरागाह की उचित व्यवस्था एवं ग्रामीणों को वनोपज का उचित लाभ मिल सके। इधर भाटचतरा, बारा डहर, चैनपुर वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले को हिदायत देते हुए दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बताया है की यदि वन क्षेत्र में जंगल उजाड़ कर खेती करते पकड़े गए तो वन अधिनियम के तहत शख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रकृतिक को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी ग्रामीण विभाग को सहयोग करें. प्रकृतिक के बिना मानव जीवन को जीना मुश्किल है इसलिए आप सभी जंगल उजाड़ने छोड़कर भविष्य के लिए घर-घर पेड़ अवश्य लगाएं।

भुषाढ़ के कोलजरी जंगल में पेंड से लटका मिला युवक का शव

मृतक के शरीर के कई हिस्सों में गहरे जख्म के निशान

हत्या के बाद शव को बेल्ट से लटकाए जाने की आशंका

खबर मन्त्र संवाददाता


चंदवा। थाना क्षेत्र अंतर्गत कामता पंचायत भुषाढ़ के कोलजरी जंगल में शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने सखुआ के पेड़ पर लटका हुआ एक अज्ञात युवक का शव देखा। पेड़ पर शव लटके होने की सूचना गांव में फैलने के बाद सनसनी फैल गयी। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद पुनि सह थाना प्रभारी बबलू कुमार की अगुवाई में चंदवा पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची व बेल्ट के सहारे पेड़ से लटक रहे शव को नीचे उतारा। जांच के क्रम में मृतक के जांघ, आंख, सीने में चोट के कई निशान पाया गया, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या के बाद शव को बेल्ट के सहारे पेड़ पर लटकाया गया



घटना स्थल का जायजा लेते पुनि सह थानेदार

है। पुलिस ने घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक काला रंग का एक पेट बरामद किया है। जिसमें क्रूस माला, 20 जुलाई की डेट में हटिया से फगवाड़ा जाने का दो ट्रेन टिकट व एक छोटी पर्ची जिसमें एक मोबाइल नम्बर अंकित मिला है। जिसे पुलिस अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक मृतक कौन है, वह वहां कैसे पहुंचा इसका पता नहीं चल पाया था। मामले में पुनि सह थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की हत्या पीटकर किये जाने व हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाए जाने का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा।

बरसात के बीच खुशनुमा हुआ नेतरहाट का मौसम, छाये बादल



नेतरहाट में कुहसा छाया रहा

खबर मन्त्र संवाददाता
महुआडांड। रविवार को नेतरहाट में दोपहर बाद नेतरहाटऔर महुआडांड में कोहरा छये थे। आसमान में बादलों का उमड़ घुमड़ जारी है। सवेर हवा चलने लगी और ठंड बढ़ गई है। बादल छाप रहने से नेतरहाट घूमने आये पर्यटक नैनाभिराम सूर्यास्त-सूर्योदय का नजारा नहीं देख पाये। स्थानीय ग्रामीणों कहना है, कि मौसम खुलने के बाद नेतरहाट का मौसम और खुशनुमा हो जाएगा।

बरवाडीह के गढ़वाटांड में ताजिया बनाने की तैयारियां जोरों पर मोहरर्म पर्व इमाम हुसैन के शहादत का प्रतीक है : डॉक्टर खान

खबर मन्त्र संवाददाता

बरवाडीह। बरवाडीह में मोहरर्म की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और विशेष कारीगरों के द्वारा आकर्षक ताजिए तैयार किए जा रहे हैं। प्रखण्ड मुख्यालय के अलग-अलग स्थानों में इस समय ताजिया बनाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। मुख्यालय के गढ़वाटांड स्थित ताजिया चौक पर डालटनगंज के कारीगर अब्दुल सफूद के द्वारा ताजिया बनाया जा रहा है। गढ़वाटांड में इस बार कारीगरों के द्वारा बेहतरीन नक्शे के आकार का ताजिया बनाया जा रहा है। जिसे रंग बिरंगी पतंगियों के अलावा थमाकौल, रूई व अन्य चीजों से सजाकर तैयार किया जा रहा है। कारीगर अब्दुल ने बताया कि बीते 10 दिनों से उनके द्वारा यह ताजिया तैयार किया जा



गढ़वाटांड में ताजिया बनाने में जुटे कारीगर
रहा है, जो कि आधा बन चुका है। जो हिस्सा बाकी है वह भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ताजिया सजाने में उनके साथ मोहल्ले के लोग और बच्चे भी हाथ बंटा रहे हैं। मोहरर्म कमेटी के खजाना चौकी आमिर खान उर्फ डॉक्टर ने बताया कि मोहरर्म की 9 और 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। यह पर्व हुसैन को शहादत के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है। मौके पर कमेटी के सदर इस्तियाक अंसारी, नाएफ सदर सरफराज सिद्दीकी, कलीम हवारी, सैफ हाशमी, राजा हवारी, पेनुल हक, नसीम हवारी, शमशेर आलम और औरंगजेब खान सहित समिति के अन्य लोग उपस्थित थे।

केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर भाजयुमो की बाइक रैली आज केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का किया गया आह्वान

खबर मन्त्र संवाददाता

बरवाडीह। भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशुतोष सिंह चेतो और नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में युवा मोर्चा के तत्वाधान में केंद्र की भाजपा सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर बाइक रैली के माध्यम से आज रविवार को महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। रैली के सफल आयोजन को लेकर बरवाडीह के विजयनगर स्थित कस्तूरबा भवन के प्राणण में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशुतोष सिंह चेतो ने बताया कि



बैठक में उपस्थित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रैली की शुरुआत पुराने ब्लॉक परिसर से होगी। बरवाडीह के विभिन्न चौक-चौराहों से होते हुए कुटूम चौक तक रैली निकाली जाएगी। वहीं नीरज सिंह ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तय समय में संगठन की ओर से निर्धारित किए गए कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी की जानी आवश्यक है। कार्यकर्ताओं से रविवार की सुबह नौ बजे पुराने ब्लॉक परिसर में उपस्थित होने की अपील की। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि कन्हाई प्रसाद, किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव, मंडल महामंत्री प्रदीप सिंह, उपाध्यक्ष सुनील सिंह, मनोज प्रसाद, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष विकास सिंह, महामंत्री हेमन्त कश्यप और आनंद कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बीडीओ ने चेतार पंचायत में विकास योजनाओं का लिया जायजा



आंगनवाड़ी केन्द्र का जायजा लेते बीडीओ

खबर मन्त्र संवाददाता

चंदवा। बीडीओ सह सीओ विजय कुमार शुक्रवार को प्रखण्ड के चेतार पंचायत का दौरा कर पंचायत में संचालित विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा द्वारा संचालित टीसीबी आदि योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। विकास योजनाओं के निरीक्षण के पश्चात में पंचायत के सुकलकट्टा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के क्रम

सुकलकट्टा आंगनवाड़ी केंद्र में गायब मिली सेविका व बच्चे, जतायी नाराजगी

में केंद्र में सेविका व बच्चे नदारद नजर आए, जिसे देखकर बीडीओ सह सीओ विजय कुमार विभ्रण गए व मौजूद सहयिका को जमकर फटकार लगाई। कहा कि इस प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दूसरी बार ऐसी शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीससूत्री की बैठक में कई बिन्दुओ पर हुई चर्चा

खबर मन्त्र संवाददाता

बारियातू। प्रखंड कार्यालय सभागार में विससूत्री समिति की बैठक विससूत्री अध्यक्ष राजेंद्र गंडू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी प्रतिमा कुमारी राज्य सभा सांसद प्रतिनिधि सह विससूत्री सदस्य रिगन कुमार ने इस बैठक में प्रखंड के महत्वपूर्ण कई बिन्दुओ पर चर्चा की। जहां पशुधन योजना अंतर्गत बांटा गया सभी बकरी पर गए जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का सहमति बनी। बारियातू प्रखण्ड मुख्यालय स्थित परियोजना प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापिका द्वारा इस सत्र में बच्चों को नांमाकन

संचालित फुलो ज्ञानो योजना का लाभ उठाकर अपना उत्थान करने का आह्वान किया गया। उपस्थित सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर रूप से योगदान देने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों को स्पष्टीकरण मांग की गई। बैठक में बीपीओ रवि कुमार प्रखण्ड समन्वयक पंकज पांडेय, अरविन्द पाण्डेय, जेएसएलपीएस बीपीएम सुनील कुमार एटीएम समीम अंसारी, सीआई अनिल होरो, राजश्वक्रमचारी नंददेव राम, संदीप कुमार, राजी राम, विससूत्री समिति सदस्य, पंचायत सेवक रोजगार सेवकसहित अन्य प्रखंड कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक में मौजूद लोग

में परेशान किया जा रहा है उन्हें अपने कार्य-प्रणाली में सुधार का निर्देश दिया गया अन्यथा विभाग में विधायक से बात कर तबादला करवाने की नशीहत दी गई।

पलायन को रोकने के लिए मनरेगा

योजना अंतर्गत इच्छुक लायुकों का चयन कर पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कही गई। महिलाओं के लिए जेएसएलपीएस के तहत

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर प्रखंड स्तरीय कमेटी की हुई बैठक

खबर मन्त्र संवाददाता

बरवाडीह। शनिवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर प्रखंड स्तरीय चयन समिति की बैठक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सुशीला देवी, जिप सदस्य संतोषी शेखर, पशुपालन पदाधिकारी डॉ.प्रमोद कुमार और विधायक प्रतिनिधि प्रेम सिंह पिंटू मौजूद रहे। जबकि प्रखंड स्तरीय कमेटी के सदस्य और कल्याण पदाधिकारी नदारद रहे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत बकरा विकास योजना, सुकर विकास योजना, कुक्कुट पालन, बॉयलर कुक्कुट पालन और बरतख पालन योजना के तहत लायुकों का चयन ग्रामसभा के माध्यम से कराने की बात कही गई। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत



बैठक करते बीडीओ व अन्य

चयनित गांव से लायुकों का चयन करके उन्हें अनुदान के माध्यम से योजना का लाभ देने का काम किया जाएगा। वहीं इसके साथ लायुकों को बेहतर पालन करने को लेकर शोड भी उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत विधवा महिला को विशेष प्राथमिकता देने के साथ-साथ एसटी-एससी महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। जिन्हें ग्रामसभा के माध्यम से चयनित करने के बाद प्रखंड स्तरीय कमेटी के द्वारा चयन करने की प्रक्रिया की जाएगी।

बालूमाथ थाना परिसर में मुहरर्म पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

बालूमाथ

बालूमाथ थाना परिसर में शनिवार को मुहरर्म पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार ने कहा कि बालूमाथ में हर त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाता आया है। आप लोगों से अपेक्षा है कि यह त्यौहार भी शांतिपूर्ण मनेगा इसमें आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे परस्पर सौहार्द अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि लातेहार एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस के द्वारा एकता एक निशान सबका करें सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो आपसी एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए है। वहीं बालूमाथ अंचलाधिकारी आफताब आलम ने कहा कि सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का पालन करते हुए आप सभी त्यौहार मनाएं इसमें प्रशासन आपका सहयोग करेगा सक्रिय इस्पेक्टर शशिरंजन कुमार ने कहा मुहरर्म आपसी भाईचारे के साथ शांति का पैगाम देने वाला पर्व है। आपलोग इस पर्व को शांतिपूर्वक आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। वहीं बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने कहा की मुहरर्म पर्व के मौके पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करें। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है।





बीडीसी ने किया छात्राओं के बीच प्रमाणपत्र का वितरण
भवनाथपुर। पंचायत समिति सदस्य चन्दन कुमार टाकुर ने भवनाथपुर बाजार में संचालित मुस्कान सिलाई सेंटर में सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया। मौके पर चन्दन कुमार टाकुर ने कहा कि मुस्कान सिलाई सेंटर के द्वारा गरीब छात्राओं को प्रशिक्षण देने का जो पुनीत कार्य किया जाता है, बहुत ही सराहनीय है। इस प्रशिक्षण से छात्राएं आगे बढ़ रोजगार करें यही कामना है।

मुहर्रम का चांद दिखा, तैयारी शुरू
कोडरमा। मुसलमानों का इस्लामिक नया साल मोहर्रम का चांद बीते बुधवार की देर शाम को देखा गया। चांद दिखते ही जिले के विभिन्न प्रखंडों व नगरों डोमचांच, जयनगर, मरकटचौ, झुमरीतिलैया, कोडरमा के विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों में खुशी का माहौल छा गया। चांद दिखते ही या हुईन या अली या हसन के नारे शुरू हो गए। वहीं सभी गली मोहल्लों में डोलक लाटी-डंडे खेलना भी शुरू हो गया।

सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन
डोमचांच (कोडरमा)। सीएम हाई स्कूल मैदान में शनिवार को सुब्रतो कप प्रखंड स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता का उद्घाटन डोमचांच प्रखंड प्रमुख एवं बीडीओ उदय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व किक मारकर किया। खेल प्रतियोगिता में डोमचांच प्रखंड के विभिन्न स्कूलों से अंडर-17 के बालक एवं बालिका तथा अंडर 14 के बालक वर्ग ने भाग लिया।

मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन

दुमका। एसपी कॉलेज के वाणिज्य संकाय में छात्रहित में मतदाता जागरूकता अभियान शनिवार को चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विभागाध्यक्ष डॉ एसके अम्बर ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कॉलेज प्राचार्य डॉ के पी यादव उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में डॉ राजेन्द्र पांडेय, पूर्व विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, डॉ कुमार सौरभ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डॉ सत्यम कुमार, इतिहास विभाग उपस्थित थे।

मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक

मरकटचौ (कोडरमा)। थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन 20 सूत्री अध्यक्ष रविशंकर सिंह रिकू ने किया। बैठक में मुहर्रम को लेकर लोगों से अपील की गई। बैठक में दोनों समुदाय के बुद्धिजीवियों ने मुहर्रम का त्योहार शांति पूर्ण माहौल में सौहार्द के साथ मनाने की बात कही गयी।

पशुधन लदा दो ट्रक को किया जप्त

रानेश्वर। दुमका सिडडी मुख्य पथ के महेशखाला चेकपोस्ट पर रानेश्वर थाना के तैनात पुलिस कर्मी ने पशुधन लदा दो ट्रक को जप्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रक एवं पशुधन को थाना परिसर में रखा गया है। दोनों ट्रक में 70 से 75 पशुधन लदा हुआ था। दो पशु का मौत भी चुका है। ट्रक में पशुधन को लादकर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने व्यापारी दुर्बल यादव चालक पंकज शर्मा को फिरपतार किया है।

तीन दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन

दुमका। तीन दिवसीय ईस्ट जोन सलेक्शन ट्रायल बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन सिदो कान्हू इंडोर स्टेडियम में सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री बादल को टूर्नामेंट के संयोजक सह डीआईजी, सताल परगना प्रमंडल सुदर्शन मंडल ने स्मृति चिह्न एवं टी-शर्ट भेंट कर सम्मानित किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों से दुमका पहुंचे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसी जिले में दुमका की तरह बैडमिंटन का टूर्नामेंट नहीं होता है।

गरीबों का जमीन किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा: बाम मोर्चा



खबर मन्त्र संवाददाता

सिमरिया। संयुक्त वाम मोर्चा की एक बैठक शनिवार को प्रखण्ड के एदला मानो महवा में हुई। बैठक की अध्यक्षता महावीर रजक ने की। बैठक में सालों से जोत कोड़ कर रहे जमीन को कुछ खास लोग अपना बता कर उस पर हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका विरोध किया गया।

बैठक में कहा गया कि कम्युनिस्ट एकजुट होकर जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम हमेशा किया है। माले नेता कामरेड वीएन सिंह ने कहा कि जब तक आप सांगठनिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपकी समस्या समाप्त नहीं होगी। संयुक्त वाम मोर्चा के जिला संयोजक अर्जुन कुमार ने कहा कि आम जन जिस जमीन को सालों से जोत कोड़ कर

रहे है, उसे किसी भी कीमत में किसान के हाथ से जाने नहीं दिया जायेगा। सरकार के नजर में जो गैर मजरूवा जमीन उन लोगों को सौंपे जो उसमें बरसों से जोत कोड़ कर रहे हैं।

सिमरिया अंचल मंत्री गयानाथ पाण्डेय ने कहा कि एदला में जो जमीन कि लडाई है, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी हर स्तर तक लडाई लेने को तैयार है। बैठक में कॉमरेड वीएन सिंह, कॉमरेड कविता देवी, संयुक्त वाम मोर्चा चतरा जिला संयोजक कॉमरेड अर्जुन कुमार, सीपीआई माले जिला सचिव कॉमरेड वयुम अंसारी, सीपीआई अंचल मंत्री कॉमरेड गयानाथ पाण्डेय, सीपीआई जिला प्रवक्ता दशरथ टाकुर, कॉमरेड शशि कुमार, कॉमरेड बिजय भारती, कॉमरेड बासुदेव तुरी सहित दो सौ लोग उपस्थित थे।

आम बागवानी योजना में मजदूर की बजाय जेसीबी मशीन का हो रहा है उपयोग



खबर मन्त्र संवाददाता

पथलगड़ा (चतरा)। प्रखंड अंतर्गत बरवाडी पंचायत के ग्राम कुब्बा में मन्रेगा से संचालित योजनाओं में मजदूर की बजाय जेसीबी मशीन से काम किया जा रहा है। बरवाडीह पंचायत के कुब्बा में लाभुक भाति देवी व एक अन्य लाभुकों के खेत में मन्रेगा के तहत संचालित आम बागवानी योजना में मजदूर की बजाय जेसीबी मशीन का उपयोग किया वहीं स्थल पर पहुंच कर बीस सूत्री अध्यक्ष विकास कुमार यादव ने प्रखण्ड

प्रशासन व मन्रेगा कर्मी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा प्रखण्ड प्रशासन व विचौलियों की मिली भगत से हो रहा है मन्रेगा के अवैध काम। जिसके कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है।

स्थल पर पौधरोपण के लिए जेसीबी मशीन से गढ़ा खोदा जा रहा है। चार लाख 17 हजार की लागत वाली योजना है। योजना के तहत उक्त कार्य मजदूरों से कराया जाना है, लेकिन जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया है। योजना में मशीन से काम कराने से मन्रेगा मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा

लोकसभा चुनाव आज हो तो बिहार में कितनी सीटों पर टक जाएगा महागठबंधन

टीएनएन सर्वे में हुआ खुलासा

खबर मन्त्र संवाददाता

पटना। लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का समय है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले हलचल काफी तेज है। नीतीश कुमार की विपक्षी मुहिम को लेकर पूरे देश की नजर बिहार की ओर है। संवाददाता ने बताया सर्वे के परिणाम में एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें

मिलेगी। इसका खुलासा हुआ है। इसमें एनडीए को बढ़त मिलता दिख रहा है।

केंद्र की राजनीति को लेकर इस बार बिहार काफी सुर्खियों में है। इस सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मत की जानकारी मिली है। लोगों ने 22 से 24 सीटों पर एनडीए की जीत की संभावना जताई है। 16 से 18 सीटों पर महागठबंधन की जीत की संभावना लोगों ने जताई है। नीतीश कुमार की ही मुहिम से 18 जुलाई को

बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक हुई। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करने में लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं। वहीं, विपक्षी बैठक को देखते हुए एनडीए के घटक दलों की भी बैठक हुई। विपक्षी एकजुटता से एनडीए की परेशानी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इससे इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति खास होने वाली है।

एसकेएमयू की चार वर्षीय यूजी नामांकन की पहली मैरिट लिस्ट जारी

खबर मन्त्र संवाददाता

दुमका। सिदो कान्हू मुर्मु विश्वविद्यालय के कुल 35 अंभीभूत, मॉडल और सम्बद्ध कॉलेजों में चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम में नामांकन के लिए अब तक लगभग 50 हजार छात्र-छात्राओं ने चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रवक्ता दीपक कुमार दास ने देते हुए बताया कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

7 जुलाई से चांसलर पोर्टल के शुरू हुई थी। जिसका अंतिम तिथि पूर्व में 20 जुलाई तक रखा गया था। जिसको विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विमल प्रसाद सिंह ने छात्रों को हो रही तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 22 जुलाई तक विस्तारित किया था। प्रकाश पहली मैरिट लिस्ट 23 से 24 जुलाई तक में नामांकन के लिए पहली मैरिट लिस्ट प्रकाशित होगा। उसके बाद कॉलेज स्तर पर वैसे छात्र-छात्राएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके

नामांकन ले सकते हैं जिनका नाम पहला मैरिट लिस्ट में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन का छायाप्रति जमा करना होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नई शिक्षा निति का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह एक वर्चुअल स्टोर-हाउस जैसा है। यह बैंकों की तर्ज पर कार्य करेगी। जिस प्रकार एक बैंक में खता खोलकर व्यक्ति अपनी कमाई को जमा करता है।

कई ठिकानों पर खेला जा रहा जुआ, प्रशासन मौन



जुआ खेलते लोग

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। थाना क्षेत्र अंतर्गत कई ठिकानों पर रोजाना लाखों रुपये का जुआ का खेल चल रहा है। लेकिन प्रशासन इन पर कार्रवाई के बजाए अनभिज्ञ बनी हुई है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के मुसकैनी पहाड़ी स्थित श्मशान घाट स्थित चौपाल में, अधोरा के नवही और चेपली पहाड़ी पर दोपहर के बाद जुआरियों की बिसात बिछ रही है। जिसमें स्थानीय जुआरियों के अलावे बाहर से 25-30 जुआरी जुआ खेलने पहुंचते हैं। जुआ अंड्रे पर नास्ता, ठंडा पानी और चाय की व्यवस्था के लिए अलग से आदमी

रहते हैं। जिसका खर्च जुआ के लिए चल रहे बोर्ड से ही सार्वजनिक तौर पर पैसे की उठाव किया जाता है। इतना ही नहीं जुआ अंड्रे पर कोई आये नहीं इसके लिए भी वोलेंटियर रखे गए हैं, जो पहरा देने का काम करते हैं। जुआ अंड्रे पर बराबर मारपीट की संभावनाएं बनी रहती है।

कई बार जुआ के अंड्रे पर जुआरी हिस्सेदारी को लेकर आपस में भी भीड़ चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन इसपर अंकुश नहीं लगा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक ज्ञापन देंगे : वर्मा

खबर मन्त्र संवाददाता

जयनगर (कोडरमा)। झामुमो नेता सह गंडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा गडगी पहुंच कर रेल घेराबंदी से ग्रामीणों को हो रही समस्या से अवगत हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने जयप्रकाश वर्मा जिंदावाद रेलवे को रास्ता देना होगा

आदि नारे लगाए। वहीं श्री वर्मा को ग्रामीणों ने अपनी समस्या से अवगत कराया। इस पर उन्होंने कहा कि रेलवे को ग्रामीणों को रास्ता देना ही होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जरूरत पड़ी तो

धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। मौके पर अशोक सिंह, इस्लाम अंसारी, दिवाकर तिवारी, खलील अंसारी, अनिल राय, सुजीत यादव, सुदामा दास, गोविंद प्रसाद बिहारी, अरविंद राणा, राज कुमार सिंह, सागर दास, रामदेव पासवान, श्रीकांत यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

शिक्षा की पहल कार्यक्रम का शुभारंभ, 1.25 लाख बच्चों को दिया जायेगा अक्षर ज्ञान

खबर मन्त्र संवाददाता

चतरा। प्रखंड मुख्यालय स्थित राज्य संपोषित बालक उच्च विद्यालय के सभागार में पिरामल फाउंडेशन व केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा की पहल कार्यक्रम का शुभारंभ जपि उपाध्यक्ष विरजू तिवारी, डीईओ दिनेश कुमार मिश्रा व गंधर्विया मुखिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन कर रही दीपांशी निगम ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम के उद्देश्यों और इसके अनुभवों को साझा किया और शिक्षा की पहलर कार्यक्रम को सराहा। कार्यक्रम प्रबंधक गरिमा ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य 1-5 वर्ष के बच्चों में एफएलएन (साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान) को बढ़ाने के साथ साथ अल्पसंख्यक बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना, वर्ष दर वर्ष प्राथमिक से माध्यमिक एवं



माध्यमिक से सेकेंडरी में प्रवेश दर को बढ़ाना। इसके तहत जिले में 100 मास्टर कोच तैयार किए जायेंगे जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 125000 बच्चों के ज्ञान एवं साक्षरता को सुदृढ़ किया जायेगा। बाला, पुस्तकालय, बाल संसद, मॉनिंग असेंबली, विद्यालय प्रबंधन समिति आदि बहुत सारे तथ्यों को मजबूत करते हुए शिक्षा की इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन की प्रतिनिधि अमृता प्रजापति ने कार्यक्रम का पूरा परिचय दिया। तत्पश्चात संस्था जिला प्रतिनिधि अमित भारती ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षकों, बीपीओ, बीआरपी

आदि को और बेहतर तरीके से कार्य करने के बारे में बताया। इस कार्यक्रम से किस प्रकार बच्चों की शिक्षा में बढ़ोतरी होगी इसके बारे में भी जानकारी देते हुए छोटे छोटे तथ्यों को विस्तार से बताया। इस मौके पर संतोष कुमार, रविंद्र कुमार सिंह, ईश्वर कुमार, राजेश कुमार, मीना कुमारी, दीपक कुमार, रंजन कुमार, संदीप कुमार, महेंद्र प्रसाद, राहुल कुमार , अमित भारती, अमृता प्रजापति, दीपांशी निगम, नेहा टाकुर, अमीषा झा, शावेज अनवर, निरंजन, ऋषभ कुमार, चारु, आदित्य राज, अमित शिवशंकर, राकेश पांडे, प्रदीप कुमार, अभयंकर आदि लोग मौजूद थे।

एक नजर में

भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट, आठ घायल

भवनाथपुर। थाना क्षेत्र के चपरी पंचायत के टिकर टोला में शनिवार को भूमि विवाद को लेकर हुए दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में दो पक्षों से आठ लोग घायल हो गए। घायलों में प्रथम पक्ष से ओमप्रकाश गुप्ता, परसु साह, विष्णुश्री साह, दिग्विजय साह, वीरेंद्र कुमार साह तथा दूसरे पक्ष से प्रकाश कुमार गुप्ता, बलराम कुमार साह और छोदु कुमार का नाम शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सक ने सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस संबंध में चपरी के टिकर टोला निवासी प्रथम पक्ष के ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि हम लोग अपने जमीन में चहारदीवारी दे रहे थे कि चपरी निवासी कृष्णा गुप्ता, नीरज गुप्ता, रवि कुमार गुप्ता, बालेश्वर साह सहित अन्य लोग आवर लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। जबकि दूसरे पक्ष के कृष्णा गुप्ता ने बताया कि जमीन पर 144 धारा लागू होने तथा पुलिस प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद भी जमीन पर अवैध तरीके से चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे मना करने के लिए हमलोग गये थे कि लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से घटना की सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई है।

बागवानी सखी को दिया गया प्रशिक्षण

खबर मन्त्र संवाददाता

भवनाथपुर। प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी सखी को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा, बीडीओ दयानन्द प्रजापति, भवनाथपुर मुखिया बेबी देवी, बीडीसी चंदन टाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस योजना तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी के क्रिया-न्वयन देख रहे करने के संवां में प्रशिक्षण दिया गया। यह

योजना ढाई एकड़ में एक बागवानी सखी को नियोजित करना है। प्रशिक्षण मन्रेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी दयानन्द प्रजापति के द्वारा दिया गया। इस दौरान बागवानी सखी को बागवानी सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारीयां दी गई। इस कार्य के लिए मन्रेगा मजदूरों को दिए जाने वाले एक दिन का समतुल्य मजदूरी बागवानी सखी को भी भुगतान करने का प्रावधान है। बागवानी सखी जेएसपीएलएस अंतर्गत महिलाओं को बनाया गया है। मौके पर पंचायत सेवक प्रवीण कुमार, प्रिया कुमारी थे।

पेज 1 का शेव

नये दौर में हुनरमंद होना...

कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता : इस अवसर पर सीएम ने कहा कि झारखंड के लोग शमांतें ज्यादा हैं। काम करने के लिए शर्माएंगे तो भूखे मर जायेंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम भगवान होता है इसलिए काम से शर्माना नहीं चाहिए। आपके हाथ में हुनर है तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने की शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के साथ-साथ हुनरमंद होना मास्टर डिग्री से कम नहीं है। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महूआ माजी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा, श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के मिशन डायरेक्टर सुनील कुमार, श्रम विभाग के अपर सचिव अमित प्रकाश और श्री पवन कुमार मौजूद थे।

नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम की परीक्षा...

यानी झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों भी आवेदन दे सकते हैं। दरअसल, प्रार्थी ने झारखंड के स्थानीय निवासी को आवेदन देने को चुनौती दी थी। बता दें कि कुलक्षेत्र, चंद्र कुमार सुप्रभा कुमारी पुष्पा कुमारी विनय कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई।

यूपीए काल में घाटे-घोटाले...

देशभर में रोजगार मेला : शनिवार को देशभर में 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। पीएम ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे प्रयासों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। उन्होंने कहा,जब देश विकास के पथ पर काम कर रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सरकार की कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना एक बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा हालांकि बैंकिंग क्षेत्र में नियुक्ति पत्र अधिक बांटे जाते हैं, लिहाजा युवा कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है। एनडीए ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया : पीएम ने कहा , 2014 में सरकार ने देश में सरकारी बैंकों के प्रबंधन को मजबूत किया और दिवालियापन सहिता कानून बनाया, ताकि अगर कोई बैंक बंद हो जाए तो उसे कम से कम नुकसान की संभावना हो। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि यह मेला आगे रोजगार सृजन के लिए उत्तरेक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने बैंक प्रबंधन को मजबूत करने, छोटे बैंकों का विलय करने और इस क्षेत्र की मदद के लिए पेशेवर माहौल बनाने सहित कई कदम उठाये हैं।

आप ही आशा की अंतिम किरण...

आदिवासी महिलाओं की यातना को लेकर वायरल वीडियो से देश में काफी आक्रोश है। हम सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। आप ही अब कोई रास्ता दिखायें : राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में सीएम ने का, मैं आज आपसे आगे का रास्ता खोजने, न्याय सुनिश्चित करने और मणिपुर की शांति और सद्भाव कायम करने लिए कदम उठाने की अपील करता हूं। हम अपने साथी आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ इस तरह का भयावह बर्बर व्यवहार नहीं कर सकते और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मणिपुर को ठीक होना चाहिए और एक राष्ट्र के रूप में हमें मदद करनी चाहिए। संविधान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन और सम्मान के आंतरिक सिद्धांत पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। एक समाज को कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए, जहां लोगों को उस तरह की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े जैसा हमने मणिपुर में देखा है। राज्य सरकार अपने ही लोगों की रक्षा करने और हिंसा और अशांति को कम करने में विफल रही है। हजारों विस्थापित हो गये हैं : मणिपुर दो महीने से ज्यादा समय से जल रहा है। मणिपुर में बच्चों सहित 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गये हैं और अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। हर दिन और रात, हम नवीनतम के साथ दिल दहला देने वाले दृश्यों से रूबरू होते हैं। महिलाओं को नग्न घुमाने और सार्वजनिक रूप से बलात्कार करने का वीडियो सामने आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का शासन पूरी तरह से टूट गया है और यह बेहद दुखद है कि कुछ निहित स्वार्थों को नग्न समर्थन के साथ, यह जातीय हिंसा बेरोकटोक जारी है। शांति बहाली सामाजिक जिम्मेदारी : अपने पत्र में श्री सोरेन ने कहा कि हमारे देश की ताकत विविधता के बीच एकता में निहित है, और ऐसी शत्रुता के बीच शांति बहाल करने और शांति के माहौल को बहाव देने के लिए मिलकर काम करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मणिपुर की शांति न केवल राज्य और उसके लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। जनजाति बहुल राज्य मणिपुर अपने जीवंत संस्कृति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए जाना जाता है। मणिपुर में कई ऐसे खिलाड़ी दिये हैं, जिसने देश का नाम रौशन किया है। इनमें कुंजुरानी देवी, थोइबा सिंह, रेनेडी सिंह, डिङ्को सिंह, मोराबाई चानू, सरिता देवी और मैरी क्लॉक को कौन भूल सकता है।



शिमला के जगोटी में बादल फटा, तीन बहे



शिमला। हिमाचल प्रदेश में बरसात का सितम जारी है। ताजा आपदा रात को शिमला जिले के रोहडू उपमंडल की चिडगांव तहसील में आई है। चिडगांव की उपतहसील जागला डिसवाणी पंचायत के जगोटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एक भोजनालय ढह गया। इसमें रह रहे तीन लोग लापता हो गए हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार 24 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ-साथ भूस्खलन और प्लेश फलड होने की आशंका है।

रायगढ़ में अब तक 26 लोगों की मौत

मुंबई। रायगढ़ जिले के आपदाग्रस्त इरशालवाड़ी गांव में शनिवार को तीसरे दिन मलबे में दबे तीन और शव मिले हैं। इनमें एक पुरुष का और दो महिलाओं के शव हैं। अब तक इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 143 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि 87 लोगों की तलाश अभी भी जारी है।

चमोली करंट हादसे में तीन गिरफ्तार

गोपेश्वर। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए दर्दनाक करंट हादसे के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चमोली के पुलिस अधीक्षक प्रमोद डोवाल ने बताया कि नमामि गंगे के मजलज शोधन संक्र (एसटीपी) में विद्युत उपकरणों के संचालन में घोर लापरवाही बरते जाने के आरोप में जल संस्थान के चमोली में कार्यरत इंजीनियर हरदेवलाल आर्य, बिजली विभाग के लाइनमैन महेंद्र सिंह और एसटीपी का संचालन कर रही संयुक्त उपक्रम कंपनी के स्थानीय सुपरवाइजर पवन चमोला को गिरफ्तार किया गया है।

बांग्लादेश : तालाब में गिरी बस, 17 की मौत ढाका

बांग्लादेश के झालाकाटी जिले में एक यात्री बस के तालाब में पलट जाने से कम से कम 17 लोगों की जान घली गई। हादसे में 35 अन्य घायल हो गए। घायलों को झालाकाटी जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा आज सुबह करीब 9:55 बजे झालाकाटी-पिरोजपुर क्षेत्रीय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा को साइड देते समय हुआ। बस पिरोजपुर के भंडारिया उप जिला से बरिशाल राह रही थी। ऑटो रिक्शा को साइड देते समय स्थानीय सड़क परिषद कार्यालय के पास चालक के नियंत्रण खो देने के कारण बस तालाब में गिर गई।

ट्रंप पर अगले साल से चलेगा मुकदमा

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप को अगले साल मई से संघीय अदालत के कठघरे में खड़ा होना होगा। संघीय अदालत के न्यायाधीश एलीन एम. केनन ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के लिए तारीखों की घोषणा की। उन्होंने पहली तारीख 20 मई, 2024 मुकदमे की है। ट्रंप पर संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 31 गोपनीय दस्तावेजों को अवैध तरीके से अपने पास रखने का आरोप है।

अमेरिकी नौसेना रवेगा इतिहास, प्रमुख के लिए महिला नामित

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार नौसेना की कमान एडमिरल लिंसा फ्रैंचेटी को इस पद के लिए नामित किया है। बिडेन ने फ्रैंचेटी को नौसेना के शीर्ष अधिकारी के रूप में चुना है। यह एक ऐतिहासिक निष्पत्ति है जो अमेरिकी नौसेना के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला और संयुक्त चीफ ऑफ स्टफ में पहली महिला होगी।

इसरो और नौसेना ने गगनयान के लिए किया हार्बर रिक्वरी परीक्षण

एजेंसी

नयी दिल्ली। इसरो और भारतीय नौसेना ने मिशन गगनयान के लिए विशाखापत्तनम हार्बर में मानव अंतरिक्ष मिशन क्रू मांड्यूल रिक्वरी और लिफ्टिंग परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इसरो ने यह परीक्षण विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना के एक जहाज पर किये हैं। भारत का लक्ष्य 2025 तक 400 किमी ऊपर अंतरिक्ष यात्री भेजने का है। मिशन गगनयान की क्रू रिक्वरी टीम के पहले बैच को कोच्चि में नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा (डब्ल्यूएसटीएफ) में पहले चरण का परीक्षण दिया गया है।

मिशन का अभियान दूसरे चरण में किया प्रवेश

► क्रू रिक्वरी टीम के पहले बैच को नौसेना ने कोच्चि में दिया है पहला प्रशिक्षण
► लांदिंग में भी शामिल होगी यह प्रशिक्षित टीम

विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंदरगाह परीक्षणों की शुरूआत के साथ गगनयान मिशन का रिक्वरी परीक्षण संचालन दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से 20 जुलाई को परीक्षण वाहन के पहले विकास मिशन के दौरान पुनर्प्राप्ति कार्यों के



लिए पहचाने गए जहाज के साथ परीक्षण किया। विशाखापत्तनम

स्थित पूर्वी नौसेना कमान में इसरो और भारतीय नौसेना ने गगनयान

कोयला घोटाले में आइएएस अधिकारी रानू साहू गिरफ्तार

एजेंसी

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रानू साहू को शनिवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसने उसे तीन दिन के लिए केन्द्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि एजेंसी ने साहू को गिरफ्तार कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया। अदालत ने आइएएस अधिकारी को तीन दिन के लिए केन्द्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। पांडेय ने बताया कि कोयला लेवी से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच ईडी कर रही है। जांच में कोरबा और रायगढ़ जिले की कलेक्टर रह चुकीं साहू की सलिलपता सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साहू की 5.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। उन्होंने बताया कि मामले

कोर्ट ने तीन दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेजा

► छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी से जुड़े मनी लाँडिंग मामले की ईडी कर रही है जांच
► कोरबा और रायगढ़ के पूर्व डीएम साहू की 5.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि साहू से पूछताछ करने के लिए उसकी 14 दिनों की हिरासत मांगी गई थी, जिसपर अदालत ने 25 जुलाई तक तीन दिनों की हिरासत मंजूर की है। इससे पहले साहू के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने कहा कि साहू को 22 अक्टूबर से 23 जनवरी के बीच जब-जब बुलाया गया है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। साहू की गिरफ्तारी फर्जी आधार पर की गई है। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो साबित करता हो कि साहू इसमें शामिल हैं। जो संपत्ति कुर्क की गई है वह उनके माता-पिता की है और वह 2019 से पहले की अर्जित है। जबकि ईडी

शुक्रवार को रायपुर स्थित आवास में हुई थी छापेमारी



ने जिस अपराध की बात कही है वह 2020 की है। रिजवी ने बताया कि साहू ने अदालत में पेश होने के बाद कहा कि मेरी भी सुनी जाए। मुझे जितना बताना था बताना दिया है। अब इनके पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अदालत से प्रार्थना है कि मुझे ईडी की हिरासत में न भेजा जाए। साहू के अधिवक्ता ने कहा कि ईडी ने वाट्सअप चैट के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने सवाल किया, क्या ईडी को अधिकार है कि वह किसी का भी व्हाट्सअप चैट निकाल सकती है और क्या उन्होंने इसके लिए अदालत से

अनुमति ली थी? छत्तीसगढ़-कैडर की 2010 बैच की आइएएस अधिकारी साहू वर्तमान में राज्य के कृषि विभाग में निदेशक के रूप में तैनात हैं। इस पोस्टिंग से पहले उन्होंने कोयला समृद्ध कोरबा और रायगढ़ जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य किया था। कोयला घोटाले में गिरफ्तार होने वाली रानू साहू दूसरी आइएएस अधिकारी हैं। इससे पहले ईडी ने समीर विश्वाणंद को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जेल में हैं। आयकर विभाग की एक शिकायत के संज्ञान लेने के बाद ईडी ने धन शोधन की जांच शुरू की थी।

उत्तर कोरिया ने चार क्रूज मिसाइलें दागीं

एजेंसी

प्योंगयांग/सोल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच घमासान थपने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर चार क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इस पर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को न सुधरने पर चिह्न जोंग-उन शासन के अंत की चेतावनी दे डाली है। उत्तर कोरिया ने शनिवार सुबह एक बार फिर क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य प्रमुख ने कहा कि उत्तर कोरिया की तरफ से सुबह करीब चार बजे चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच यलो सी में चार क्रूज मिसाइलें दागी गईं। संयुक्त सैन्य प्रमुख के मुताबिक दक्षिण कोरिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इन हरकतों पर करीब से नजर रख रही हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार बढ़ते मिसाइल और रॉकेट परीक्षणों के

दक्षिण कोरिया ने दी किम शासन के अंत की चेतावनी



बीच दक्षिण कोरिया ने किम जोंग-उन शासन के लिए चेतावनी जारी की है। सोल की तरफ से कहा गया है कि अगर उत्तर कोरिया उस पर किसी भी तरह का परमाणु हमला करता है, तो यह किम जोंग-उन के नेतृत्व वाले शासन का अंत होगा। चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि क्षेत्र में अमेरिका की परमाणु क्षमता वाली सबमरीन और अन्य कूटनीतिक संपत्तियों की तैनाती उसके न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की मजबूरी बन सकती है।

स्टार्टअप स्काईरूट के रॉकेट इंजन का इसरो ने किया सफल परीक्षण

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हैदराबाद के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के रॉकेट इंजन का एक सफल परीक्षण किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) ने यह जानकारी दी। इसरो ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आईपीआरसी में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी (एलटीटीएफ) में शुक्रवार के परीक्षण में रमन-2 इंजन का इस्तेमाल किया गया, जिसे स्काईरूट ने 820 न्यूटन (समुद्र स्तर) और 1,460 न्यूटन (वैक्युम) बल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया है। इसका सामान्य चैम्बर दबाव 8.5 बार एम्बोल्यूट है। इंजन में मोनो मिथाइल हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का प्रणोदक के रूप में उपयोग किया गया है। बयान में कहा गया है कि 10 सेकंड अवधि का यह परीक्षण कई लक्षित मानदंडों पर खरा उतरा।

मणिपुर में महिलाओं का हिंसक प्रदर्शन

एजेंसी

इंफाल। मणिपुर में दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरोध में शनिवार को इंफाल में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मणिपुर की राजधानी इंफाल के घाटी इलाके में आज सुबह सैकड़ों महिलाएं कार के टायर जलाकर और सड़क अवरोध करके हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। सुबह करीब 9 बजे स्थिति उस समय अराजक हो गई, जब महिलाओं ने सड़क के दोनों तरफ जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ अभद्र नारे लगाए। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स और सेना के साथ त्वरित कार्रवाई की। हथियारों के मुताबिक जब सुरक्षाकर्मियों ने

पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले



निर्वस्त्र घुमाने में अब तक छह गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर पुलिस ने चार मई को बी फीनोम गांव में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने में कथित सलिता को लेकर अब तक एक किशोर सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक बयान के अनुसार राज्य पुलिस कई सदृश ठिकानों पर छापेमारी करके शेष अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच, टी.जी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शनिवार को सरकार से इंफाल के रहने वाले दो स्कूली छात्रों का पता लगाने का आग्रह किया है।

टायर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी महिलाएं हिंसक हो गईं। तब

स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

संवेदनशील मामले पर चर्चा करना नहीं चाहता विपक्ष : ईरानी

नयी दिल्ली। मणिपुर वायरल वीडियो पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष संसद में चर्चा नहीं करना चाहता। स्मृति ने शनिवार को कहा कि मणिपुर वायरल वीडियो मुद्दा न केवल संवेदनशील है, बल्कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी है पर वे इस मुद्दे पर विपक्ष संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। स्मृति ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा करना चाहती थी लेकिन आश्चर्य है कि विपक्ष ने इससे इनकार कर दिया। ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बारे में सच्चाई नहीं सुनना चाहती है।

सपना चौधरी का पैपी हरियाणवी नंबर नंदी के बीर हुआ रिलीज



मुंबई। टी सीरीज ने सपना चौधरी का पैपी हरियाणवी नंबर नंदी के बीर रिलीज किया है। टी सीरीज ने एक हरियाणवी अपवोट सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका टाइटल नंदी के बीर है, जिसमें बिगबॉस 3 फेम सपना चौधरी नजर आ रही हैं और उनके साथ विवेक राघव दिख रहे हैं। यह एक पैपी रोमांटिक नंबर है। यह गाना अब टी सीरीज के वूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

वर्मा प्रेस प्रा0 लि0 राँची	
Verma's Today	
शुंखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं—	
Class - X	Class - IX
• Hindi ₹ 140	• Hindi ₹ 140
• English ₹ 140	• English ₹ 140
• Mathematics ₹ 140	• Mathematics ₹ 140
• Science ₹ 140	• Science ₹ 140
• Social Science ₹ 140	• Social Science ₹ 140
• Sanskrit ₹ 120	• Sanskrit ₹ 120
• Hindi - B ₹ 140	• Hindi - B ₹ 80
• Hindi Vyakaran - I ₹ 120	• Hindi Vyakaran - I ₹ 120
• English Grammar - II ₹ 120	• English Grammar - II ₹ 120
• Sanskrit Vyakaran - II ₹ 100	• Sanskrit Vyakaran - II ₹ 100
• Hindi Practical ₹ 55	• Hindi Practical ₹ 55
• English Practical ₹ 55	• English Practical ₹ 55
• Maths. Practical ₹ 65	• Maths. Practical ₹ 55
• Science Practical ₹ 65	• Science Practical ₹ 70
• S. Science Practical ₹ 65	• S. Science Practical ₹ 65
• Sanskrit Practical ₹ 55	• Sanskrit Practical ₹ 55
• Maths. Practical (Combined) ₹ 90	• Maths. Practical (Combined) ₹ 75
• Science Practical (Combined) ₹ 90	• Science Practical (Combined) ₹ 75
English Medium	English Medium
• Mathematics ₹ 200	• Mathematics ₹ 130
• Science ₹ 200	• Science ₹ 200
• Social Science ₹ 200	• Social Science ₹ 130
• Maths. Practical ₹ 80	• Maths. Practical ₹ 80
• Science Practical ₹ 80	• Science Practical ₹ 80
• S. Science Practical ₹ 80	• S. Science Practical ₹ 80
मिलते-जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान !	

बिना दवा के कोलेस्ट्रॉल-ब्लड प्रेशर सहित 5 बीमारियां होंगी कंट्रोल, बस करें छोटा से ये काम

बदलते जीवनशैली में लोग आस-पास की जगह जाने के लिए भी बाइक, स्कूटी या कार का इस्तेमाल करते हैं। पैदल चलना लोगों का बहुत कम हो पाता है। वॉक करने से आपका शरीर फिट और तंदुरुस्त रहेगा। नियमित रूप से वॉकिंग करने से कोलेस्ट्रॉल, बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी कंट्रोल में रहती हैं। आज हम आपको वॉकिंग के 5 बेहतरीन फायदों के बारे में बताएंगे। जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे।

कोलेस्ट्रॉल रहता है कंट्रोल

रोजाना करीब 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करने से हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (अल्हअ) की रिपोर्ट के मुताबिक, नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से कम हो सकता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। नियमित रूप से ब्रिस्क वॉक करने से हार्ट डिजीज का जोखिम भी कम होता है।

कंट्रोल में रहेगी बीपी

एक रिसर्च के मुताबिक, दिन में तीन बार दस मिनट की मॉडरेट या ब्रिस्क वॉक करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आसानी होती है। वॉक करने से ब्लड वेसल्स की स्प्रिफनेस दूर होती है और खून का फ्लो आसानी से बेहतर हो सकता है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वॉक करने से शरीर में ब्लड फ्लो आसानी से होता है साथ ही धमनियों को कोई नुकसान नहीं होता है।

वजन घटाने में कारगर

वॉक करने से आपको कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी। कैलोरी बर्न होने से आपको वजन कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, वॉकिंग से वजन कितना कम होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। आपके वॉक करने की स्पीड और दूरी से वजन कम होने का कनेक्शन है।

डायबिटीज कंट्रोल में मिलेगी मदद



खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एक रिसर्च के अनुसार, दिन में 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 15 से 30 मिनट तक वॉक करने से ब्लड शुगर के स्तर में काफी सुधार हुआ। हालांकि इस बारे में ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। भोजन के बाद टहलने को अपना रूटीन बनाना बेहद लाभकारी है।

घुटनों का दर्द में आराम

नियमित रूप से वॉक करने से घुटनों और अन्य जॉइंट्स पेन को कम करने में मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टहलने से जोड़ों को सहारा देने वाली मांसपेशियों को चिकनाई और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इससे अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों को दर्द कम करने में मदद मिल सकती है।

पेट की चर्बी कम करने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स, मिलेंगे चमत्कारी रिजल्ट्स

आजकल को सबसे गंभीर समस्या मोटापा बन गया है। इसका मुख्य कारण है खराब खान-पान और सुस्त जीवनशैली। जिसकी वजह से बहुत लोग अपने बढ़ते वजन से दुखी हैं। इसके लिए गर्म पानी का सेवन करें। सुबह-सुबह गर्म पानी पीने से आपका पेट अच्छे से साफ होगा। इससे कितने दिनों का भी पुराना पड़ा मल साफ हो जाएगा। रोजाना सुबह ब्रश करने से पहले गर्म पानी का सेवन करें। इससे आपका फैट कम करने में मदद मिलेगी। शुगर खाना कर दें बंद अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मीठा खाना बंद करना होगा। क्योंकि मीठ खाद्य पदार्थ में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। साथ ही इससे आपके शरीर को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मिठाई, चॉकलेट, कैंडी, केक, बिस्किट इत्यादि से दूरी बना लें।

प्रोटीन को बढ़ाएं

रिसर्च में यह पाया गया है कि प्रोटीन आपके मोटापे को कम करने में मदद करता है। क्योंकि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ पचन में समय लगाता है। जिस वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। ओट्स, चना, राजमा, दूध, दही, पनीर, नट्स और सब्जियों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए आप रोजाना प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें।

ना खाएं तला हुआ खाना

तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। क्योंकि एक दिन भी अगर आप तला हुआ खाना खा लेंगे तो यह आपके पेट पर साफ दिखने लगेगा। क्योंकि तले हुए खाने का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। जो सीधा आपके शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है। इसलिए समोसा, टिक्की, भटूरा, पकौड़े इत्यादि को बिल्कुल न खाएं। तले हुए खाने से तौबा कर लें। आप सब्जी में कच्चा घी डालकर खा सकते हैं। आप बादाम, नारियल इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं।

आटे की जगह चोकर बाला आटे का सेवन करें। जूस की जगह पूरा फल खाएं। फूड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो आपके पेट के लिए काफी फायदेमंद है। इससे आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा। जिससे आपके शरीर में एक्सट्रा फैट जमा नहीं होगा। साथ ही यह आपके शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी प्रदान करता रहेगा।

शाम 7 बजे के बाद ना खाएं

यह मोटापा कम करने में सबसे महत्वपूर्ण है। शाम का खाना आपको शाम 7 बजे के बाद नहीं खाना है। सिर्फ ये टिप्स बहुत असरदार है। इससे आप तेजी से अपना तौंद कम कर सकते हैं। क्योंकि रात के वक्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो जाता है। जिससे हमारा खाना सही तरीके से हजम नहीं हो पाता। और एक्सट्रा फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है।

झमाझम बारिश में भीगने के बाद भी नहीं पड़ेंगे बीमार



देश के लगभग हर राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है। कई स्थानों पर कुछ दिनों के अंतरात पर, तो कहीं लगातार बारिश ने चारों तरफ हरियाली बिखेर दी है। ऐसे में काम की

वजह से आपको घर से भी जाना पड़ता होगा। मानसून में होने वाली बरसात कई बीमारियों की वजह भी बन जाती है। इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप बारिश में भीग जाते

हैं तो। आज हम कुछ टिप्स बताते जा रहे हैं जिसको अपनाकर आप बारिश के मौसम में सेहतमंद रह सकते हैं। बारिश में भीगने के बाद लोगों को सबसे पहले सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या

होती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वह सर्दी खांसी और जुकाम की चपेट में आने के बाद तुरंत बुखार से भी पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही बारिश में भीगने के बाद सिरदर्द, स्किन एलर्जी और आंखों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है।

बारिश के दौरान सिर को ढक लें

अगर बारिश में कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिर को ढकने की कोशिश करें। क्योंकि सिर हमारे शरीर का पहला हिस्सा होता है जहां पर बारिश का पानी सबसे पहले पड़ता है। हमारे शरीर की पूरी कार्यप्रणाली सिर के जरिए ही संचालित होती है। ऐसे में इसको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर का हिस्सा कोमल होने की वजह से यह ठंड से भी जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि बारिश का पानी सिर पर जितना कम हो सके, उतना कम पड़े। घर आते ही बदले कपड़े बारिश में भीगने के बाद घर आने पर सबसे पहले आप कपड़े बदले। इससे आप बीमार पड़ने से बच सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर का तापमान सामान्य अवस्था में आ जाएगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। कपड़ों को तुरंत बदलने के कारण आप फंगल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं।

कपड़े बदलने के बाद लगाएं

एंटीबैक्टीरियल क्रीम

बारिश में भीगने के बाद जब आप घर आएं तो सबसे पहले कपड़े बदलकर किसी एंटीबैक्टीरियल क्रीम को पूरे शरीर में लगाएं।

सेहत के लिए लाभकारी है हरी मिर्च करती है पांच रोगों का ईलाज

स्वाद के साथ-साथ आपके सेहत के लिए भी लाभकारी है हरी मिर्च, करती है इन 5 बीमारियों को दूर

आजकल की खराब लाइफस्टाइल हमारे सेहत के हानिकारक है। इसकी वजह से आए दिन कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नियमित सेवन करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इन्हीं में से एक है हरी मिर्च। इसके फायदे अनेक हैं। आप सब्जी में लाल मिर्च की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह हमारे हाजमा को ठीक करती है। हार्ट के लिए भी हरी मिर्च का सेवन लाभप्रद है।

आजकल की खराब लाइफस्टाइल हमारे सेहत के हानिकारक है। इसकी वजह से आए दिन कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नियमित सेवन करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इन्हीं में से एक है हरी मिर्च (हील्थीइर ड्रू ग्रीन्स डैब्लू)। इसके फायदे अनेक हैं। आप सब्जी में लाल मिर्च की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह हमारे हाजमा को ठीक करती है। हार्ट के लिए भी हरी मिर्च का सेवन लाभप्रद है।

हरी मिर्च खाने के 5 फायदे

हार्ट रखता है हेल्दी



हरी मिर्च का सेवन करने से हार्ट हेल्दी रहता है। इसके सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में फायदा मिलता है। हाई बीपी के मरीजों को लाल की जगह हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। हरी मिर्च के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जिससे एथेरोस्लेरोसिस जैसी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है।

डायबिटीज में फायदेमंद है हरी मिर्च

हरी मिर्च के सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी है। नियमित रूप से दिन में एक हरी मिर्च खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। हरी में कैप्साइसिन पाया जाता है जो एंटीडायबिटिक गुणों से भरपूर होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को हरी मिर्च खाना शुरू

कर देनी चाहिए। इसके सेवन से हाई ब्लड शुगर के खतरे से बच सकते हैं।

इम्यूनिटी करता है बूस्ट

हरी मिर्च के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हरी मिर्च में वीटा कैरोटीन पाई जाती है। यह एक खास तरह एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है।

पाचन क्रिया होता है मजबूत

हरी मिर्च के सेवन से हमारे शरीर को विटामिन सी मिल जाता है। जो हमारे पाचन को मजबूत करता है। इसके अलावा मिर्च खाने से मुंह में लार ज्यादा बनती है। जिसमें एंजाइम होते हैं। इससे हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। अगर किसी को पाचन से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे हरी मिर्च का सेवन शुरू कर देना चाहिए।

वजन कंट्रोल करती है हरी मिर्च

मोटापा को कम करने के लिए हरी मिर्च का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का सेवन करें। हरी मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म तो तेजी से बढ़ाती है। जिसके खाना सही तरीके से पच जाता है। जो बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में कारगर है। साथ ही हरी मिर्च में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जिससे कील व मुहांसे भी दूर होते हैं।

रातभर में पीले दांतों से छुटकारा दिलाएगा घर में मौजूद ये पौधा



दांतों का पीला होना या गंदा होना आपकी सुंदरता के साथ-साथ आपके हेल्थ के लिए भी घातक है। दांतों के पीलेपन को टाट्टर कहते हैं जो दांतों को पीला बनाती है इसलिए टाट्टर की सफाई जरूरी है। टाट्टर की वजह से गंदगी दांतों और मसूड़ों की जड़ों में घुस जाती है। जिससे दांत और मसूड़े कमजोर होती है। साथ ही इसकी वजह से पायरिया, कैविटी, दांतों में खून आना मसूड़ों में दर्द होना सेंसिटिविटी और मुंह से बदनू जैसी समस्या होती है।

दांतों के लिए अबूल

दांतों के लिए अबूल: दांतों के लिए अबूल बहुत लाभदायक है। पुराने

समय में लोग अबूल का दातुन से ही ब्रश किया करते थे। आज भी गांवों में लोग इसका इस्तेमाल दातुन के रूप में करते हैं। दांतों में सफेदी लाने के लिए अबूल एक प्रभावी जड़ी बूटी है। अबूल में टैनिन पाया जाता है जो दांतों को सफेद बनाने में मदद करता है।

तुलसी का पौधा: हमारे घरों में मौजूद तुलसी का पौधा दांतों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर से आप ब्रश करें। दांतों को सफेद करने के लिए यह बहुत असरदार है। यह दांतों को मजबूत भी बनाती है। साथ ही यह पायरिया जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने में कारगर है।

नीम: नीम हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। इसकी टहनियों का उपयोग दातुन के रूप में करने से आपकी दांत चमक उठेगी। साथ ही नीम के तेल में सांसें की दुर्गंध को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीम मुंह होने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी कारगर है। जिससे आप कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं।

त्रिफला: मुंह को साफ रखने में त्रिफला बहुत फायदेमंद है। इसके सेवन से आपके दांत सफेद रहेंगे और मुंह के छालों की समस्या में भी राहत मिलेगी। इसके सेवन के लिए आप त्रिपुरा को पानी को उबालें।

लेकिन जब उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा होती है तो वही स्टेम सेल्स, रक्त कोशिकाओं के उत्पादन पर असर करते हैं। शरीर में खून बनने की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। इससे कमजोरी आने लगती है।

शरीर में 70 वर्ष के बाद तेजी से कमजोरी आती है। उम्र का असर अचानक दिखने लगता है, क्योंकि 70 के बाद त्वचा से मरिक्तक तक एक जैसे बदलाव होते हैं। इसकी पुष्टि हाल ही में हुए एक शोध में हुई। शोध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति 40-50 वर्ष की उम्र में होता है तो अस्वाम्य स्टेम कोशिकाओं के विकास से उसके शरीर पर बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन जब उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा होती है तो वही स्टेम सेल्स, रक्त कोशिकाओं के उत्पादन पर असर करते हैं। शरीर में खून बनने की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। इससे कमजोरी आने लगती है।

यह है मुख्य कारण

वेलकम-एमआरसी कैम्ब्रिज स्टेम सेल इंस्टीट्यूट में डॉ. पीटर कैपबेल और उनके सहयोगियों ने नवजात शिशुओं से लेकर 80

साल तक की उम्र वाले लोगों में रक्त कोशिकाओं पर अध्ययन किया। इसमें पाया कि 65 वर्ष तक की उम्र में शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए रोग-प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जो बाद में कमजोर पड़ने लगती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, रक्त बनाने में शामिल स्टेम सेल्स में समय के साथ म्यूटेशन होता है, जो धीरे-धीरे सामने आने लगता है।

प्रभावित होती वॉकिंग कैपेसिटी



देश में हर साल 60 फीसदी मौतें संक्रामक नहीं बल्कि गैर संचारी रोगों की वजह से हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार आज के समय गैर संचारी रोग संक्रामक रोगों से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं जिसमें दिल की बीमारी का हिस्सा सबसे ज्यादा 28 फीसदी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के



इस दावे का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में हर साल 61.8 फीसदी मौतें गैर संक्रामक रोगों के कारण होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जानलेवा दिल की बीमारी है जबकि दूसरा नंबर श्वसन संबंधी बीमारियों का है। करीब 11 फीसदी मौतें इस बीमारी के कारण होती हैं जबकि 8.3 फीसदी मौतें कैंसर से होती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में

ऐसा करने से आपके शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे और आप किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी की चपेट में आने से बच जाएंगे। एंटीबैक्टीरियल क्रीम को लगाने से आपको दाद, खाज और खुजली की समस्या परेशान नहीं करेगी। सिर को अच्छी तरह पोछें

अगर बारिश में आपका सिर भी भीग गया है तो घर आते ही अपने सिर को तौलिए से अच्छी तरह पोछें। सिर पर अगर ज्यादा देर तक बारिश का पानी रहता है तो आप सर्दी जुकाम और खांसी की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही आपको बुखार भी हो सकता है।

बारिश के मौसम में करें इन 3 होममेड चाय का सेवन, बीमारियां रहेंगी दूर

गर्म चाय या काढ़े का करें सेवन

भीगने के बाद घर आकर चाय का काढ़े का सेवन जरूर करें। ऐसा करने से बीमार होने का खतरा टल जाएगा। यह न केवल आपके शरीर को एनर्जी बूस्ट करेगा साथ ही बारिश की वजह से शरीर के गिरे हुए तापमान को भी मेटेन करेगा। साथ ही काढ़े के सेवन से आपनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी।

पैरों को अच्छी तरह धो लें

बारिश से आने के बाद जूते-चप्पल को खोलकर पैरों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह तौलिए से पोछ लें। ऐसा करने से पैरों की फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पैरों की सफाई नहीं करने पर आप पैरों की उंगलियों के बीच होने वाले फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं।

सरकार ने गैर संचारी रोगों पर पूरी तरह लागू लगाने की तैयारियों के तहत बीमारी की पूर्व जांच के अलावा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को वेलनेस सेंटरों में तब्दील किया गया है। जहां लोगों को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए हर तरह के रोकथाम के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक

बहुक्षेत्रीय कार्य योजना भी तैयार की है जिसका लक्ष्य गैर संचारी रोगों से बचाव के उपायों के लिए सभी मंत्रालयों और पक्षों को एक साथ लाना है। इस काम में विश्व बैंक और नीति आयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है और एक ऐसा मसौदा तैयार करने की कोशिश हो रही है जो सर्वमान्य हो। अधिकतर मौतों के पीछे कैंसर, मधुमेह

व दिल की बीमारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी की है जिसका लक्ष्य गैर संचारी रोगों से बचाव के उपायों के लिए सभी मंत्रालयों और पक्षों को एक साथ लाना है। इस काम में विश्व बैंक और नीति आयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है और एक ऐसा मसौदा तैयार करने की कोशिश हो रही है जो सर्वमान्य हो। अधिकतर मौतों के पीछे कैंसर, मधुमेह

70 के बाद तेजी से क्यों दिखता है उम्र का असर? यहां जानिए असली वजह

शरीर में 70 वर्ष के बाद तेजी से कमजोरी आती है। उम्र का असर अचानक दिखने लगता है, क्योंकि 70 के बाद त्वचा से मरिक्तक तक एक जैसे बदलाव होते हैं। इसकी पुष्टि हाल ही में हुए एक शोध में हुई। शोध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति 40-50 वर्ष की उम्र में होता है तो अस्वाम्य स्टेम कोशिकाओं के विकास से उसके शरीर पर बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन जब उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा होती है तो वही स्टेम सेल्स, रक्त कोशिकाओं के उत्पादन पर असर करते हैं। शरीर में खून बनने की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। इससे कमजोरी आने लगती है।

शरीर में 70 वर्ष के बाद तेजी से कमजोरी आती है। उम्र का असर अचानक दिखने लगता है, क्योंकि 70 के बाद त्वचा से मरिक्तक तक एक जैसे बदलाव होते हैं। इसकी पुष्टि हाल ही में हुए एक शोध में हुई। शोध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति 40-50 वर्ष की उम्र में होता है तो अस्वाम्य स्टेम कोशिकाओं के विकास से उसके शरीर पर बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन जब उसकी उम्र 70 साल से ज्यादा होती है तो वही स्टेम सेल्स, रक्त कोशिकाओं के उत्पादन पर असर करते हैं। शरीर में खून बनने की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। इससे कमजोरी आने लगती है।

यह है मुख्य कारण

वेलकम-एमआरसी कैम्ब्रिज स्टेम सेल इंस्टीट्यूट में डॉ. पीटर कैपबेल और उनके सहयोगियों ने नवजात शिशुओं से लेकर 80



साल तक की उम्र वाले लोगों में रक्त कोशिकाओं पर अध्ययन किया। इसमें पाया कि 65 वर्ष तक की उम्र में शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए रोग-प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जो बाद में कमजोर पड़ने लगती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, रक्त बनाने में शामिल स्टेम सेल्स में समय के साथ म्यूटेशन होता है, जो धीरे-धीरे सामने आने लगता है।

प्रभावित होती वॉकिंग कैपेसिटी

म्यूटेशन और हार्मोन्स में बदलाव शरीर के काम करने की क्षमता को धीरे-धीरे कम करते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होते हैं उबले आलू, जानें इसके कमाल के फायदे

उबले आलू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद

उबले आलू कई सारे पोषक तत्व के गुणों से भरपूर होते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उबले आलू का सेवन करना फायदेमंद होता है। उबले आलू में विटामिन-सी, बी-कॉम्प्लेक्स, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व के भरपूर गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें कैलोरी और फैट कम होता है। उबला हुआ आलू पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा

उबले आलू का सेवन करने से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं उबले आलू का सेवन करने से सेहत को मिलने वाले फायदे के बारे में

पाचन संबंधी समस्या

पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उबले आलू का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि उबले आलू में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। साथ ही यह पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत

इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उबले आलू का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि उबले आलू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर को वायरस और बैक्टीरिया के चपेट में आने से भी बचाने में मदद करता है।

